

**वर्ष 2019-20 के लिए
स्पाइसेस बोर्ड की
लेखा-परीक्षा रिपोर्ट**

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट	क - ड.
2	तुलन - पत्र	1
3	आय - व्यय लेखा	2 - 3
4	प्राप्ति और अदायगी लेखा	4
5	तुलन पत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां	5 - 29
6	आय - व्यय लेखे का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां	30 - 39
7	प्राप्ति और अदायगी लेखे का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां	40 - 57
8	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और लेखे पर टिप्पणियाँ	58 - 61

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्पाइसेस बोर्ड के लेखे पर भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हम ने स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 24 के साथ पठित नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची (बोर्ड) के संलग्न तुलन-पत्र, जैसे कि 31 मार्च 2020 को है, और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय - व्यय लेखे और प्राप्त और अदायगी लेखे की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में बोर्ड की यूनिटों/शाखाओं के लेखे शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण बोर्ड के मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी हैं। हमारी ज़िम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करने की है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, केवल वर्गीकरण, उत्तम लेखा रीतियाँ, लेखा मानकों एवं प्रकटीकरण-मानकों आदि के अनुसार लेखा प्रणाली पर भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (सी ए जी) की टिप्पणियाँ निहित हैं। विधि, नियम व विनियम (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता व निष्पादन पहलू आदि, यदि कोई हो, के अनुपालन संबंधी वित्तीय लेन-देन पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के ज़रिए अलग से रिपोर्ट की जाती हैं।
3. हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। ये मानक यही अपेक्षा करते हैं कि इसके बारे में उचित आश्वासन प्रकट करने के लिए हम इस लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करते हैं कि क्या ये वित्तीय विवरण गलत वस्तुगत विवरणों से रहित हैं। लेखापरीक्षा में, जांच आधार पर, वित्तीय विवरणों की राशियों एवं प्रकटन का समर्थन करनेवाले प्रमाणों की परख शामिल है। लेखापरीक्षा में मैनेजमेंट द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों एवं तैयार किए गए उल्लेखनीय आकलनों का निर्धारण तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा अपनी राय के लिए एक उचित आधार मुहैया करती है।
4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (i) हमें सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण, अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थीं, प्राप्त हुई हैं।
 - (ii) इस रिपोर्ट में दिये गए तुलन-पत्र, आय-व्यय तथा प्राप्त और अदायगी लेखा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित फॉर्मेट में तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में, स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 23 के अधीन अपेक्षित समुचित लेखा-बहियाँ एवं अन्य संगत रिकार्ड उचित रूप से बोर्ड द्वारा बनाए रखे गए हैं, जैसे कि ऐसी बहियों की हमारी परीक्षा से लगता है।

(iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

(अ) तुलन-पत्र

1. देनदारियाँ

1.1 उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियां- 240.46 करोड़ रुपए

1.1 उपर्युक्त को, 'निधियों के खाते में किए गए निवेश से आय' के शीर्ष के अधीन उद्दिष्ट निधियों (पेंशन देनदारियाँ) में जमा करने के बदले, आय एवं व्यय खाते में आय के रूप में वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज के लेखाकरण के कारण 3.52 करोड़ रुपए कम करके दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियों तथा आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता में 3.52 करोड़ रुपए की न्यूनोक्ति हुई है। यह टिप्पणी वर्ष 2018-19 के पृ.ले.रि. में भी उठाई गई थी लेकिन बोर्ड द्वारा कोई सुधारात्मक कार्य नहीं किया गया ।

1.2 उपर्युक्त को, वर्ष 2019-20 के दौरान, उद्दिष्ट पेंशन निधियों पर, उपचित ब्याज के गैर-लेखाकरण के कारण 2.12 करोड़ रुपए कम करके दिखाई गई है। इसके परिणामस्वरूप उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियों तथा चालू परिसंपत्तियों (उपचित आय) की 2.12 करोड़ रुपए की न्यूनोक्ति हुई है।

2. परिसंपत्तियां

2.1 स्थिर परिसंपत्तियां : 200.16 करोड़ रुपए

उपर्युक्त को, मसाला पार्को तथा गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं का, उनके(निर्माणकार्य) पूरे होने तथा कार्य प्रारंभ होने के बावजूद भी, गैर-पूँजीकरण के कारण 1.45 करोड़ रुपए कम करके दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप भी प्रक्रियाधीन पूँजी-कार्य की अत्युक्ति हुई है। वैसे, इन परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का चार्ज न लगाए जाने का प्रभाव, लेखापरीक्षा द्वारा अनुमान नहीं लगाया जा सका क्योंकि इनके इस्तेमाल किए जाने की तारीख नहीं बताई गई थी।

(आ) आय और व्यय

आय

उपचित ब्याज : 6.77 करोड़ रुपए

उपर्युक्त को, वर्ष 2019-20 के दौरान, अल्प-कालीन जमा पर, उपचित ब्याज के गैर-लेखाकरण के कारण 0.16 करोड़ रुपए कम करके दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप भी उसी सीमा तक चालू परिसंपत्तियों (उपचित ब्याज) की न्यूनोक्ति हुई है।

(इ) सामान्य

1. आकस्मिक देयताओं की अनुसूची 67 और लेखाओं पर टिप्पणी के अनुसार, यह कहा गया है कि संस्था की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख-पत्र, शून्य दिखाया गया है। वैसे, जैसेकि 31 मार्च, 2020 को है, बोर्ड ने चार साख-पत्र खोला था। जैसा कि प्रकटीकरण उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है।

2. बोर्ड ने अपने प्रत्येक क्षेत्र इकाइयों के लिए अग्रदाय निश्चित किया है। बोर्ड ने इस अग्रदाय को स्थाई अग्रिम कार्यालय अग्रदाय के रूप में चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत दिखाया है। क्षेत्र इकाइयों द्वारा खर्च की गई राशि की, बोर्ड द्वारा अपनी लेखाकरण-प्रणाली में व्यय दर्ज करने के बाद, प्रतिपूर्ति की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, क्षेत्र इकाइयों द्वारा किए गए व्यय, जिसकी 31 मार्च, 2020 तक बोर्ड द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं की गई है, उसके परिणामस्वरूप स्थाई अग्रिम कार्यालय अग्रदाय की अत्युक्ति और वर्ष के लिए बोर्ड के व्यय की न्यूनोक्ति हुई है।

इसके अलावा, क्षेत्र इकाइयों के नकद का इतिशेष और बैंक शेष का स्थाई अग्रिम कार्यालय अग्रदाय के अंतर्गत दिखाने की वर्तमान प्रथा के परिणामस्वरूप बोर्ड के नकद/बैंक शेष की न्यूनोक्ति और स्थाई अग्रिम कार्यालय अग्रदाय की अत्युक्ति हुई है।

ई) सहायता-अनुदान

पिछले वर्ष 2018-19 से अग्रणीत अप्रयुक्त अनुदान(आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन को छोड़कर) शून्य था। वर्ष के दौरान, 105.00 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था, जिसका पूर्णतः उपयोग किया गया और वर्ष के अंत में अनुमान का शेष शून्य रुपए रहा।

(उ) प्रबंध पत्र

कमियाँ, जिन्हें लेखापरीक्षा में शामिल नहीं की हैं, उनको एक प्रबंध पत्र, जिसे उपचारात्मक व सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किया जाना है, के ज़रिए अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची के ध्यान में लाया गया है।

घ

(v) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में की गई हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में बताए गए तुलन-पत्र, आय व व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ और अदायगी लेखा, लेखा-बहियों के अनुसार सही हैं।

(vi) हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखाकरण नीतियों एवं लेखे पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण और ऊपर बताई उल्लेखनीय बातों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संलग्नक-1 में उल्लिखित अन्य बातों के अधीन, भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के साथ अनुरूपता रखते हुए एक सही और निष्कपट चित्रण देते हैं:-

- क) जैसे कि 31 मार्च 2020 को है, यह जहां तक स्पाइसेस बोर्ड के कार्यकलापों के तुलन-पत्र से संबंधित है; तथा
ख) यह यहाँ तक उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय एवं व्यय लेखे से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के लिए और की ओर से

(ह.)

(आर.अंबलवानन)

महा निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, चेन्नई

स्थान : चेन्नई

तिथि: 12-11-2020

संलग्नक -1

(1) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

वर्ष 2019-20 के दौरान, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग ने बोर्ड के 105 कार्यालयों (मुख्यालय सहित) में से केवल एक इकाई की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं चलाई थी।

(2) आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता

- i. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त है और बोर्ड के आकार और प्रकृति से मेल खाती नहीं है।
- ii. बोर्ड ने अपने दो बैंक खातों के लिए बैंक मिलान विवरणी तैयार नहीं की है।
- iii. प्रणाली की विफलता के कारण कच्चे मिलान के लिए रोकड़ बही से प्रविष्टियों को दर्ज न किए जाने की वजह से बैंक शेष में 0.19 करोड़ रुपए की अत्युक्ति हुई है।
- iv. पिछले लेखा सॉफ्टवेयर से, डाटा के गैर-अंतरण के परिणामस्वरूप विवरण अनुपलब्ध हैं और इसने खातों को अविश्वसनीय बना दिया है।
- v. सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 229(xi) के अनुसार, प्रतिवर्ष पाँच करोड़ रुपए से अधिक की बजट सहायता वाले स्वायत्त संगठनों के लिए प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के साथ समझौता ज्ञापन करना आवश्यक होना चाहिए जिसमें आनुपातिक निवेश अपेक्षाओं के साथ-साथ कार्यनिष्पादन मानदंडों, कार्य के विस्तृत कार्यक्रम के संदर्भ में उत्पादन लक्ष्यों और उत्पादन में गुणात्मक सुधार का स्पष्ट वर्णन हो। कार्यनिष्पादन की परिमेय इकाइयों में दिए गए उत्पादन लक्ष्य, इन संगठनों को दी जानेवाली बजट सहायता का आधार बनें। स्पष्ट लक्ष्यों के साथ बेहतर कार्यनिष्पादन की रूपरेखा इस समझौता ज्ञापन का हिस्सा होना चाहिए। बोर्ड ने सामान्य वित्तीय नियमावली के उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन अपेक्षितानुसार वर्ष 2019-20 के दौरान प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित नहीं किया है।

(3) परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

बोर्ड के 105 कार्यालयों (मुख्यालय सहित) में से, केवल 64 कार्यालयों की परिसंपत्ति सत्यापन रिपोर्टें लेखापरीक्षा के लिए दी गई थीं। इकतालीस कार्यालयों (मुख्यालय सहित) की परिसंपत्ति सत्यापन रिपोर्टें नहीं दी गईं। वैसे ही, परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली अपर्याप्त और संगठन के आकार के अनुरूप नहीं रही।

(4) मालसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2019-20 के दौरान मालसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था।

(5) सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता

बोर्ड सांविधिक देयों का नियमित भुगतान करता है।

(ह.)

निदेशक(ए)

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची - 682025
तुलनपत्र जैसेकि 31-03-2020 को है

क्रम सं.	विवरण	अनुसूची सं.	रकक (रुपर्यो में)	
			जैसेकि 31.03.2020 को है	जैसेकि 31.03.2019 को है
	समग्र/पूँजी निधि व देनदारियां			
1	समग्र/पूँजी निधि	1	(1,009,302,781.23)	(590,964,178.25)
2	आरक्षित निधि व अधिशेष	2	-	-
3	उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि	3	2,404,590,253.87	2,297,739,684.20
4	रक्षित कर्ज एवं उधार	4	-	-
5	अरक्षित कर्ज एवं उधार	5	-	-
6	आस्थगित ऋण देनदारियाँ	6	-	-
7	चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	2,407,120,493.32	2,070,415,624.91
	कुल		3,802,407,965.96	3,777,191,130.86
	परिसंपत्तियाँ			
8	मूल्यह्रास घटाकर स्थाई परिसंपत्तियां	8	2,001,649,465.61	2,208,578,846.56
9	निवेश-उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियों से	9	189,123,239.85	192,762,757.85
10	निवेश- अन्य	10	422,148.56	27,743,019.56
11	चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	1,611,213,111.94	1,348,106,506.89
12	फटकर व्यय (बड़े खाते में न डालने लायक)		-	-
	कुल		3,802,407,965.96	3,777,191,130.86
13	उल्लेखनीय लेखा- नीतियां	66		
14	आकस्मिक देयताएं एवं लेखा पर टिप्पणियाँ	67		

(ह.)
निदेशक (वित्त)

(ह.)
सचिव

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची - 682025 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का आय और व्यय लेखा

क्रम सं.	विवरण	अनुसूची सं.	रकम (रुपयों में)	
			2019-20	2018-19
	आय			
1	बिक्री /सेवाओं से आय	12	104,454,485.72	73,524,265.63
2	अनुदान/इमदाद	13	1,035,005,207.00	848,079,611.00
3	अन्य अनुदान/सहायता	14	-	-
4	शुल्क/चंदा	15	25,483,242.38	67,644,171.34
5	निवेश से आय(उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि से निवेश पर आय)	16	-	-
6	रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय	17	27,430.00	236,735.00
7	सूद अर्जित	18	67,706,681.00	59,363,336.60
8	अन्य आय	19	3,853,010.76	6,409,799.02
9	तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)एवं चालू कार्य	20	(1,421,689.00)	5,021,148.00
	कुल(अ)		1,235,108,367.86	1,060,279,066.59
	व्यय			
10	स्थापना खर्च-गैर योजना	21	581,234,396.90	524,044,786.00
11	प्रशासनिक खर्च - गैर योजना	22	30,977,847.30	23,699,788.20
12	खर्च - योजना			
	क) निर्यातोन्मुख उत्पादन	23	384,664,094.00	313,252,324.40
	ख) निर्यातोन्मुख अनुसंधान	24	66,946,860.42	62,241,712.90
	ग) गुणवत्ता सुधार	25	90,749,242.00	83,608,151.66
	घ) निर्यात विकास कार्यक्रम	26	220,730,649.98	232,093,846.40
	ड.) मानव संसाधन विकास व कार्य	27	10,605,247.68	3,613,801.40
13	वित्त शुल्क	28	74,743.66	478,665.86
14	अन्य	29	-	-
15	मूल्यहास	30	227,141,219.95	250,858,274.48
	कुल(आ)		1,613,124,301.89	1,493,891,351.30

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची - 682025 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का आय और व्यय लेखा

क्रम सं.	विवरण	अनुसूची सं.	रकम (रुपयों में)	
			2019-20	2018-19
16	आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता का बना शेष		(378,015,934.03)	(433,612,284.71)
17	पूर्वावधि समायोजन आय/(व्यय)		(55,317,461.95)	(4,219,609.64)
18	विशेष आरक्षित निधि को अंतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें)		-	-
19	सामान्य आरक्षित निधि को/से अंतरण(प्रत्येक का उल्लेख करें)		-	-
20	शेष जो समग्र/पूँजी निधि को अग्रणीत अधिशेष/(घाटा)		(433,333,395.98)	(437,831,894.35)
21	उल्लेखनीय लेखा-नीतियाँ	66		
22	आकस्मिक देयताएं और लेखा पर टिप्पणियाँ	67		

(ह.)
निदेशक (वित्त)

(ह.)
सचिव

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची - 682025

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का प्राप्त एवं अदायगी लेखा

प्राप्ति	अनु. सं.	रकम (रुपयों में)		अदायगी	अनु. सं.	रकम (रुपयों में)	
		2019-20	2018-19			2019-20	2018-19
I. अथ शेष				I. खर्च - योजना			
क) हाथ में रकम	31	-	-	क) योजना	48	-	-
ख) बैंक में रकम				ख) स्थापना खर्च	49	294,254,696.90	237,081,586.00
l) चालू खाते में	32	70,098,778.46	177,564,253.60	ग) प्रशासन खर्च	50	87,238,622.91	28,869,053.70
ll) जमा खाते में	33	1,128,603,200.00	885,322,204.00	II. खर्च - योजना			
				क) निर्यातोनमुख उत्पादन	51	384,779,400.00	314,077,048.40
II) अनुदान प्राप्त				ख) निर्यातोनमुख अनुसंधान	52	69,930,330.42	70,435,328.90
क) भारत सरकार से अनुदान				ग) गुणवत्ता सुधार	53	92,546,727.00	105,584,986.66
i) प्लान	34	1,050,000,000.00	879,700,000.00	घ) निर्यात विकास/संवर्धन	54	229,759,980.98	232,095,985.40
ii) नॉन प्लान	35	-	-	ड.) मानव संसाधन विकास व कार्य	55	10,821,268.68	3,765,886.40
ख) अन्य संस्थाओं से सहायता	36	-	2,268,390.00				
ग) राज्य सरकारों से अनुदान				III. बाहर से निधिबद्ध /ए एस आई डी ई योजनाएं			
i) राजस्व	37	-	-			28,302,509.33	55,373,470.35
घ) अन्य अभिकरणों से अनुदान				IV. अन्य अदायगी			
i) राजस्व	38	2,720,000.00	48,871,856.00	क) स्टाफ को सूद सहित अग्रिम	57	897,703.00	400,000.00
ड) उद्दिष्ट निधि	39	130,855,551.00	130,301,327.00	ख) स्टाफ को सूद रहित अग्रिम	58	1,633,650.00	5,148,142.00
				ग) चालू देयताएं देय बिल	59	9,821,900.51	36,236,847.00
III. निवेश से आय - उद्दिष्ट निधियाँ	40	-	-	घ) विप्रेषण प्रतीक्षित वसूलियाँ	60	197,117,975.48	327,721,309.38
IV ब्याज प्राप्त				ड.) कार्यालय अयदाय/विशेष अग्रिम	61	6,390,952.96	2,535,424.00
क) बैंक जमा पर	41	66,930,516.00	58,430,947.60	च) अग्रिम/बाहरी पार्टियों से जमा	62	30,049,110.07	85,841,792.41
ख) ऋण, अग्रिम आदि	42	998,616.00	1,190,924.00				
V अन्य प्राप्ति				V. इति शेष			
क) नॉन प्लान - आन्तरिक संसाधन	43	144,779,577.86	130,743,943.89	क) हाथ में रकम	63	-	-
ख) ऋण चुकौती प्राप्त	44	7,677,419.00	2,651,890.00	ख) बैंक शेष			
ग) अन्य प्राप्ति	45	140,602.00	312,485.00	l) चालू खाते में	64	215,740,400.14	70,098,778.46
VI. अन्य अग्रिम/जमा				ll) जमा खाते में	65	1,225,174,623.00	1,128,603,200.00
अग्रिम/जमा/वसूलियाँ	46	2,362,297.00	4,086,960.00				
बाहरी पार्टियों से जमा	47 A	41,521,688.66	69,010,547.81				
घ) विप्रेषण प्रतीक्षित वसूलियाँ	47 B	237,771,605.40	313,413,110.16				
कुल		2,884,459,851.38	2,703,868,839.06	कुल		2,884,459,851.38	2,703,868,839.06

(ह.)
निदेशक (वित्त)

(ह.)
सचिव

स्पाइएसे बोर्ड, कोच्ची - 682025

जैसेकि 31 मार्च, 2020 को है, तुलनपत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ

विवरण	रकम (रुपयों में)	
	चालू वर्ष 2019-20	पिछले वर्ष 2018-19
अनुसूची - 1 समग्र/पूँजी निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(590,964,178.25)	(184,752,672.90)
जोड़ : समग्र/पूँजी निधि के लिए अंशदान(निवल)	14,994,793.00	31,620,389.00
जोड़ /(घटाना) : आय एवं व्यय लेखा से अन्तरित निवल आय(व्यय) का	(433,333,395.98)	(437,831,894.35)
वर्ष के अंत में शेष	(1,009,302,781.23)	(590,964,178.25)
कुल	(1,009,302,781.23)	(590,964,178.25)
अनुसूची - 2 - आरक्षित एवं अधिशेष		
क. पूँजी आरक्षित निधि		
अंतिम तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
जोड़-वर्ष के दौरान जोड़ाई	-	-
घटाना - वर्ष के दौरान घटाव	-	-
इति शेष	-	-
ख. आरक्षित पुनर्मूल्यन निधि		
अंतिम तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
जोड़-वर्ष के दौरान जोड़ाई	-	-
घटाना - वर्ष के दौरान घटाव	-	-
इति शेष	-	-
ग. विशेष आरक्षित निधि		
अंतिम तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
जोड़-वर्ष के दौरान जोड़ाई	-	-
घटाना - वर्ष के दौरान घटाव	-	-
इति शेष	-	-
घ. सामान्य आरक्षित निधि		
अंतिम तुलन-पत्र के अनुसार	-	-
जोड़-वर्ष के दौरान जोड़ाई	-	-
घटाना - वर्ष के दौरान घटाव	-	-
इति शेष	-	-
कुल	-	-

स्पाइएसे बोर्ड, कोच्ची - 682025 जैसेकि 31 मार्च, 2020 को है, तुलनपत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ

अनुसूची-3 - उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियां	निधिवार ब्यौरा			
	ब्रैंड संवर्धन निधि	विश्व बैंक आई टी सी परियोजना निधि	उत्पाद अनुसंधान निधि	कर्मचारी जी पी एफ निधि
क) निधियों का अथ शेष	7,622,644.00	795,817.50	5,112,600.00	188,262,757.85
ख) निधियों को जोड़ाई				
i. दान/अनुदान	-	-	-	-
ii. निधियों के कारण निवेशों से आय	-	-	-	11,988,999.00
iii. अन्य जोड	-	-	-	-
कुल (क+ख)	7,622,644.00	795,817.50	5,112,600.00	200,251,756.85
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोजन/व्यय				
i. पूँजी व्यय				
- स्थिर परिसंपत्तियां				
- अन्य				
कुल	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय				
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि				
- किराया				
- अन्य प्रशासनिक खर्च	7,622,644.00	795,817.50	5,112,600.00	15,628,517.00
कुल	7,622,644.00	795,817.50	5,112,600.00	15,628,517.00
कुल(ग)	7,622,644.00	795,817.50	5,112,600.00	15,628,517.00
निवल शेष जैसेकि वर्ष के अन्त में है (क+ख-ग)	-	-	-	184,623,239.85

स्पाइएसे बोर्ड, कोच्ची - 682025 जैसेकि 31 मार्च, 2020 को है, तुलनपत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ

अनुसूची-3 - उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियां	निधिवार ब्यौरा			
	मोबाइल एग्रि क्लिनिक एसएचएम, इडुक्की	एन.एच.एम. कर्नाटक - उत्पादन, कालीमिर्च मूल- लगाई कतरनें	एस एच एम केरल - जैव नियंत्रण उत्पादन केंद्र की स्थापना	आई सी ए आर - ए आई सी आर पी एस
क) निधियों का अथ शेष	678,850.00	-	1,722,578.00	145,454.00
ख) निधियों को जोडाई				
i. दान/अनुदान	-	-	-	1,950,000.00
ii. निधियों के कारण निवेशों से आय	-	-	-	-
iii. अन्य जोड	-	-	-	-
कुल (क+ख)	678,850.00	-	1,722,578.00	2,095,454.00
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोजन/व्यय				
i. पूँजी व्यय				
- स्थिर परिसंपत्तियां		-		-
- अन्य		-		-
कुल	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय				
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि		-		578,898.00
- किराया		-		-
- अन्य प्रशासनिक खर्च	678,850.00	-	1,722,578.00	486,978.00
कुल	678,850.00	-	1,722,578.00	1,065,876.00
कुल(ग)	678,850.00	-	1,722,578.00	1,065,876.00
निवल शेष जैसेकि वर्ष के अन्त में है (क+ख-ग)	-	-	-	1,029,578.00

स्पाइएसे बोर्ड, कोच्ची - 682025 जैसेकि 31 मार्च, 2020 को है, तुलनपत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ

अनुसूची-3 - उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियां	निधिवार ब्यौरा			
	सूक्ष्म उपग्रह मार्करों का विकास	इडुक्की जिले में एन एच एम कालीमिर्च उत्पादन	ए एस आई डी ई - गुण्टूर	ए एस आई डी ई - नई दिल्ली
क) निधियों का अथ शेष	-	-	154,175,621.47	39,852,715.00
ख) निधियों को जोड़ाई				
i. दान/अनुदान	-	-	-	-
ii. निधियों के कारण निवेशों से आय	-	-	-	-
iii. अन्य जोड	-	-	-	-
कुल (क+ख)	-	-	154,175,621.47	39,852,715.00
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोजन/व्यय				
i. पूँजी व्यय				
- स्थिर परिसंपत्तियां			-	
- अन्य			-	
कुल	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय				
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि			-	
- किराया			-	
- अन्य प्रशासनिक खर्च	-	-	-	
कुल	-	-	-	-
कुल(ग)	-	-	-	-
निवल शेष जैसेकि वर्ष के अन्त में है (क+ख-ग)	-	-	154,175,621.47	39,852,715.00

स्पाइएसे बोर्ड, कोच्ची - 682025 जैसेकि 31 मार्च, 2020 को है, तुलनपत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ

अनुसूची-3 - उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियां	निधिवार ब्यौरा			
	ए एस आई डी ई - चेन्नई	ए एस आई डी ई - कोलकाता	ए एस आई डी ई - तूतिकोरिन	ए एस आई डी ई - छिंदवाड़ा
क) निधियों का अथ शेष	54,563,766.50	53,387,567.49	46,563,308.00	-
ख) निधियों को जोड़ाई				
i. दान/अनुदान	-	-	-	-
ii. निधियों के कारण निवेशों से आय	-	-	-	-
iii. अन्य जोड़	-	-	-	-
कुल (क+ख)	54,563,766.50	53,387,567.49	46,563,308.00	-
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोजन/व्यय				
i. पूँजी व्यय				
- स्थिर परिसंपत्तियां				
- अन्य				
कुल	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय				
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि				
- किराया				
- अन्य प्रशासनिक खर्च				-
कुल	-	-	-	-
कुल(ग)	-	-	-	-
निवल शेष जैसेकि वर्ष के अन्त में है (क+ख-ग)	54,563,766.50	53,387,567.49	46,563,308.00	-

स्पाइएसे बोर्ड, कोच्ची - 682025 जैसेकि 31 मार्च, 2020 को है, तुलनपत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ

अनुसूची-3 - उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियां	निधिवार ब्यौरा			
	ए एस आई डी ई - मुंबई	ए एस आई डी ई - गुना	ए एस आई डी ई - कोटा	ए एस आई डी ई - काण्डला
क) निधियों का अथ शेष	152,596,304.00	257,214,919.28	102,877,981.76	52,926,458.08
ख) निधियों को जोडाई				
i. दान/अनुदान	-	-	-	-
ii. निधियों के कारण निवेशों से आय	-	-	-	-
iii. अन्य जोड	-	-	-	-
कुल (क+ख)	152,596,304.00	257,214,919.28	102,877,981.76	52,926,458.08
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोजन/व्यय				
i. पूँजी व्यय				
- स्थिर परिसंपत्तियां	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय				
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि	-	-	-	-
- किराया	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक खर्च	-	22,500.00	-	-
कुल	-	22,500.00	-	-
कुल(ग)	-	22,500.00	-	-
निवल शेष जैसेकि वर्ष के अन्त में है (क+ख-ग)	152,596,304.00	257,192,419.28	102,877,981.76	52,926,458.08

स्पाइएसे बोर्ड, कोच्ची - 682025 जैसेकि 31 मार्च, 2020 को है, तुलनपत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ

अनुसूची-3 - उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियां	निधिवार ब्यौरा			
	इलायची विकास निधि	आई सी ए आर -एन ए आई पी	ए एस आई डी ई - आई आई पी एम	सीएसआर क्रियाकलाप
क) निधियों का अथ शेष	-	572,948.00	79,636,934.00	-
ख) निधियों को जोड़ाई				
i. दान/अनुदान	-	-	-	-
ii. निधियों के कारण निवेशों से आय	-	-		-
iii. अन्य जोड़	-	-	-	-
कुल (क+ख)	-	572,948.00	79,636,934.00	-
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोजन/व्यय				
i. पूँजी व्यय				
- स्थिर परिसंपत्तियां			-	
- अन्य			-	
कुल	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय				
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि			-	
- किराया			-	
- अन्य प्रशासनिक खर्च	-	572,948.00	2,422,871.00	-
कुल	-	572,948.00	2,422,871.00	-
कुल(ग)	-	572,948.00	2,422,871.00	-
निवल शेष जैसेकि वर्ष के अन्त में है (क+ख-ग)	-	-	77,214,063.00	-

स्पाइएसे बोर्ड, कोच्ची - 682025 जैसेकि 31 मार्च, 2020 को है, तुलनपत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ

अनुसूची-3 - उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियां	निधिवार ब्यौरा			
	मृदा आधारित पौधा पोषक प्रबंधन योजना	डी यू एस - जांच केंद्र	पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम	ए एस आई डी ई - हमीरपुर
क) निधियों का अथ शेष	584,326.00	43,148.00	733,683.00	-
ख) निधियों को जोड़ाई				
i. दान/अनुदान	-	-	-	-
ii. निधियों के कारण निवेशों से आय	-	-	-	-
iii. अन्य जोड	-	-	-	-
कुल (क+ख)	584,326.00	43,148.00	733,683.00	-
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोजन/व्यय				
I. पूँजी व्यय				
- स्थिर परिसंपत्तियां	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय				
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि	-	-	-	-
- किराया	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक खर्च	-	-	733,683.00	-
कुल	-	-	733,683.00	-
कुल(ग)	-	-	733,683.00	-
निवल शेष जैसेकि वर्ष के अन्त में है (क+ख-ग)	584,326.00	43,148.00	-	-

स्पाइसे बोर्ड, कोच्ची - 682025 जैसेकि 31 मार्च, 2020 को है, तुलनपत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ

अनुसूची-3 - उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियां	निधिवार ब्यौरा			
	नई पेंशन प्रणाली	मसालों के निर्यात के लिए गुणवत्ता मानक	स्पाइसेस पार्क के लिए अवसंरचना	अंतर-संस्थागत सहयोगात्मक अध्ययन - सीएसआईआर
क) निधियों का अथ शेष	37,094.47	177,021,616.86	89,298,126.48	-
ख) निधियों को जोड़ाई				
i. दान/अनुदान	-	-	-	-
ii. निधियों के कारण निवेशों से आय	-	-	-	-
iii. अन्य जोड़	-	20,000,000.00	10,855,551.00	-
कुल (क+ख)	37,094.47	197,021,616.86	100,153,677.48	-
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोजन/व्यय				
i. पूँजी व्यय				
- स्थिर परिसंपत्तियां		-	-	-
- अन्य		-	-	-
कुल	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय				
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि		-	-	-
- किराया		-	-	-
- अन्य प्रशासनिक खर्च	37,094.47	-	-	-
कुल	37,094.47	-	-	-
कुल(ग)	37,094.47	-	-	-
निवल शेष जैसेकि वर्ष के अन्त में है (क+ख-ग)	-	197,021,616.86	100,153,677.48	-

स्पाइएसे बोर्ड, कोच्ची - 682025 जैसेकि 31 मार्च, 2020 को है, तुलनपत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ

अनुसूची-3 - उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियां	निधिवार ब्यौरा			
	अंतर-संस्थागत सहयोगात्मक अध्ययन - सीएसआईआर	ए एस आई डी ई -राय बरेली - स्पाइस पार्क	रोग पूर्वानुमान इकाई	पर्ण ऊतक विश्लेषणात्मक इकाई
क) निधियों का अथ शेष	-	168,572,389.27	-	-
ख) निधियों को जोडाई				
i. दान/अनुदान	-	-	-	-
ii. निधियों के कारण निवेशों से आय	-	-	-	-
iii. अन्य जोड	-	-	-	-
कुल (क+ख)	-	168,572,389.27	-	-
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोजन/व्यय				
i. पूँजी व्यय				
- स्थिर परिसंपत्तियां	-	-		
- अन्य	-	-		
कुल	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय				
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि	-	-		
- किराया	-	-		
- अन्य प्रशासनिक खर्च	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
कुल(ग)	-	-	-	-
निवल शेष जैसेकि वर्ष के अन्त में है (क+ख-ग)	-	168,572,389.27	-	-

स्पाइएसे बोर्ड, कोच्ची - 682025 जैसेकि 31 मार्च, 2020 को है, तुलनपत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ

अनुसूची-3 - उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियां	निधिवार ब्यौरा			
	इ-स्पाइस परियोजना सू.प्रौ. मंत्रालय	एम आई डी एच	म्यानमार बड़ी इलायची विकास परियोजना	पेंशन देयताएँ
क) निधियों का अथ शेष	26,035,691.65	5,606,030.00	262,028.00	511,915,963.00
ख) निधियों को जोडाई				
i. दान/अनुदान	-	-	-	-
ii. निधियों के कारण निवेशों से आय	-	-	-	-
iii. अन्य जोड	-	-	-	100,000,000.00
कुल (क+ख)	26,035,691.65	5,606,030.00	262,028.00	611,915,963.00
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोजन/व्यय				
i. पूँजी व्यय				
- स्थिर परिसंपत्तियां	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय				
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि	-	-	-	-
- किराया	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक खर्च	1,777,881.00	-	-	-
कुल	1,777,881.00	-	-	-
कुल(ग)	1,777,881.00	-	-	-
निवल शेष जैसेकि वर्ष के अन्त में है (क+ख-ग)	24,257,810.65	5,606,030.00	262,028.00	611,915,963.00

स्पाइएसे बोर्ड, कोच्ची - 682025 जैसेकि 31 मार्च, 2020 को है, तुलनपत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ

अनुसूची-3 - उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियां	निधिवार ब्यौरा			
	आर के वी वाई आंध्र प्रदेश व तेलंगाना	क्षेत्र विस्तार आईपीएम काली कालीमिर्च	सूक्ष्म जीवविज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र	अदरक परियोजना बस्तर
क) निधियों का अथ शेष	1,811,778.00	-	108,993,784.00	88,285.00
ख) निधियों को जोडाई				
i. दान/अनुदान	-	-	-	-
ii. निधियों के कारण निवेशों से आय	-	-	-	-
iii. अन्य जोड	-	-	-	-
कुल (क+ख)	1,811,778.00	-	108,993,784.00	88,285.00
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोजन/व्यय				
i. पूँजी व्यय				
- स्थिर परिसंपत्तियां	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय				
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि	-	-	-	-
- किराया	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक खर्च	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
कुल(ग)	-	-	-	-
निवल शेष जैसेकि वर्ष के अन्त में है (क+ख-ग)	1,811,778.00	-	108,993,784.00	88,285.00

स्पाइएसे बोर्ड, कोच्ची - 682025 जैसेकि 31 मार्च, 2020 को है, तुलनपत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ

अनुसूची-3 - उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियां	निधिवार ब्यौरा			
	भारतीय औषधीय पौधों में गुणवत्ता मानक	डबल्यूटीओ-एसटीडीएफ़	अंतर्राष्ट्रीय कालीमिर्च समुदाय (आई पी सी)	आर के वी वाई- असम
क) निधियों का अथ शेष	-	85,649.00	64,229.54	8,400.00
ख) निधियों को जोड़ाई				
i. दान/अनुदान		-		-
ii. निधियों के कारण निवेशों से आय	-	-		
iii. अन्य जोड	-	-		
कुल (क+ख)	-	85,649.00	64,229.54	8,400.00
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोजन/व्यय				
i. पूँजी व्यय				
- स्थिर परिसंपत्तियां	-	-		
- अन्य	-	-		
कुल	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय				
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि	-	-		
- किराया	-	-		
- अन्य प्रशासनिक खर्च	-	100,000.00		-
कुल	-	100,000.00	-	-
कुल(ग)	-	100,000.00	-	-
निवल शेष जैसेकि वर्ष के अन्त में है (क+ख-ग)	-	(14,351.00)	64,229.54	8,400.00

स्पाइएसे बोर्ड, कोच्ची - 682025 जैसेकि 31 मार्च, 2020 को है, तुलनपत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ

अनुसूची-3 - उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियां	निधिवार ब्यौरा			
	एफ़ एस टी एल	हल्दी पर एमआईडीएच एकीकृत परियोजना हरियाणा	आर पी एल- पी एम के वी वाई	हंक के मूल्यांकन पर अध्ययन
क) निधियों का अथ शेष	4,500,000.00	2,750,000.00	(151,763.00)	770,000.00
ख) निधियों को जोडाई				
i. दान/अनुदान	-	-		770,000.00
ii. निधियों के कारण निवेशों से आय	-			
iii. अन्य जोड	-			
कुल (क+ख)	4,500,000.00	2,750,000.00	(151,763.00)	1,540,000.00
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोजन/व्यय				
i. पूँजी व्यय				
- स्थिर परिसंपत्तियां	-			
- अन्य	-			
कुल	-			
ii. राजस्व व्यय				
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि	-			
- किराया	-			
- अन्य प्रशासनिक खर्च	-		420,120.36	
कुल	-	-	420,120.36	-
कुल(ग)	-	-	420,120.36	-
निवल शेष जैसेकि वर्ष के अन्त में है (क+ख-ग)	4,500,000.00	2,750,000.00	(571,883.36)	1,540,000.00

स्पाइएसे बोर्ड, कोच्ची - 682025 जैसेकि 31 मार्च, 2020 को है, तुलनपत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ

अनुसूची-3 - उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियां	कुल योग	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) निधियों का अथ शेष	2,297,739,684.20	2,146,261,630.55
ख) निधियों को जोड़ाई		
i. दान/अनुदान	2,720,000.00	51,140,246.00
ii. निधियों के कारण निवेशों से आय	11,988,999.00	12,145,856.00
iii. अन्य जोड़	130,855,551.00	130,301,327.00
कुल (क+ख)	2,443,304,234.20	2,339,849,059.55
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोजन/व्यय		
I. पूँजी व्यय		
- स्थिर परिसंपत्तियां	-	-
- अन्य	-	-
कुल	-	-
ii. राजस्व व्यय		
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि	578,898.00	449,462.00
- किराया	-	-
- अन्य प्रशासनिक खर्च	38,135,082.33	41,659,913.35
कुल	38,713,980.33	42,109,375.35
कुल(ग)	38,713,980.33	42,109,375.35
निवल शेष जैसेकि वर्ष के अन्त में है (क+ख-ग)	2,404,590,253.87	2,297,739,684.20

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची - 682025

जैसेकि 31-03-2020 को है, तुलनपत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ

विवरण	रकम(रुपयों में)		रकम(रुपयों में)	
	चालू वर्ष 2019-20		पिछले वर्ष 2018-19	
अनुसूची 4- रक्षित ऋण एवं उधार				
1. केन्द्रीय सरकार	-		-	
2. राज्य सरकार	-		-	
3. वित्तीय संस्थाएं	-		-	
क) मियादी ऋण	-		-	
ख) उपचित एवं देय ब्याज	-		-	
4. बैंक	-		-	
क) मियादी ऋण	-		-	
i) उपचित एवं देय ब्याज	-		-	
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)	-		-	
i) उपचित एवं देय ब्याज	-		-	
5. अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण	-		-	
6. डिबेंचर एवं बांड	-		-	
7. अन्य (उल्लेख करें)	-		-	
कुल		-		-
नोट : एक साल के अन्तर्गत देय रकम				
अनुसूची - 5. अरक्षित ऋण एवं उधार				
1. केन्द्रीय सरकार	-		-	
2. राज्य सरकार	-		-	
3. वित्तीय संस्थाएं	-		-	
क) मियादी ऋण	-		-	
ख) उपचित एवं बाकी ब्याज	-		-	
4. बैंक	-		-	
क) मियादी ऋण	-		-	
i) उपचित एवं देय ब्याज	-		-	
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)	-		-	
i) उपचित एवं देय ब्याज	-		-	
5. अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण	-		-	
6. डिबेंचर एवं बांड	-		-	
7. अन्य (उल्लेख करें)	-		-	
कुल		-		-

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची - 682025

जैसेकि 31-03-2020 को है, तुलनपत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ

विवरण	रकम(रुपयों में)	
	चालू वर्ष 2019-20	पिछले वर्ष 2018-19
नोट : एक साल के अन्तर्गत देय रकम		
अनुसूची - 6 आस्थगित ऋण देयताएं		
क) पूँजीगत उपकरण एवं अन्य परिसंपत्तियों के दृष्टिबंधक से सुरक्षित स्वीकृति	-	-
ख) अन्य परिसंपत्तियाँ	-	-
कुल	-	-
अनुसूची - 7 - चालू देयताएं एवं प्रावधान		
अ. चालू देयताएं		
1. ई एम डी एवं सुरक्षा जमा	32,088,775.92	25,113,878.92
2. विलंबित काम के लिए रोकी गई राशि	816,554.00	816,554.00
3. देय - वेतन	21,988,993.00	24,281,611.00
4. देय लेखा परीक्षा शुल्क	1,827,886.00	1,827,886.00
5. असमाप्त आय - सी आर ई एस व लाइसेन्स फीस	35,400.00	(10,735,000.00)
6. पत्रिकाओं के लिए चंदा	-	-
7. लाइसेंस फीस	57,944.00	61,275.00
8. छुट्टी वेतन व पेंशन अंशदान	447,834.00	116,223.00
9. कानूनी देयताएं		
क) अतिदेय	-	-
ख) अन्य	-	-
(i) राज्य जीवन बीमा	-	-
(ii) वी ए टी/डब्ल्यू सी टी	2,976,544.00	3,106,433.00
(iii) डब्ल्यू डब्ल्यू एफ	1,423,173.00	1,387,125.00
(iv) सेवा कर देय		
(v) आयकर देय (ठेकेदार व अन्य)	765,896.40	428,623.50
(vi) आयकर देय (वेतन व पेंशन)	(720,017.00)	(207,310.00)
(vii) आयकर देय (पेंशन)	-	(1,912,437.00)
(viii) कर्मचारी भविष्य निधि देय	-	(1,369,054.00)
(ix) जीएसटी बकाया	39,917,191.72	13,545,488.98
10. व्यापार लेखा देय	(1,162,973.72)	(1,203,921.49)
11. वेतन वसूलियाँ		
क) सामूहिक बीमा देय	(2,455,910.00)	(1,085,448.00)

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची - 682025
जैसेकि 31-03-2020 को है, तुलनपत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियाँ

विवरण	रकम(रुपयों में)		रकम(रुपयों में)	
	चालू वर्ष 2019-20		पिछले वर्ष 2018-19	
ख) सोसाइटी देय	-		-	
ग) जी पी एफ अग्रिम वसूली	-		-	
घ) जी पी एफ अभिदान	1,260,441.00		-	
ङ) जीवन बीमा निगम - देय	(12,378.00)		(132.00)	
च) सी पी एफ अभिदान	4,757,474.00		5,202,547.00	
छ) एल आई सी - एच एफ एल तिरुनलवेली	-		-	
ज) वृत्तिक कर देय	(13,516.00)		(102,384.00)	
झ) अदालती कुर्की देय	-		-	
ञ) सी.पी.एफ. देय	(41,736.00)		(3,076,596.00)	
ट) केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समिति	12,740.00		2,460.00	
ठ) लाइसेन्स शुल्क - बाहर	775.00		775.00	
ड) पी एल आई	46,004.00		31,868.00	
ढ) चिकित्सा प्रतिपूर्ति - मजदूर	7,400.00		7,400.00	
ण) स्टाफ क्लब	104,470.00		80,160.00	
त) अन्य	-		-	
12. पेंशन देय	38,660,763.00		38,495,697.00	
13. सामूहिक बीमा दावा देय	3,659,458.00		1,691,493.00	
14. सेवा निवृत्ति लाभ देय	(1,628,693.00)		(456,423.00)	
15. इमदाद - देय	-		(993,168.00)	
कुल (अ)		144,820,493.32		95,055,624.91
आ. प्रावधान				
1. कराधान के लिए	-		-	
2. उपदान	181,000,000.00		164,360,000.00	
3. अधिवर्षिता/पेंशन	1,959,300,000.00		1,702,240,000.00	
4. संचित छुट्टी का नकदीकरण	122,000,000.00		108,760,000.00	
5. व्यापार वारंटी/दावे	-		-	
6. अन्य	-		-	
कुल (आ)		2,262,300,000.00		1,975,360,000.00
कुल (अ)+(आ)		2,407,120,493.32		2,070,415,624.91

अनुसूची - 8 स्थिर परिसंपत्तियाँ

क्रम सं.	परिसंपत्ति का नाम	सकल खण्ड				Depreciation					निवल खण्ड जैसेकि 31.03.2020 को है	निवल खण्ड जैसेकि 31.03.2019 को है
		जैसेकि 01.04.2019 को है	वर्ष के दौरान जोड़ाई	बिंदी/अंतरण	जैसेकि 31.03.2020 को है	दर	संचित मूल्यह्रास जैसेकि 01.04.2019 को है	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान कटीती	संचित मूल्यह्रास जैसेकि 31-03-2020 को है		
अ	स्थिर परिसंपत्तियाँ											
1	भूमि	127,622,127.40	-	-	127,622,127.40	0	6,135,389.00	1,933,672.00	-	8,069,061.00	119,553,066.40	121,486,738.40
2	सकन	2,437,778,887.44	-	-	2,437,778,887.44	10	719,274,696.51	171,850,419.09	-	891,125,115.60	1,546,653,771.84	1,718,504,190.93
3	गाडियाँ	18,949,671.67	-	-	18,949,671.67	15	15,679,651.80	490,502.98	-	16,170,154.78	2,779,516.89	3,270,019.87
4	सिंचाई उपकरण	2,864,565.00	249,946.00	-	3,114,511.00	15	1,751,149.15	179,158.33	-	1,930,307.48	1,184,203.52	1,113,415.85
5	कंप्यूटर हार्डवेयर	101,335,855.46	1,934,748.00	3,933.00	103,266,670.46	60	99,457,103.48	2,188,410.89	-	101,645,514.37	1,621,156.09	1,878,751.98
6	फार्माक्यूटिंग हाउस	237,257.52	-	-	237,257.52	5	187,474.12	2,489.17	-	189,963.29	47,294.23	49,783.40
7	संदर्भ पुस्तकें	10,261,845.38	36,718.00	-	10,298,563.38	100	10,248,889.38	31,315.00	-	10,280,204.38	18,359.00	12,956.00
8	प्लॉट एवं मशीनरी	279,048,475.21	2,071,657.00	-	281,120,132.21	15	196,870,496.81	12,637,445.31	-	209,507,942.12	71,612,190.09	82,177,978.40
9	जल आपूर्ति स्थापना	235,928.34	-	-	235,928.34	10	218,028.74	1,789.96	-	219,818.70	16,109.64	17,899.60
10	फर्नीचर एवं जुड़नार	78,735,865.27	102,671.00	-	78,838,536.27	10	49,321,229.32	2,946,829.65	-	52,268,058.97	26,570,477.30	29,414,635.95
11	प्रयोगशाला उपस्कर	527,796,261.48	10,322,355.00	8,564,443.00	529,554,173.48	15	301,078,960.30	34,879,187.57	-	335,958,147.87	193,596,025.61	226,717,301.18
	कुल चालू वर्ष	3,584,866,740.17	14,718,095.00	8,568,376.00	3,591,016,459.17		1,400,223,068.61	227,141,219.95	-	1,627,364,288.56	1,963,652,170.61	2,184,643,671.56
आ	पूँजी चालू कार्य	23,935,175.00	16,042,120.00	1,980,000.00	37,997,295.00		-	-	-	-	37,997,295.00	23,935,175.00
	कुल चालू वर्ष	3,608,801,915.17	30,760,215.00	10,548,376.00	3,629,013,754.17		1,400,223,068.61	227,141,219.95	-	1,627,364,288.56	2,001,649,465.61	2,208,578,846.56
	गत वर्ष	3,551,980,460.17	1,511,923,416.64	1,455,101,961.64	3,608,801,915.17		1,149,364,794.13	250,858,274.48	-	1,400,223,068.61	2,208,578,846.56	2,402,615,666.04

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025
जैसेकि 31-03-2020 को है, तुलनपत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम(रुपयों में)			
	चाल वर्ष 2019-20		पिछले वर्ष 2018-19	
अनसूची - 9 - उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियों से निवेश				
1. दीर्घ कालीन निवेश				
क) सरकारी प्रतिभितियों में	-		-	
ख) अन्य अनमोदित प्रतिभितियाँ	-		-	
ग) शेयर	4,500,000.00		4,500,000.00	
घ) जी पी एफ निवेश लेखा	-		-	
ड) सी पी एफ निवेश लेखा	-	4,500,000.00	-	4,500,000.00
2. अल्प कालीन निवेश				
क) सरकारी प्रतिभितियों में	-		-	
ख) अन्य अनमोदित प्रतिभितियाँ	-		-	
ग) शेयर	-		-	
घ) जी पी एफ निवेश लेखा	184,623,239.85	184,623,239.85	188,262,757.85	188,262,757.85
कल		189,123,239.85		192,762,757.85
अनसूची - 10. निवेश - अन्य				
1. दीर्घ कालीन निवेश				
क) रोपकों को ऋण	422,148.56		422,148.56	
ख) उत्पाद अनसंधान परिक्रामी निधि ऋण	-		-	
ग) ईक्विटी निधि अंशदान	-		20,000,000.00	
घ) ब्रैंड संवर्धन परिक्रामी निधि ऋण	-		-	
ड) ब्रैंड संवर्धन ऋण योजना	-	422,148.56	7,320,871.00	27,743,019.56
2. अल्प कालीन निवेश				
क) रोपकों को ऋण	-		-	
ख) उत्पाद अनसंधान परिक्रामी निधि ऋण	-		-	
ग) ईक्विटी निधि अंशदान	-		-	

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025

जैसेकि 31-03-2020 को है, तुलनपत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम(रुपयों में)			
	चाल वर्ष 2019-20		पिछले वर्ष 2018-19	
घ) ब्रैंड संवर्धन परिक्रामी निधि ऋण	-	-	-	-
ड) ब्रैंड संवर्धन ऋण योजना	-	-	-	-
कुल		422,148.56		27,743,019.56
अनसूची - 11 - चाल परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि				
अ. चाल परिसंपत्तियां				
1. माल - सूची				
क) भंडार, रासायनिक पदार्थ व पर्जे	10,399,930.00		6,878,496.48	
ख) फ़टकर औज़ार	-		-	
ग) व्यापार में स्टॉक				
i) इलायची, कॉफी, लॉग और कालीमिर्च - अनसंधान-फार्म	72,540.00		5,015,662.52	
ii) पॉलिथीन शीट	-		-	
iii) बांस चटाई	-		-	
iv) कालीमिर्च	-	10,472,470.00	-	11,894,159.00
2.विविध देनदार				
क) छः महीने से अधिक की अवधि से बकाया ऋण	-		-	
ख) अन्य	-	-	-	-
3. हाथ में रोकड शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)	-	-	-	-
4. बैंक बाकी				
क) अनसूचित बैंकों के साथ				
i)चाल खातों में	215,740,400.14		70,098,778.46	

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025
जैसेकि 31-03-2020 को है, तुलनपत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम(रुपयों में)			
	चाल वर्ष 2019-20		पिछले वर्ष 2018-19	
ii) जमा खातों में (मार्जिन राशि शामिल)	1,225,174,623.00		1,128,603,200.00	
iii) बचत खाते में	-	1,440,915,023.14	-	1,198,701,978.46
ख) अननुसूचित बैंकों के साथ				
i) चाल खातों में	-		-	
ii) जमा खातों में (मार्जिन राशि शामिल)	-		-	
iii). बचत खाते में	-	-	-	-
कुल(अ)		1,451,387,493.14		1,210,596,137.46
आ. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियाँ				
1. स्टाफ को ऋण				
i. उत्सव अग्रिम	9,600.00		9,600.00	
ii. वाहन अग्रिम	-		-	
iii. वेतन अग्रिम	472,089.00		472,089.00	
iv. विशेष अग्रिम	3,724,080.98		3,363,681.98	
v. गृह निर्माण अग्रिम	818,213.00		640,664.00	
vi. कम्प्यूटर अग्रिम	132,835.00		150,730.00	
vii. कार अग्रिम	36,520.00		56,440.00	
viii. स्कटर अग्रिम	229,830.00		50,860.00	
ix. साइकिल अग्रिम	(1,000.00)		(1,000.00)	
x. चिकित्सा अग्रिम	51,740.00		337,262.00	
xi. एल टी सी अग्रिम	1,491,215.00		1,315,615.00	
xii. गरम पहनावा अग्रिम	-		-	
xiii. स्थाई अग्रिम / कार्यालय अग्रिदाय	6,814,512.00	13,779,634.98	6,754,512.00	13,150,453.98
2. नकद या माल या प्राप्य मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशि				

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025
जैसेकि 31-03-2020 को है, तुलनपत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम(रुपयों में)			
	चाल वर्ष 2019-20		पिछले वर्ष 2018-19	
क) यात्रा अग्रिम				
i. प्रशासन	1,158,271.00		2,142,338.00	
ii. विकास -बडी इलायची	409,561.00		413,201.00	
iii. विस्तार सलाहकार योजना	610,034.00		622,024.00	
iv. विपणन	145,244.00		(238,558.00)	
v. अनुसंधान- बडी इलायची	552,273.00		552,273.00	
vi. अनुसंधान- छोटी इलायची	10,978.00		23,400.00	
vii. गणवत्ता सधार	(2,540.00)	2,883,821.00	(12,132.00)	3,502,546.00
ख) जमा राशि				
i. के एस ई बी के साथ	387,780.00		387,780.00	
ii. अन्य	2,881,993.00		4,736,609.00	
iii. बी एस एन एल के साथ	9,796.00	3,279,569.00	9,796.00	5,134,185.00
ग) पूर्वदत्त खर्च				
i) पूर्वदत्त ए एम सी चार्ज	-	-	-	-
3. आय उपचित				
i. निवेशों पर	15,336,092.60		15,336,092.60	
	-	15,336,092.60	-	15,336,092.60
4. किराया अग्रिम/जमा				
i) विपणन सेवाएं	804,500.00		764,500.00	
ii) विस्तार सलाहकार योजना	1,459,202.00		1,459,202.00	
iii) गणवत्ता सधार	118,100.00		118,100.00	

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025

जैसेकि 31-03-2020 को है, तुलनपत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम(रुपयों में)			
	चाल वर्ष 2019-20		पिछले वर्ष 2018-19	
iv) प्रशासन	581,850.00		588,650.00	
v) बड़ी इलायची विस्तार	371,400.00	3,335,052.00	371,400.00	3,301,852.00
5. अनुदान प्राप्य	-	-	-	-
6. ठेका अग्रिम	27,081,605.00	27,081,605.00	27,024,605.00	27,024,605.00
7. पूर्वदत्त बीमा	68,250.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00
8. केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर जमा	25,580,797.00	25,580,797.00	9,400,252.66	9,400,252.66
9. सामाहिक बीमा प्राप्य	(19,440.00)	(19,440.00)	(53,400.00)	(53,400.00)
10. अन्य अग्रिम - गुजरात सरकार	21,552,405.00	21,552,405.00	21,552,405.00	21,552,405.00
11. ब्याज पर टी डी एस	-	-	-	-
12. एस टी सी एन	-	-	482,156.00	482,156.00
13. अन्य				
i. अग्रिम - प्रशासन	18,556,206.80		12,785,380.84	
ii. अग्रिम - विकास - छोटी इलायची	2,785,428.72		2,785,428.72	
iii. अग्रिम - विकास - बड़ी इलायची	1,497,074.50		1,497,074.50	
iv. अग्रिम - अनुसंधान - छोटी इलायची	305,858.00		305,858.00	
v. अग्रिम - अनुसंधान - बड़ी इलायची	1,327,861.00		1,327,861.00	
vi. गणवत्ता मूल्यांकन एवं उन्नयन प्रयोगशाला	866,586.00		844,080.00	
vii. विपणन सेवाएं	6,067,672.00		6,088,610.00	
viii. बाजार पहुँच पहल	29,857.00		29,857.00	
ix. ए एस आई डी ई - छिन्दवाडा	-		-	
x. ए एस आई डी ई - गंटर	-		-	
xi. ए एस आई डी ई - नई दिल्ली	-		-	
xii. ए एस आई डी ई - चेन्नई	-		-	

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025
जैसेकि 31-03-2020 को है, तुलनपत्र का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम(रुपयों में)			
	चाल वर्ष 2019-20		पिछले वर्ष 2018-19	
xiii. ए एस आई डी ई - ततिकोरिन	-		-	
xiv. इलायची में इ - नीलाम	135,357.00		135,357.00	
xv. गणवत्ता संधार प्रशिक्षण	-		(198,160.00)	
xvi. अवसंरचना - मसाला पार्क	3,412,009.00		3,412,009.00	
xvii. क्रेडिट कार्ड अग्रिम	-		(103,880.07)	
xviii. अग्रिम संग्रहण	5,500,839.00		5,500,839.00	
xix. अन्य अग्रिम	661,487.00	41,146,236.02	(1,600,940.00)	32,809,374.99
14. उपकरणों की खरीद के लिए अग्रिम	5,801,596.20	5,801,596.20	5,801,596.20	5,801,596.20
कुल-(आ)		159,825,618.80		137,510,369.43
कुल-(अ) +(आ)		1,611,213,111.94		1,348,106,506.89

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025
जैसेकि 31-03-2020 को है, आय और व्यय लेखे का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम (रुपयों में)			
	चाल वर्ष 2019-20		पिछले वर्ष 2018-19	
अनसूची - 12 - बिक्री/सेवा से आय				
1. बिक्री से आय				
क) मसालों, रोपण समग्रियों और बागान निवेशों की बिक्री				
इलायची	-		-	
कालीमिर्च कतरनें	-		9,825.00	
कालीमिर्च	-		-	
बायो एजेन्ट	11,368,260.00		2,761,349.00	
अन्य उत्पाद- अनसंधान फार्म	171,382.00	11,539,642.00	1,785,025.00	4,556,199.00
ख) पादपों की बिक्री से आय				
इलायची पादप	-	-	750.00	750.00
ग) फटकर प्राप्तियां				
स्क्राप की बिक्री	14,945.00		152,093.00	
वापसी- बैंड संवर्धन अनदान	-	14,945.00	-	152,093.00
2) स्पाइस पार्क से आय				
क) प्रयोक्ता शल्क - मसाला पार्क	-		-	
ख) विकास चार्ज	-		-	
ग) पट्टा आय	-	-	-	-
3) सेवाओं से आय				
क) विश्लेषणात्मक चार्ज प्राप्त	92,849,048.72		68,596,035.63	
ख) प्रशिक्षण शल्क समाहरित	50,850.00	92,899,898.72	219,188.00	68,815,223.63
कुल		104,454,485.72		73,524,265.63

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025
जैसेकि 31-03-2020 को है, आय और व्यय लेखे का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम (रुपयों में)			
	चाल वर्ष 2019-20		पिछले वर्ष 2018-19	
(अविकल्पी अनदान एवं इमदाद प्राप्त)				
अनसूची - 13 - अनदान/इमदाद प्लान				
भारत सरकार से सहायता - अनदान	1,050,000,000.00		879,700,000.00	
नॉन-प्लान				
भारत सरकार से सहायता - अनदान	-	1,050,000,000.00	-	879,700,000.00
जोड - परिसंपत्तियों के निपटान से वसूल राशि	-	-	-	-
घटाना - पंजी निधि के लिए अंशदान	14,994,793.00	(14,994,793.00)	31,620,389.00	(31,620,389.00)
कल		1,035,005,207.00		848,079,611.00
अनसूची 14 अन्य अनदान/सहायता				
1) ए पी ई डी ए	-		-	
2) विदेश मंत्रालय से समर्थन -बाजार पहुँच पहल	-		-	
3) आन्ध्र प्रदेश सरकार	-		-	
4) इलायची विकास निधि	-		-	
5) केरल सरकार - प्लानिंग बोर्ड	-	-	-	-
कल		-		-
अनसूची - 15 शल्क/चंदा				
1) नीलामकर्त्ता और ब्यौहारी अनजपित शल्क	(8,600.00)		1,492,700.00	
2) सी आर ई एस	17,403,621.38		49,808,080.34	
3) निर्यातकों से संगृहीत प्रतिभागिता शल्क	8,088,221.00		8,260,000.00	
4) प्रयोक्ता शल्क - ई नीलाम	-		8,083,391.00	
5) परामर्श शल्क	-	25,483,242.38	-	67,644,171.34
कल		25,483,242.38		67,644,171.34

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025
जैसेकि 31-03-2020 को है, आय और व्यय लेखे का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम (रुपयों में)			
	चाल वर्ष 2019-20		पिछले वर्ष 2018-19	
नोट - प्रत्येक मद के लिए लेखा-नीतियों का खलासा किया जाना है				
अनसूची - 16 - निवेश से आय				
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभितियों पर	-		-	
ख) अन्य बांड/डिबेंचर	-		-	
ग) अन्य (एस टी डी)	-	-	-	-
2. लाभांश				
क) शेयरों पर	-		-	
ख) म्युचुअल फंड प्रतिभितियों पर	-	-	-	-
कल(क)		-		-
3. निधियों के उद्देश्य के लिए उपयोग/व्यय				
1. पूंजी व्यय				
i. स्थिर परिसंपत्तियां	-		-	
ii. अन्य	-	-	-	-
कल(ख)		-		-
2. राजस्व व्यय				
i. वेतन, मंजरी एवं भत्ते आदि	-		-	
ii. किराया	-		-	
iii. अन्य प्रशासनिक खर्च	-	-	-	-
कल(ग)		-		-
निवल शेष जैसेकि वर्ष के अंत में है (क+ख+ग)		-		-
अनसूची - 17 रॉयल्टी प्रकाशन आदि से आय				
1) प्रकाशनों एवं विज्ञापनों से आय	27,430.00	27,430.00	236,735.00	236,735.00
कल		27,430.00		236,735.00

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025
जैसेकि 31-03-2020 को है, आय और व्यय लेखे का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम (रुपयों में)			
	चाल वर्ष 2019-20		पिछले वर्ष 2018-19	
अनसची - 18 ब्याज अर्जित				
1. अल्पावधि जमा पर				
क) अनसूचित बैंकों के साथ	66,404,567.00	66,404,567.00	57,841,609.60	57,841,609.60
2. अन्य ब्याज				
क) अन्य ब्याज	525,949.00	525,949.00	635,071.00	635,071.00
3. कर्मचारियों को ऋण पर				
क) कर्मचारियों से प्राप्त ब्याज - एच बी ए	675,500.00		759,356.00	
ख) कर्मचारियों से अन्य ब्याज	100,665.00	776,165.00	127,300.00	886,656.00
कल		67,706,681.00		59,363,336.60
अनसची - 19 - अन्य आय				
1) अतिथि कमरा भाड़ा	945,505.00		1,455,657.00	
2) लाइसेंस शुल्क - बोर्ड के क्वार्टर्स	89,752.00		93,147.00	
3) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-		-	
4) अन्य प्राप्तियां	2,817,753.76	3,853,010.76	4,860,995.02	6,409,799.02
कल		3,853,010.76		6,409,799.02
अनसची-20-तैयार मालों के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) एवं चाल कार्य				
क) इति स्टॉक				
क. इलायची एवं अन्य उत्पाद	10,472,470.00		11,894,159.00	
ख. चाल कार्य	-	10,472,470.00	-	11,894,159.00
ख) घटाना - अथ स्टॉक				
क) इलायची और अन्य उत्पाद	11,894,159.00		6,873,011.00	
ख) चाल कार्य	-	11,894,159.00	-	6,873,011.00
निवल वृद्धि (कमी) क-ख		(1,421,689.00)		5,021,148.00

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025

जैसेकि 31-03-2020 को है, आय और व्यय लेखे का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम (रुपयों में)			
	चाल वर्ष 2019-20		पिछले वर्ष 2018-19	
अनसूची - 21 - स्थापना खर्च - नॉन-प्लान				
1) वेतन एवं पेंशन - अधिकारी	105,256,475.00		74,727,817.00	
2) वेतन, बोनस एवं पेंशन - स्टाफ	410,185,198.00		400,719,585.00	
3) अन्य भत्ते - अधिकारी व स्टाफ	673,980.00		1,968,398.00	
4) उपदान	33,046,664.00		22,853,021.00	
5) सामाहिक अधिवर्षिता	-		-	
6) छद्मी का नकदीकरण	22,564,507.00		16,460,361.00	
7) स्थापना खर्च	9,507,572.90	581,234,396.90	7,315,604.00	524,044,786.00
कल		581,234,396.90		524,044,786.00
अनसूची - 22 प्रशासनिक खर्च - नॉन-प्लान				
1) खरीद	-		-	
2) श्रम एवं प्रक्रमण खर्च	527,278.00		-	
3) दलाई एवं गाडी आवक	-		-	
4) विदयत एवं पावर	3,997,948.00		3,401,976.00	
5) मरम्मत एवं अनरक्षण	1,631,281.00		674,109.00	
6) उत्पाद शल्क	-		-	
7) भाडा, दर एवं कर	-		224,756.00	
8) गाडी चलाना एवं अनरक्षण	599,339.00		946,884.00	
9) डाक, संचार एवं दरभाष चार्ज	487,262.00		504,015.00	
10) मदण एवं लेखन-सामग्री	304,441.00		512,894.50	
11) यात्रा एवं वाहन खर्च	6,675,202.00		7,420,834.00	
12) संगोष्ठियों/कार्यशालाओं पर खर्च	(92,311.00)		105,284.00	
13) चंदा खर्च	297,782.00		118,195.00	
14) शल्कों पर खर्च	-		-	
15) लेखा परीक्षकों का मानदेय	3,411,880.00		-	
16) सत्कार खर्च	-		16,784.00	
17) व्यावसायिक चार्ज	2,415,371.00		3,361,865.00	
18) माल भाडा एवं अग्रेषण खर्च	-		9,924.00	
19) विज्ञापन एवं प्रचार	472.00		-	
20) बड़े खाते में डाला विश्लेषण चार्ज	-		-	
21) अन्य	10,721,902.30	30,977,847.30	6,402,267.70	23,699,788.20
कल		30,977,847.30		23,699,788.20

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025
जैसेकि 31-03-2020 को है, आय और व्यय लेखे का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम (रुपयों में)	
	चाल वर्ष 2019-20	पिछले वर्ष 2018-19
अनसूची-23-अनदानों एवं इमदादों पर व्यय-निर्यातोलम्बित उत्पादन		
1) विस्तार सलाहकार योजना	146,837,418.00	171,308,636.40
2) प्रमाणित पौधशाला - छोटी इलायची - इमदाद एवं अन्य खर्च	-	-
3) पॉली बैग पौधशाला योजना	-	-
4) विभागीय पौधशाला योजना	4,736,761.00	5,010,327.00
5) पनरोपण - छोटी इलायची	54,861,528.00	29,975,775.00
6) पनर्यवन - छोटी इलायची	9,869,750.00	-
7) पनरोपण इलायची - कर्नाटक क्षेत्र	-	-
8) इब्ल्य जी डी पी - कर्नाटक - इमदाद	-	-
9) इब्ल्य जी डी पी केरल - इमदाद	-	-
10) इब्ल्य जी डी पी तमिलनाडु - इमदाद	-	-
11) वर्षा जल संभरण - छोटी इलायची - इमदाद	198,920.00	306,416.00
12) वर्षा जल संभरण - (उ.प.)	27,675.00	-
13) वर्षा जल संभरण - सिक्किम	-	-
14) सधरे क्यरिंग उपाय छो.इ. इमदाद	3,334,249.00	1,026,485.00
15) बड़ी इलायची विस्तार खर्च	49,723,719.00	51,025,107.00
16) बड़ी इलायची -पनर्यवन	-	-
17) वयनाड में पादप सामग्री उत्पादन - कालीमिर्च	-	-
18) पनरोपण एवं पनर्यवन - काली मिर्च - वयनाड	-	-
19) उ.प. में पादप सामग्री उत्पादन - कालीमिर्च	-	-
20) उ.प. में पनरोपण एवं पनर्यवन - कालीमिर्च	-	-
21) क्यरिंग हाउस - बड़ी इलायची - सिक्किम - इमदाद	-	-
22) प्रमाणित पौधशाला - बड़ी इलायची - इमदाद एवं अन्य खर्च	-	-
23) पनरोपण - बड़ी इलायची - सिक्किम/पश्चिम बंगाल क्षेत्र	56,596,120.00	41,443,145.00
24) कालीमिर्च रोपण	-	-
25) पॉलिथीन शीटों की आपूर्ति - इमदाद	-	-
26) बांस चटाइयों की आपूर्ति - इमदाद	-	-
27) कैंचुआ कंपोस्ट गड्डों की स्थापना - इमदाद	1,413,000.00	899,250.00
28) मिर्च में आई पी एम को बढ़ावा - इमदाद	-	-
29) कालीमिर्च में आई पी एम को बढ़ावा - इमदाद	-	-

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025

जैसेकि 31-03-2020 को है, आय और व्यय लेखे का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम (रुपयों में)	
	चाल वर्ष 2019-20	पिछले वर्ष 2018-19
30) कालीमिर्च थ्रेशर - इमदाद	2,461,202.00	2,805,778.00
31) बीजीय मसाला थ्रेशर्स-(पावर)	3,690,000.00	406,500.00
32) बीजीय मसाला थ्रेशर्स-(मैनअल)	-	-
33) हल्दी बॉलयर	7,853,200.00	3,749,000.00
34) हल्दी पॉलिशेर्स	1,600,000.00	946,080.00
35) क्यरिंग हाउस -इमदाद (उ.प.) संशोधित भट्टी	583,500.00	1,126,250.00
36) नव रोपण - बडी इलायची (उ.प)	-	-
37) कषकों को प्रशिक्षण - उ.प.	218,560.00	-
38) जैव कषि - अदरक उ.प. - इमदाद	-	-
39) जैव कषि - हल्दी - उ.प. इमदाद	-	-
40) जैव नागा मिर्च	-	-
41) मसालों की जैव कषि	-	-
42) लकादोड, हल्दी - जैव	-	-
43) जैव खेती का प्रमाणीकरण	-	-
44) कर्नाटक में इलायची के लिए बंदर के खतरे से बचाव योजना	-	-
45) जी ए पी - किटों की आपूर्ति	-	-
46) मध मक्खी पालन बॉक्स	-	-
47) खरपतवार कटर / पिट मेकर	-	-
48) पौध संवर्धन सुरक्षा उपकरण	-	-
49) धलाई उपकरण	-	-
50) पोलिशेर्स	-	-
51) प्रशिक्षण - उत्तर पर्व	-	-
52) सिंचाई संरचना - सिक्किम पश्चिम बंगाल उत्तर पर्व	-	-
53) सिंचाई उपकरण -सिक्किम पश्चिम बंगाल उत्तर पर्व	-	-
54) कालीमिर्च लॉग तड़ाई के लिए निसेनी	-	-
55) कालीमिर्च सफाई ग्रेडर	-	-
56) जायफल ड्रीहल्लर	-	-
57) जायफल ड्रायर	1,050,500.00	183,000.00
58) पदीना आसवन यनिट	710,390.00	1,327,404.00
59) आई सी एस की रखरखाव के लिए सहायता	-	-
60) ग्रेडिंग छलनियों - सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उ.प.	-	-
61) आई एल डी कर्नाटक	-	-

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025
जैसेकि 31-03-2020 को है, आय और व्यय लेखे का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम (रुपयों में)			
	चाल वर्ष 2019-20		पिछले वर्ष 2018-19	
62) आई एल डी केरल	-	-	-	-
63) आई एल डी तमिल नाडु	-	-	-	-
64) पिट डिग्गर - सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उ.प.	-	-	-	-
65) केसर विकास कार्यक्रम	-	-	-	-
66) हंसिया, कदाल और छरी -सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उ.प.	-	-	-	-
67) छोटी इलायची पादप संरक्षण उपकरण	-	-	-	-
68) स्प्रेयर - सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उ.प.	-	-	-	-
69) विदेश में प्रशिक्षण	238,964.00	-	-	-
70) बड़ी इलायची रोपण सामग्री उत्पादन	8,206,250.00	-	63,000.00	-
71) छोटी इलायची रोपण सामग्री उत्पादन	2,275,100.00	-	-	-
72) एस ए डब्ल्यू ओ डायर	-	-	-	-
73) मसालों में पौधशाला प्रबंधन पर कौशल विकास कार्यक्रम	-	-	-	-
74) ई ओ पी योजना	-	-	213,416.00	-
75) बड़ी इलायची सिंचाई उपकरण	95,760.00	-	325,792.00	-
76) बड़ी इलायची सिंचाई ढांचा	30,000.00	-	285,500.00	-
77) जैव बीज बैंक	37,500.00	-	25,000.00	-
78) छोटी इलायची आईएलडी - सिंचाई पंप सेट	260,786.00	-	330,463.00	-
79) छोटी इलायची आईएलडी - जल भण्डारण ढांचा	1,100,712.00	-	470,000.00	-
80) बड़ी इलायची कृषि उपकरण	142,000.00	-	-	-
81) छोटी इलायची आईएलडी - सक्षम -सिंचाई उपकरण	49,558.00	-	-	-
82) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम - मसाला उत्पादक सोसाइटी	1,076,220.00	-	-	-
83) अनसंचित जाति- उप योजना	24,243,712.00	-	-	-
84) अनसंचित जनजाति- उप योजना	1,141,040.00	384,664,094.00	-	313,252,324.40
कुल		384,664,094.00		313,252,324.40
अनसूची -24 - निर्यातान्मुख अनसंधान कार्यक्रम				
1) अनसंधान खर्च - छोटी इलायची	61,346,316.42	-	54,911,674.90	-
2) अनसंधान खर्च - बड़ी इलायची	5,600,544.00	-	7,330,038.00	-
3) बायो-टेक उत्पादन यनिट खर्च	-	66,946,860.42	-	62,241,712.90
कुल		66,946,860.42		62,241,712.90

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025
जैसेकि 31-03-2020 को है, आय और व्यय लेखे का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम (रुपयों में)			
	चाल वर्ष 2019-20		पिछले वर्ष 2018-19	
अनसची -25 - गणवत्ता सधार				
गणवत्ता सधार - राजस्व व्यय	90,749,242.00	90,749,242.00	83,608,151.66	83,608,151.66
कल		90,749,242.00		83,608,151.66
अनसची -26 - निर्यात विकास कार्यक्रम				
1) मसाला पार्क - अवसंरचना	18,532,670.69		18,747,236.72	
2) मसाला पार्क छिदवाडा - अवसंरचना	-		-	
3) सहायता-अनदान - तकनोलजी अन्तरण एवं उत्पादन उन्नयन-इमदाद	-		-	
4) हाई टेक अपनाना	-		-	
5) पैकेजिंग विकास - सहायता एवं प्रतिपति खर्च	889,606.00		-	
6) गणवत्ता प्रमाणन	-		-	
7) व्यावसायिक नमनों का विदेश भेजना	-		38,950.00	
8) विवरणिका का मद्रण	-		-	
9) इन-आउस प्रयोगशाला की स्थापना/उन्नयन	515,892.00		-	
10) ब्रैंड संवर्धन	-		-	
11) गणवत्ता उन्नयन प्रयोगशाला -दिल्ली	-		-	
12) अन्तर्राष्ट्रीय मेले	41,498,441.50		39,305,475.68	
13) व्यापार मेलों में प्रतिभागिता - निर्यातकों को सहायता - इमदाद	99,896.00		304,886.00	
14) विदेश में विपणि अध्ययन	808,400.00		-	
15) व्यापार सचना एवं व्य.स.से. सर्वेक्षण	-		150,000.00	
16) सचना प्रौद्योगिकी	8,474,022.00		4,270,898.00	
17) प्रकाशन और मद्रण	2,829,221.00		11,287,416.00	
18) विपणन सेवारं	138,102,887.43		151,236,048.00	
19) इलायची का इ -नीलाम	-		-	
20) अनसंधान सस्थानों को सहायता	1,532,717.00		(97,552.00)	
21) अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां/बैठके	429,985.00		34,335.00	
22) निर्यातोन्मुख प्रसंस्करण यनिट की स्थापना- प्रशिक्षण एच आर डी	-		-	
23) घरेलू विपणि सर्वेक्षण/अध्ययन एवं उन्नयन	4,693,395.00		5,961,227.00	
24) तकनोलजी एवं प्रक्रिया उन्नयन	-		-	
25) क्रेता-विक्रेता बैठक	2,323,516.36	220,730,649.98	854,926.00	232,093,846.40
कल		220,730,649.98		232,093,846.40

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025
जैसेकि 31-03-2020 को है, आय और व्यय लेखे का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम (रुपयों में)			
	चाल वर्ष 2019-20		पिछले वर्ष 2018-19	
अनसूची -27 मानव संसाधन विकास एवं कार्य				
एच आर डी एवं कार्य	10,605,247.68	10,605,247.68	3,613,801.40	3,613,801.40
कल		10,605,247.68		3,613,801.40
अनसूची -28 वित्त चार्ज				
1) स्थिर ऋणों पर	-	-	-	-
2) अन्य ऋणों पर (बैंक चार्ज सहित)	74,743.66	74,743.66	478,665.86	478,665.86
3) अन्य (उल्लेख करें)	-	-	-	-
कल		74,743.66		478,665.86
अनसूची -29 अन्य				
1) शैक्षिक वजीफा	-	-	-	-
2) शैक्षिक संस्थानों को अनदान	-	-	-	-
3) डी डी टी - मूल भंगक - खर्च	-	-	-	-
4) आदर्श जैव फार्म	-	-	-	-
5) एम डी ए अनदान भगतान	-	-	-	-
कल		-		-
अनसूची -30 मल्यहास				
1) मल्यहास - जमीन (पट्टा परिशोधन)	1,933,672.00	1,933,672.00	-	-
2) मल्यहास - मकान	171,850,419.09	171,850,419.09	190,944,910.10	190,944,910.10
3) मल्य हास - गाडियां	490,502.98	490,502.98	577,062.33	577,062.33
4) मल्यहास - सिंचाई एवं पौ.सं.उपकरण	179,158.33	179,158.33	180,918.42	180,918.42
5) मल्यहास - कंप्यूटर हार्डवेयर	2,188,410.89	2,188,410.89	2,633,778.73	2,633,778.73
6) मल्यहास - फार्म/क्यूरिंग हाउस	2,489.17	2,489.17	2,620.18	2,620.18
7) मल्यहास - सन्दर्भ एवं पस्तकालय पस्तकें	31,315.00	31,315.00	52,783.50	52,783.50
8) मल्यहास - प्लान्ट एवं मशीनरी	12,637,445.31	12,637,445.31	14,000,765.28	14,000,765.28
9) मल्यहास - जल आपूर्ति उपकरण	1,789.96	1,789.96	1,988.85	1,988.85
10) मल्यहास - फर्नीचर एवं जडनार	2,946,829.65	2,946,829.65	3,261,177.00	3,261,177.00
11) मल्यहास - प्रयोगशाला उपकरण	34,879,187.57	34,879,187.57	39,202,270.09	250,858,274.48
कल		227,141,219.95		250,858,274.48

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025

जैसेकि 31.03.2020 को है, प्राप्त और अदायगी लेखे का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम(रुपयों में)	
	चालू वर्ष 2019-20	पिछले वर्ष 2018-19
अनुसूची - 31 हाथ में नकदी एवं लिखत (अथ शेष)		
1 सामान्य नकदी	-	-
2 हाथ में नकदी एवं लिखत	-	-
3 स्थिर अयिम/कार्यालय अयदाय	-	-
कुल		
अनुसूची - 32- बैंक बाकी (अथ शेष)		
1 एस बी टी, कोचिन खाता सं - 57067470909	11,066,798.40	8,270,048.28
2 एस बी एच, वेण्णला खाता सं - 52026450364	-	-
3 एस बी आई, कोचिन खाता सं - 30026867834	-	-
4 एक्सिस बैंक, कोचिन खाता सं - 0810200018081	2,521,690.54	1,788,940.39
5 सेंट्रल बैंक, नई दिल्ली खाता सं - 153	91,882.50	91,882.50
6 एस बी टी, नेडुक्कण्डम खाता सं - 57050612514	6,329,366.43	13,557,300.72
7 एक्सिस बैंक - (प्राप्ति खाता/सुडान)	13,460,206.30	27,422,280.30
8 यू बी आई, चेरुतोणी खाता	-	-
9 एस बी आई, शिमोगा खाता सं - 1064023356	-	-
10 यू बी आई, नेडुक्कण्डम - आंचलिक कार्यालय	-	-
11 यू बी आई, राजकुमारी - आंचलिक कार्यालय	-	-
12 यू बी आई, नेडुक्कण्डम - प्रादेशिक कार्यालय	-	-
13 यू बी आई, वण्डनमेडु खाता सं - 29049	-	-
14 एस बी एम, मेरकारा खाता सं - 57046308408	-	-
15 एस बी एम, सकलेशपुर खाता सं - 54030030186	-	-
16 एस बी एम, चिकमगलूर खाता सं - 54010970204	-	-
17 एस बी आई, गांतोक, खाता सं - 11018602438	-	-
18 यू बी आई, कुमिली प्रादेशिक कार्यालय खाता	-	-
19 यू बी आई, कुमिली आंचलिक कार्यालय खाता	-	-

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025

जैसेकि 31.03.2020 को है, प्राप्त और अदायगी लेखे का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम(रुपयों में)			
	चालू वर्ष 2019-20		पिछले वर्ष 2018-19	
20 एस बी टी, आंचलिक कार्यालय, कट्टप्पना	-	-	-	-
21 एस बी टी, कलपेट्टा, प्रादेशिक कार्यालय	-	-	-	-
22 एस बी आई - पाडिवट्टम	44,132.00	-	44,132.00	-
23 एक्सिस बैंक - एन पी एस खाता	8,885.47	-	13,065.47	-
24 यू बी आई डिजिटल- आंचलिक कार्यालय	-	-	-	-
25 यू बी आई बोडिनायकन्न्	-	-	-	-
26 एक्सिस बैंक कोचिन - भुगतान खाता	35,245.00	-	-	-
27 पीएनबी पालारिवट्टम खाता संख्या-7176002100002239	25,176,259.74	-	107,844,326.02	-
30 पीएनबी पालारिवट्टम खाता संख्या-7176002100002354	1,766,159.03	-	3,375,535.82	-
31 पीएनबी पालारिवट्टम खाता संख्या-7176002100002381(सीआरईएस)	419,459.94	-	15,156,742.10	-
32 पीएनबी सडान खाता संख्या-7176002100002345	9,178,693.11	70,098,778.46	-	177,564,253.60
कुल		70,098,778.46		177,564,253.60
अनुसूची - 33 - अथ बैंक बाकी (जमा खाते में)				
1 अल्पावधि जमा सामान्य	557,029,635.00	-	131,736,313.00	-
2 अल्पावधि जमा बाहर से निधिबद्ध	571,573,565.00	1,128,603,200.00	753,585,891.00	885,322,204.00
कुल		1,128,603,200.00		885,322,204.00
अनुसूची - 34 - भारत सरकार से अनुदान				
1 प्लान- सहायता-अनुदान - उ.पू. क्षेत्र को छोडकर	535,900,000.00	-	435,600,000.00	-
2 प्लान- सहायता-अनुदान - उ.पू. क्षेत्र	39,900,000.00	-	39,900,000.00	-
3 प्लान - इमदाद - उ.पू. क्षेत्र को छोडकर	340,000,000.00	-	290,000,000.00	-
4 प्लान - इमदाद - उ.पू. क्षेत्र	29,000,000.00	-	39,000,000.00	-
5 प्लान- सहायता-अनुदान -उप प्लान अ.जा.	17,700,000.00	-	-	-
6 प्लान - इमदाद -उप प्लान अ.जा.	32,200,000.00	-	20,300,000.00	-
7 प्लान - सहायता-अनुदान -उप प्लान अ.जा. - पूंजी	100,000.00	-	100,000.00	-
8 प्लान- सहायता-अनुदान - उ.पू. क्षेत्र को छोडकर पूंजी	75,000.00	-	100,000.00	-
9 प्लान- सहायता-अनुदान - उ.पू. क्षेत्र -पूंजी	125,000.00	-	100,000.00	-
10 प्लान- सहायता-अनुदान -उप प्लान अ.जा.	17,800,000.00	-	17,800,000.00	-
11 प्लान - इमदाद -उप प्लान अ.जा.	32,200,000.00	-	32,200,000.00	-
12 प्लान- सहायता-अनुदान - स्वच्छता कार्य	5,000,000.00	1,050,000,000.00	4,600,000.00	879,700,000.00
कुल		1,050,000,000.00		879,700,000.00

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025

जैसेकि 31.03.2020 को है, प्राप्त और अदायगी लेखे का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम(रुपयों में)			
	चालू वर्ष 2019-20		पिछले वर्ष 2018-19	
अनुसूची - 35 - भारत सरकार से अनुदान				
नॉन-प्लान - सहायता अनुदान	-	-	-	-
कुल				
अनुसूची-36 - अन्य संस्थाओं से सहायता				
इलायची विकास निधि	-	-	2,268,390.00	2,268,390.00
कुल				2,268,390.00
अनुसूची-37 - राज्य सरकारों से अनुदान - राजस्व				
1 कर्नाटक सरकार - डब्ल्यू जी डी पी	-	-	-	-
2 केरल सरकार - प्लानिंग बोर्ड	-	-	-	-
कुल				
अनुसूची - 38 अन्य अभिकरणों से अनुदान - राजस्व				
1 ए एस आई डी ई - नई दिल्ली	-	-	-	-
2 ए एस आई डी ई - कोलकाता	-	-	-	-
3 ए एस आई डी ई - गुना	-	-	-	-
4 ए एस आई डी ई - गुंटूर	-	-	-	-
5 ए एस आई डी ई - कोटा	-	-	-	-
6 ए एस आई डी ई - काण्डला	-	-	-	-
7 ए एस आई डी ई - राय बरेली मसाला पार्क	-	-	-	-
8 ए एस आई डी ई - मुंबई	-	-	-	-
9 ए एस आई डी ई - आई आई पी एम	-	-	2,512,330.00	-
10 परिस्थिति अनुकूल नीम परियोजना	-	-	-	-
11 आई सी ए आर -एन ए आई पी	-	-	-	-
12 आई सी ए आर - ए आई सी आर पी एस	1,950,000.00	-	398,973.00	-
13 अंतर संस्थागत सहयोगी अनुसंधान	-	-	-	-
14 मृदा आधारित पौधा पोषक प्रबन्धन	-	-	-	-
15 डी बी टी - आई एन एम पैकेज का विकास	-	-	-	-
16 सूक्ष्म उपग्रह मार्करों का विकास	-	-	-	-
17 डी यू एस जांच केन्द्र	-	-	-	-

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025

जैसेकि 31.03.2020 को है, प्राप्त और अदायगी लेखे का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम(रुपयों में)			
	चालू वर्ष 2019-20		पिछले वर्ष 2018-19	
18 राष्ट्रीय बागवानी मिशन -कालीमिर्च	-		-	
19 आई टी मंत्रालय की इ-मसाला परियोजना	-		41,692,000.00	
20 एम आई डी एच	-		-	
21 आर के वी वाई - आंध्र प्रदेश	-		19,800.00	
22 आर के वी वाई - असम	-		-	
23 क्षेत्र व्यापक आई पी एम कालीमिर्च	-		728,753.00	
24 विदेश मंत्रालय : म्यांमार बड़ी इलायची	-		-	
25 सूक्ष्मजीव विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र	-		-	
26 अदरक परियोजना - बस्तर	-		-	
27 डबल्यू टी ओ - एस टी डी एफ	-		-	
28 भारतीय औषधीय पौधों में गुणवत्ता मानक	-		-	
29 अंतर्राष्ट्रीय कालीमिर्च समुदाय	-		-	
30 हल्दी पर एमआईडीएच एकीकृत परियोजना- हरियाणा	-		2,750,000.00	
31 हंक के मल्यांकन का अध्ययन	770,000.00	2,720,000.00	770,000.00	48,871,856.00
कुल		2,720,000.00		48,871,856.00
अनुसूची - 39 उद्दिष्ट निधि				
1 मसालों के निर्यात में गुणवत्ता मानक	20,000,000.00		20,000,000.00	
2 स्पाइस पार्कों की अवसरचना	10,855,551.00		10,301,327.00	
3 पेंशन देयताएँ	100,000,000.00	130,855,551.00	100,000,000.00	130,301,327.00
कुल		130,855,551.00		130,301,327.00
अनुसूची - 40 -निवेश से आय -उद्दिष्ट निधियां				
1 ए एस आई डी ई - मुंबई				
2 ए एस आई डी ई - गुना				
3 ए एस आई डी ई- नई दिल्ली				
4 ए एस आई डी ई- चेन्नई				
5 ए एस आई डी ई- तृतिकोरिन				
6 ए एस आई डी ई- गुटूर				
7 ए एस आई डी ई- कोटा				
8 ए एस आई डी ई- कांडला				

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025

जैसेकि 31.03.2020 को है, प्राप्त और अदायगी लेखे का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम(रुपयों में)			
	चालू वर्ष	2019-20	पिछले वर्ष 2018-19	
9) ए एस आई डी ई- राय बरेली				
10) सूक्ष्मजीव विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र				
11) ए एस आई डी ई - कोलकाता	-		-	
12) मसाला पार्क केलिए अवसंरचना	-		-	
13) मसाला निर्यात में गुणवत्ता मानक	-		-	
14) इ-मसाला परियोजना	-		-	
15) पेंशन देयताएँ	-		-	-
कुल				
अनुसूची - 41 - बैंक जमा पर प्राप्त ब्याज				
1 अल्पावधि जमा पर ब्याज	31,201,039.00		28,459,167.91	
2 अन्य बैंक ब्याज	525,949.00		589,338.00	
3 अल्पावधि जमा पर ब्याज-पेंशन	35,203,528.00	66,930,516.00	29,382,441.69	58,430,947.60
कुल		66,930,516.00		58,430,947.60
अनुसूची - 42 ऋण, अग्रिम आदि पर प्राप्त ब्याज				
1 कर्मचारियों से प्राप्त ब्याज - एच बी ए	897,951.00		1,017,891.00	
2 कर्मचारियों से अन्य ब्याज	100,665.00		127,300.00	
3 अग्रिम संग्रहण पर ब्याज	-	998,616.00	45,733.00	1,190,924.00
कुल		998,616.00		1,190,924.00
अनुसूची - 43 नॉन-प्लान- आन्तरिक एवं बजटेंतर संसाधन				
I पादप, उत्पाद, विश्लेषणात्मक चार्ज एवं अन्य प्राप्तियाँ				
1 इलायची पादप	-		750.00	
2 इलायची	-		-	
3 कालीमिर्च कतरनें	-		9,825.00	
4 कालीमिर्च	-		-	
5 बायो एजेंट	11,368,260.00		2,761,349.00	
6 अन्य उत्पाद - अनुसंधान फार्म	171,382.00		1,785,025.00	
7 विश्लेषणात्मक चार्ज	92,849,048.72	104,388,690.72	68,596,035.63	73,152,984.63

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025

जैसेकि 31.03.2020 को है, प्राप्त और अदायगी लेखे का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम(रुपयों में)			
	चालू वर्ष 2019-20		पिछले वर्ष 2018-19	
II मसाला पार्क से आय				
1 स्पाइस पार्क - प्रयोक्ता शुल्क	-		-	
2 विकास चार्ज	-		-	
3 पट्टे से आय	-	-	-	-
III रजिस्ट्रीकरण व अनुमतीकरण के लिए शुल्क				
1 नीलामकर्त्ताओं व ब्यौहारियों का लाइसेन्स शुल्क	(8,600.00)		1,492,700.00	
2 निर्यातकों से संगृहीत प्रतिभागिता शुल्क	8,088,221.00		8,260,000.00	
3 प्रयोक्ता शुल्क- इ-नीलाम	-		8,083,391.00	
4 सी आर ई एस	28,174,021.38		33,049,538.24	
5 परामर्श शुल्क	-	36,253,642.38	-	50,885,629.24
IV पत्र-पत्रिकाओं के लिए चंदा और सावधि पत्रिकाओं की बिक्री				
1 सावधि पत्रिकाएं/न्यज लेटर्स	27,430.00		236,735.00	
2 पत्रिकाएँ	-		-	
3 विज्ञापन/न्यज लेटर्स	-	27,430.00	-	236,735.00
V अन्य फुटकर आय				
1 अतिथि कमरा भाडा	945,505.00		1,455,657.00	
2 स्क्राप की बिक्री	14,945.00		152,093.00	
3 वापसी- ब्रैंड संवर्धन अनदान	-		-	
4 अन्य प्राप्तियाँ	3,149,364.76		4,860,845.02	
5 रासायनिक तथा गिलासवेयर जैसी अन्य प्रयोगशाला-सामग्रियाँ	-		-	
6 प्राप्ति- अन्य कृषि उत्पाद	-	4,109,814.76	-	6,468,595.02
कुल		144,779,577.86		130,743,943.89
अनुसूची - 44 ऋण चुकोती				
1 गृह निर्माण अग्रिम	-		-	
2 कार अग्रिम	19,920.00		18,260.00	
3 स्कटर अग्रिम	246,483.00		35,900.00	
4 साइकिल अग्रिम	-		1,050.00	
5 कम्प्यूटर अग्रिम	90,145.00		96,680.00	
6 भारतीय मसाला ब्रैण्डों का संवर्धन	7,320,871.00	7,677,419.00	2,500,000.00	2,651,890.00
कुल		7,677,419.00		2,651,890.00

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025

जैसेकि 31.03.2020 को है, प्राप्त और अदायगी लेखे का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम(रुपयों में)			
	चालू वर्ष 2019-20		पिछले वर्ष 2018-19	
अनुसूची - 45 अन्य प्राप्तियां				
1 प्रशिक्षण शल्क संगहीत	50,850.00		219,188.00	
2 पी एस एफ टी सदस्यता शल्क	-		-	
3 कषकों के आई डी कार्ड	-		150.00	
4 अन्य प्राप्तियां - बस किराया	-		-	
5 अन्य प्राप्तियां	-		-	
6 बोर्ड क्वार्टर्स अनजप्टि शल्क	89,752.00		93,147.00	
7 वाहन बिक्री	-	140,602.00	-	312,485.00
कुल		140,602.00		312,485.00
अनुसूची - 46 अन्य अग्रिम/जमा				
1 यात्रा अग्रिम	1,401,000.00		2,825,691.00	
2 एल टी सी अग्रिम	675,775.00		940,269.00	
3 उत्सव अग्रिम	-		9,000.00	
4 चिकित्सा अग्रिम	285,522.00		312,000.00	
5 वेतन अग्रिम	-		-	
6 गरम पहनावा अग्रिम	-		-	
7 अन्य भत्ते	-	2,362,297.00	-	4,086,960.00
कुल		2,362,297.00		4,086,960.00
अनुसूची - 47ए बाहरी पार्टियों से जमा				
बाहरी पार्टियों से जमा	41,521,688.66	41,521,688.66	69,010,547.81	69,010,547.81
कुल		41,521,688.66		69,010,547.81
अनुसूची - 47 बी विप्रेषण प्रतीक्षित वसूलियाँ				
चालू देयता वसूलियाँ	237,771,605.40	237,771,605.40	313,413,110.16	313,413,110.16
कुल		237,771,605.40		313,413,110.16

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025

जैसेकि 31.03.2020 को है, प्राप्त और अदायगी लेखे का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम(रुपयों में)			
	चालू वर्ष 2019-20		पिछले वर्ष 2018-19	
द्वय -प्लान				
अनुसूची-48 योजनाएं				
1 सहायता - अनदान - शैक्षिक संस्थाएं	-	-	-	-
2 सहायता - अनदान - शैक्षिक वजीफा	-	-	-	-
कुल		-		-
अनुसूची - 49 - स्थापना खर्च				
1 कार्मिक लागत - अधिकारियों का वेतन	18,200,025.00		8,967,217.00	
2 कार्मिक लागत - अधिकारियों का सेवानिवृत्ति-लाभ	87,084,898.00		66,041,957.00	
3 कार्मिक लागत- स्टाफ का वेतन	34,081,557.00		28,973,761.00	
4 कार्मिक लागत - स्टाफ का सेवानिवृत्ति-लाभ	144,730,974.00		123,837,849.00	
5 कार्मिक लागत- अन्य खर्च	673,980.00		1,968,398.00	
6 स्थापना खर्च	9,483,262.90		7,292,404.00	
7 यात्रा खर्च		294,254,696.90		237,081,586.00
कुल		294,254,696.90		237,081,586.00
अनुसूची - 50 - प्रशासनिक खर्च				
1 किराया, दर और कर	-		224,756.00	
2 प्रशासन लागत एवं विज्ञापन चार्ज	86,310,699.25		27,694,641.84	
3 वित्त चार्ज व बैंक चार्ज	74,743.66		478,665.86	
4 सेवाकर एवं शिक्षा उपकर	-		-	
5 अन्य खर्च - पंजी	853,180.00	87,238,622.91	470,990.00	28,869,053.70
कुल		87,238,622.91		28,869,053.70

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025

जैसेकि 31.03.2020 को है, प्राप्त और अदायगी लेखे का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम(रुपयों में)	
	चालू वर्ष 2019-20	पिछले वर्ष 2018-19
व्यय - प्लान		
अनुसूची - 51 - निर्यातानुसूख उत्पादन कार्यक्रम		
1 विस्तार सलाहकार योजना	146,837,418.00	171,308,636.40
2 छोटी इलायची प्रमाणित पौधशाला - इमदाद एवं अन्य खर्च	-	-
3 पॉली बैग पौधशाला योजना	-	-
4 विभागीय पौधशाला योजना	4,736,761.00	5,010,327.00
5 पनरोपण - छोटी इलायची	54,861,528.00	29,975,775.00
6 पनर्यवन - छोटी इलायची	9,869,750.00	-
7 पनरोपण इलायची - कर्नाटक क्षेत्र	-	-
8 डब्ल्यू जी डी पी - कर्नाटक - इमदाद	-	-
9 डब्ल्यू जी डी पी केरल - इमदाद	-	-
10 डब्ल्यू जी डी पी तमिलनाडु - इमदाद	-	-
11 वर्षा जल संभरण - छोटी इलायची - इमदाद	198,920.00	306,416.00
12 वर्षा जल संभरण - (उ.प.)	27,675.00	-
13 वर्षा जल संभरण - सिक्किम	-	-
14 सधरे क्यरिंग उपाय छो.इ. इमदाद	3,334,249.00	1,026,485.00
15 बड़ी इलायची विस्तार खर्च	49,723,719.00	51,025,107.00
16 बड़ी इलायची -पनर्यवन	-	-
17 वयनाड में पादप सामग्री उत्पादन - कालीमिर्च	-	-
18 पनरोपण एवं पनर्यवन - काली मिर्च - वयनाड	-	-
19 उ.प. में पादप सामग्री उत्पादन - कालीमिर्च	-	-
20 उ.प. में पनरोपण एवं पनर्यवन - कालीमिर्च	-	-
21 न्यरिंग हाउस - बड़ी इलायची - सिक्किम - इमदाद	-	-
22 प्रमाणित पौधशाला - बड़ी इलायची - इमदाद एवं अन्य खर्च	-	-
23 पनरोपण - बड़ी इलायची - सिक्किम/पश्चिम बंगाल क्षेत्र	56,596,120.00	41,443,145.00
24 कालीमिर्च रोपण	-	-
25 पॉलिथीन शीट की आपूर्ति - इमदाद	-	-
26 बांस चटाइयों की आपूर्ति - इमदाद	-	-
27 कैचआ कंपोस्ट गड्डों की स्थापना - इमदाद	1,413,000.00	899,250.00

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025

जैसेकि 31.03.2020 को है, प्राप्त और अदायगी लेखे का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम(रुपयों में)	
	चालू वर्ष 2019-20	पिछले वर्ष 2018-19
28 मिर्च में आई पी एम को बढ़ावा - इमदाद	-	-
29 कालीमिर्च में आई पी एम को बढ़ावा - इमदाद	-	-
30 कालीमिर्च थ्रेशर - इमदाद	2,461,202.00	2,805,778.00
31 बीजीय मसाला थ्रेशर्स-(पावर)	3,690,000.00	406,500.00
32 बीजीय मसाला थ्रेशर्स-(मैनअल)	-	-
33 हल्दी बॉलयर	7,853,200.00	3,749,000.00
34 हल्दी पॉलिशेर्स	1,600,000.00	946,080.00
35 क्यूरिंग हाउस -इमदाद (उ.प.) संशोधित भट्टी	583,500.00	1,126,250.00
36 नव रोपण - बड़ी इलायची (उ.प)	-	-
37 कृषकों को प्रशिक्षण - उ.प.	218,560.00	-
38 जैव कृषि - अदरक उ.प. - इमदाद	-	-
39 जैव कृषि - हल्दी - उ.प. इमदाद	-	-
40 जैव नागा मिर्च	-	-
41 मसालों की जैव कृषि	-	-
42 लकादोड. हल्दी - जैव	-	-
43 जैव खेती का प्रमाणीकरण	-	-
44 कर्नाटक में इलायची के लिए बंदर के खतरे से बचाव योजना	-	-
45 जी ए पी - किटों की आपूर्ति	-	-
46 मध मक्खी पालन बॉक्स	-	-
47 खरपतवार कटर / पिट मेकर	-	-
48 पौध संवर्धन सुरक्षा उपकरण	-	-
49 धलाई उपकरण	-	-
50 पोलिशेर्स - इलायची	-	-
51 प्रशिक्षण - उत्तर पर्व	-	-
52 सिंचाई संरचना - सिक्किम पश्चिम बंगाल उत्तर पर्व	-	-
53 सिंचाई उपकरण -सिक्किम पश्चिम बंगाल उत्तर पर्व	-	-
54 कालीमिर्च लॉग तड़ाईं के लिए निसेनी	-	-
55 कालीमिर्च सफाई ग्रेडर	-	-
56 जायफल ड्रीहल्लर	-	-
57 जायफल ड्रायर	1,050,500.00	183,000.00
58 पदीना आसवन यन्त्र	710,390.00	1,327,404.00
59 आई सी एस की रखरखाव के लिए सहायता	-	-
60 ग्रेडिंग छलनियाँ - सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उ.प.	-	-

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025

जैसेकि 31.03.2020 को है, प्राप्त और अदायगी लेखे का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम(रुपयों में)	
	चालू वर्ष 2019-20	पिछले वर्ष 2018-19
61 आई एल डी कर्नाटक	-	-
62 आई एल डी केरल	-	-
63 आई एल डी तमिल नाडु	-	-
64 पिट डिग्गर - सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उ.प.	-	-
65 केसर विकास कार्यक्रम	-	-
66 हंसिया, कदाल और छरी -सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उ.प.	-	-
67 छोटी इलायची पादप संरक्षण उपकरण	-	-
68 स्प्रेयर - सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उ.प.	-	-
69 विदेश में प्रशिक्षण	238,964.00	-
70 बड़ी इलायची रोपण सामग्री उत्पादन	8,206,250.00	63,000.00
71 छोटी इलायची रोपण सामग्री उत्पादन	2,275,100.00	-
72 पंजीगत व्यय	115,306.00	824,724.00
73 एस ए डब्ल्यू ओ डायर	-	-
74 मसालों में पौधशाला प्रबंधन पर कौशल विकास कार्यक्रम	-	-
75 ई ओ पी योजना	-	213,416.00
76 बड़ी इलायची -सिंचाई उपकरण	95,760.00	325,792.00
77 बड़ी इलायची - सिंचाई ढांचा	30,000.00	285,500.00
78 जैव बीज बैंक	37,500.00	25,000.00
79 छोटी इलायची - आईएलडी - सिंचाई पंप सेट	260,786.00	330,463.00
80 छोटी इलायची - आईएलडी - जल भंडारण ढांचा	1,100,712.00	470,000.00
81 बड़ी इलायची कृषि उपकरण	142,000.00	-
82 छोटी इलायची आईएलडी - सक्षम -सिंचाई उपकरण	49,558.00	-
83 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम - मसाला उत्पादक सोसाइटी	1,076,220.00	-
84 अनसंचित जाति- उप योजना	24,243,712.00	-
85 अनसंचित जनजाति- उप योजना	1,141,040.00	384,779,400.00
कुल	384,779,400.00	314,077,048.40
अनुसूची - 52 निर्यातानुसंधान कार्यक्रम		
1 अनसंधान खर्च-छोटी इलायची - राजस्व	61,346,316.42	54,911,674.90
2 अनसंधान खर्च-छोटी इलायची - पंजी	2,983,470.00	8,193,616.00
3 अनसंधान खर्च- बड़ी इलायची - राजस्व	5,600,544.00	7,330,038.00
4 अनसंधान खर्च-बड़ी इलायची - पंजी		
कुल	69,930,330.42	70,435,328.90

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025

जैसेकि 31.03.2020 को है, प्राप्त और अदायगी लेखे का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम(रुपयों में)			
	चालू वर्ष	2019-20	पिछले वर्ष 2018-19	
अनुसूची - 53 गुणवत्ता सुधार				
1 गणवत्ता मल्यांकन प्रयोगशाला कोच्ची - राजस्व		90,749,242.00		83,608,151.66
2 गणवत्ता मल्यांकन प्रयोगशाला कोच्ची - पंजी		1,797,485.00	92,546,727.00	21,976,835.00
कुल		92,546,727.00		105,584,986.66
अनुसूची-54 निर्यात विकास/संवर्धन कार्यक्रम				
1 अवसंरचना - मसाला पार्क - राजस्व		18,532,670.69		18,747,236.72
2 अवसंरचना - मसाला पार्क- पंजी		7,161,449.00		3,963,799.00
3 अवसंरचना - छिदवाडा मसाला पार्क - राजस्व		-		-
4 अवसंरचना - छिदवाडा मसाला पार्क - पंजी		-		-
5 सहायता - अनदान - तकनोलजी अंतरण व उत्पादन उन्नयन - इमदाद		-		-
6 हाई टेक अपनाना		-		-
7 पैकेजिंग विकास - सहायता एवं प्रतिपत्ति - खर्च		889,606.00		-
8 गणवत्ता प्रमाणन		-		-
9 व्यावसायिक नमनों का विदेश भेजना		-		38,950.00
10 विवरण पस्तिकाओं का मद्रण		-		-
11 इन-हाउस प्रयोगशाला की स्थापना/उन्नयन		515,892.00		-
12 गणवत्ता मल्यांकन प्रयोगशाला मंबई - राजस्व		-		-
13 गणवत्ता मल्यांकन प्रयोगशाला मंबई - पंजी		-		-
14 गणवत्ता मल्यांकन प्रयोगशाला गंटर - पंजी		-		-
15 गणवत्ता मल्यांकन प्रयोगशाला चेन्नई - पंजी		-		-
16 गणवत्ता मल्यांकन प्रयोगशाला ततिकोरिन - पंजी		-		-
17 गणवत्ता मल्यांकन प्रयोगशाला दिल्ली - राजस्व		-		-
18 गणवत्ता मल्यांकन प्रयोगशाला दिल्ली - पंजी		-		-
19 अन्तर्राष्ट्रीय मेले		41,498,441.50		39,305,475.68
20 निर्यातकों को सहायता - व्यापार मेलों में प्रतिभागिता - इमदाद		99,896.00		304,886.00
21 विदेश में विपणी अध्ययन		808,400.00		-
22 व्यापार सचना एवं व्या.स.से. सर्वेक्षण - राजस्व		-		150,000.00
23 व्यापार सचना एवं व्या.स.से. सर्वेक्षण - पंजी		-		-
24 सचना प्रौद्योगिकी - राजस्व		8,474,022.00		4,270,898.00
25 सचना प्रौद्योगिकी - पंजी		1,835,102.00		817,806.00
26 प्रकाशन एवं मद्रण - राजस्व		2,829,221.00		11,287,416.00

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025

जैसेकि 31.03.2020 को है, प्राप्त और अदायगी लेखे का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम(रुपयों में)			
	चालू वर्ष 2019-20		पिछले वर्ष 2018-19	
27 प्रकाशन एवं मद्रण - पंजी	-		-	
28 विपणन सेवाएं - राजस्व	138,102,887.43		151,236,048.00	
29 विपणन सेवाएं - पंजी	32,780.00		(4,779,466.00)	
30 इलायची का इ - नीलाम - राजस्व	-		-	
31 इलायची का इ - नीलाम - पंजी	-		-	
32 ब्रैंड संवर्धन	-		-	
33 अनसंधान संस्थानों को सहायता	1,532,717.00		(97,552.00)	
34 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां/बैठकें	429,985.00		34,335.00	
35 निर्यातान्मख प्रसंस्करण इकाई- राजस्व	-		-	
36 घरेलू विपणि सर्वेक्षण/अध्ययन व संवर्धन	4,693,395.00		5,961,227.00	
37 तकनीकलजी एवं प्रक्रिया उन्नयन	-		-	
38 क्रेता-विक्रेता बैठक	2,323,516.36	229,759,980.98	854,926.00	232,095,985.40
कुल		229,759,980.98		232,095,985.40
अनुसूची - 55 - मानव संसाधन विकास एवं कार्य				
1 प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रम सामग्रियां	1,892,675.68		918,814.40	
2 अनरक्षण खर्च (सिविल व इलेक्ट्रिकल)	8,712,572.00		2,694,987.00	
3 एच आर डी पंजी	216,021.00	10,821,268.68	152,085.00	3,765,886.40
कुल		10,821,268.68		3,765,886.40
अनुसूची - 56 - बाह्य निधिबद्ध/ए एस आई डी ई योजनाएं				
1 इलायची विकास निधि -राजस्व	-		-	
2 इलायची विकास निधि - पंजी	-		(40,980.00)	
3 परिस्थिति अनकल नीम परियोजना -चरण 2 - राजस्व	-		-	
4 परिस्थिति अनकल नीम परियोजना -चरण 2 - पंजी	-		(152,690.00)	
5 ए एस आई डी ई - छिंदवाडा - राजस्व	-		-	
6 ए एस आई डी ई - छिंदवाडा - पंजी	-		-	
7 ए एस आई डी ई - गंटर - राजस्व	-		-	
8 ए एस आई डी ई - गंटर - पंजी	3,086,326.00		97,745.00	
9 ए एस आई डी ई - चेन्नई - राजस्व	-		-	
10 ए एस आई डी ई - चेन्नई - पंजी	-		-	
11 ए एस आई डी ई - नई दिल्ली - राजस्व	-		-	
12 ए एस आई डी ई - नई दिल्ली - पंजी	-		-	

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025

जैसेकि 31.03.2020 को है, प्राप्त और अदायगी लेखे का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम(रुपयों में)	
	चालू वर्ष 2019-20	पिछले वर्ष 2018-19
13 ए एस आई डी ई -कोलकाता - राजस्व	-	-
14 ए एस आई डी ई - कोलकाता - पंजी	-	4,085,881.00
15 ए एस आई डी ई - ततिकोरिन - राजस्व	-	-
16 ए एस आई डी ई - ततिकोरिन - पंजी	-	-
17 ए एस आई डी ई - काण्डला पत्तन - गजरात - पंजी	-	-
18 ए एस आई डी ई - काण्डला पत्तन - गजरात - राजस्व	-	-
19 ए एस आई डी ई - मंबई - राजस्व	-	236,808.00
20 ए एस आई डी ई - मंबई - पंजी	-	7,182,731.00
21 ए एस आई डी ई - गना - राजस्व	22,500.00	2,028,844.00
22 ए एस आई डी ई - गना - पंजी	2,071,657.00	14,973,837.00
23 ए एस आई डी ई - कोटा - राजस्व	-	50,000.00
24 ए एस आई डी ई - कोटा - पंजी	-	-
25 ए एस आई डी ई - हमीरपर - राजस्व	-	-
26 ए एस आई डी ई - राय बरेली - राजस्व	-	-
27 ए एस आई डी ई -राय बरेली- पंजी	-	-
28 ए एस आई डी ई - आई आई पी एम - राजस्व	2,422,871.00	4,662,701.00
29 ए एस आई डी ई - आई आई पी एम- पंजी	-	4,389,895.00
30 एन ए आई पी योजना - राजस्व	572,948.00	-
31 एन ए आई पी योजना - पंजी	-	(92,003.00)
32 एन एच एम केरल - कालीमिर्च रोपण सामग्रियों का उत्पादन -राजस्व	-	3,726,277.35
33 एन एच एम केरल - कालीमिर्च रोपण सामग्रियों का उत्पादन- पंजी	-	-
34 एन एच एम - कालीमिर्च पनरोपण एवं पनर्यवन	-	-
35 एन एच एम - जैव इनपटों का उत्पादन	-	-
36 एन एच एम - एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन	-	-
37 एन एच एम - कालीमिर्च - एच आर डी	-	-
38 एन एच एम - प्रयोजनमलक अवसंरचना	-	-
39 एन एच एम - पूर्ण ऊतक विश्लेषणात्मक इकाई - राजस्व	-	-
40 एन एच एम - पूर्ण ऊतक विश्लेषणात्मक इकाई - पंजी	-	-
41 एन एच एम - परियोजना कार्यान्वयन - राजस्व	-	-
42 एन एच एम - परियोजना कार्यान्वयन - पंजी	-	(767,000.00)
43 एन एच एम कर्नाटक-राजस्व	-	-
44 एन एच एम - जैव तकनीकी उत्पादन इकाई - खर्च	1,722,578.00	-
45 एन एच एम - जैव तकनीकी उत्पादन इकाई - पंजी	-	(4,476,350.00)
46 आई सी ए आर - ए आई सी आर पी एस	1,065,876.00	1,110,612.00

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025

जैसेकि 31.03.2020 को है, प्राप्त और अदायगी लेखे का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम(रुपयों में)			
	चालू वर्ष 2019-20		पिछले वर्ष 2018-19	
47 आई सी ए आर - ए आई सी आर पी एस - पंजी	-	-	-	-
48 मसाला पार्क के लिए अवसंरचना - राजस्व	-	-	98,500.00	-
49 मसाला पार्क के लिए अवसंरचना - पंजी	-	-	-	-
50 निर्यात के लिए गणवत्ता मानक	-	-	-	-
51 निर्यात के लिए गणवत्ता मानक - पंजी	-	-	-	-
52 सक्षम उपग्रह मार्केटों का विकास - राजस्व	-	-	-	-
53 अंतर संस्थागत सहयोगी अध्ययन -सी एस आई आर - राजस्व	-	-	-	-
54 अंतर संस्थागत सहयोगी अध्ययन - राजस्व	-	-	-	-
55 रोग पर्वाणमान इकाई - राजस्व	-	-	-	-
56 रोग पर्वाणमान इकाई -पंजी	-	-	-	-
57 मोबाइल एग्री क्लिनिक - एस एच एम - राजस्व	678,850.00	-	-	-
58 डी यू एस जांच केंद्र- राजस्व	-	-	-	-
59 पी पी वी एफ आर ए प्रशिक्षण	-	-	-	-
60 मदा आधारित पौधा पोषक प्रबन्धन	-	-	-	-
61 डी बी टी - मल भंगक खर्च	-	-	-	-
62 डब्ल्यू जी डी पी कनार्टक - इमदाद	733,683.00	-	-	-
63 एम आई डी एच - राजस्व	-	-	2,920,327.00	-
64 न्यांमार बडी इलायची विकास परियोजना	-	-	-	-
65 आर के वी वाई - आंध्र प्रदेश	-	-	1,366,737.00	-
66 सी एस आर कार्यकलाप	-	-	-	-
67 क्षेत्र व्यापक आई पी एम कालीमिर्च - राजस्व	-	-	-	-
68 आई टी मंत्रालय की इ-स्पाइस परियोजना	1,777,881.00	-	12,678,942.00	-
69 सक्षमजीव विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र - पंजी	59,063.00	-	-	-
70 अदरक परियोजना-बस्तर	-	-	-	-
71 सक्षमजीव विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र - पंजी	-	-	-	-
72 भारतीय औषधीय पौधों में गुणवत्ता मानक	-	-	300,893.00	-
73 डब्ल्यू टी ओ-एस टी डी एफ	100,000.00	-	-	-
74 आरकेवीवाई - असम	-	-	840,000.00	-
75 आरपीएल - पीएमकेवीवाई	420,120.36	-	151,763.00	-
76 ब्रैंड संवर्धन निधि	7,622,644.00	-	-	-
77 नई पेंशन प्रणाली	37,094.47	-	-	-
78 उत्पाद अनुसंधान निधि	5,112,600.00	-	-	-
79 विश्व बैंक आईटीसी परियोजना निधि	795,817.50	28,302,509.33	-	55,373,470.35
कुल		28,302,509.33		55,373,470.35

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025

जैसेकि 31.03.2020 को है, प्राप्त और अदायगी लेखे का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम(रुपयों में)			
	चालू वर्ष 2019-20		पिछले वर्ष 2018-19	
अनुसूची - 57 - स्टाफ के लिए ब्याज सहित अग्रिम				
1 एच बी ए	400,000.00		400,000.00	
2 कार अग्रिम	-		-	
3 स्कटर अग्रिम	425,453.00		-	
4 साइकिल अग्रिम	-		-	
5 कम्प्यूटर अग्रिम	72,250.00	897,703.00	-	400,000.00
कुल		897,703.00		400,000.00
अनुसूची - 58 - अन्य अग्रिम / जमा				
1 यात्रा अग्रिम	782,275.00		3,614,619.00	
2 एल टी सी अग्रिम	851,375.00		936,001.00	
3 त्योहार अग्रिम	-		-	
4 चिकित्सा अग्रिम	-		597,522.00	
5 वेतन अग्रिम	-		-	
6 गरम पहनावा अग्रिम	-		-	
7 अन्य अग्रिम	-	1,633,650.00	-	5,148,142.00
कुल		1,633,650.00		5,148,142.00
अनुसूची - 59 - चालू देयताएं देय				
चालू देयताएं देय	9,821,900.51	9,821,900.51	36,236,847.00	36,236,847.00
कुल		9,821,900.51		36,236,847.00
अनुसूची - 60 - विप्रेषण प्रतीक्षित वसूलियाँ				
चालू देयता वसूलियाँ	197,117,975.48	197,117,975.48	327,721,309.38	327,721,309.38
कुल		197,117,975.48		327,721,309.38

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025

जैसेकि 31.03.2020 को है, प्राप्त और अदायगी लेखे का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम(रुपयों में)			
	चालू वर्ष 2019-20		पिछले वर्ष 2018-19	
अनुसूची - 61 - कार्यालय अग्रदाय/विशेष अग्रिम				
1 विशेष अग्रिम	6,330,952.96		1,960,424.00	
2 स्थाई अग्रिम/कार्यालय अग्रदाय	60,000.00	6,390,952.96	575,000.00	2,535,424.00
कुल		6,390,952.96		2,535,424.00
अनुसूची - 62 - बाहरी पार्टियों से अग्रिम / जमा				
1 बाहरी पार्टियों से जमा अग्रिम	30,049,110.07	30,049,110.07	85,841,792.41	85,841,792.41
कुल		30,049,110.07		85,841,792.41
अनुसूची - 63 - हाथ में नकदी एवं लिखत (इति शेष)				
1 सामान्य नकद	-	-	-	-
2 हाथ में नकदी एवं लिखत	-	-	-	-
कुल		-		-
अनुसूची - 64 - इति बैंक बाकी				
1 एस बी टी, कोचिन खाता सं - 57067470909	9,124,697.18		11,066,798.40	
2 एस बी एच, वेण्णला खाता सं - 52026450364	-		-	
3 एस बी आई, कोचिन खाता सं - 30026867834	-		-	
4 एक्सिस बैंक, कोचिन खाता सं - 0810200018081	2,517,690.54		2,521,690.54	
5 सेंट्रल बैंक, नई दिल्ली खाता सं - 153	91,882.50		91,882.50	
6 एस बी टी, नेडुक्कण्डम खाता सं - 57050612514	7,760,602.45		6,329,366.43	
7 एक्सिस बैंक - (प्राप्ति खाता सुडान)	10,000.08		13,460,206.30	
8 यू बी आई, चेरुतोणी खाता	-		-	
9 एस बी आई, शिमोगा खाता सं - 1064023356	-		-	
10 यू बी आई, नेडुक्कण्डम - आंचलिक कार्यालय	-		-	
11 यू बी आई, राजकुमारी - आंचलिक कार्यालय	-		-	
12 यू बी आई, नेडुक्कण्डम - प्रादेशिक कार्यालय	-		-	
13 यू बी आई, वण्डनमेडु खाता सं - 29049	-		-	
14 एस बी एम, मेरकारा खाता सं - 57046308408	-		-	
15 एस बी एम, सकलेशपुर खाता सं - 54030030186	-		-	
16 एस बी एम, चिकमगलूर खाता सं - 54010970204	-		-	
17 एस बी आई, गांतोक, खाता सं - 11018602438	-		-	
18 यू बी आई, कुमिली प्रादेशिक कार्यालय खाता	-		-	

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची -682 025

जैसेकि 31.03.2020 को है, प्राप्त और अदायगी लेखे का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

विवरण	रकम(रुपयों में)	
	चालू वर्ष 2019-20	पिछले वर्ष 2018-19
19 यू बी आई, कुमिली आंचलिक कार्यालय खाता	-	-
20 एस बी टी, आंचलिक कार्यालय, कट्टप्पना	-	-
21 एस बी टी, कलपेट्टा, प्रादेशिक कार्यालय	-	-
22 एस बी आई - पाडिवट्टम	44,132.00	44,132.00
23 एक्सिस बैंक - एन पी एस खाता	9,425.47	8,885.47
24 यू बी आई डिडिगल- आंचलिक कार्यालय	-	-
25 यू बी आई बोडिनायकन्नूर	-	-
26 एक्सिस बैंक कोचिन - भुगतान खाता	-	35,245.00
27 पीएनबी पालारिवट्टम खाता संख्या-7176002100002239	181,289,865.16	25,176,259.74
28 पीएनबी पालारिवट्टम खाता संख्या-7176002100002354	2,426,737.21	1,766,159.03
29 पीएनबी पालारिवट्टम खाता संख्या-7176002100002381(सीआरईएस)	1,231,790.50	419,459.94
30 पीएनबी सडान खाता संख्या-7176002100002345	11,233,577.05	9,178,693.11
		215,740,400.14
		70,098,778.46
कुल	215,740,400.14	70,098,778.46
अनुसूची - 65 - इति बैंक शेष (जमा खाते में)		
1 अल्पावधि जमा सामान्य	518,932,263.00	557,029,635.00
2 अल्पावधि जमा बाहर से सहायता-प्राप्त	706,242,360.00	571,573,565.00
कुल	1,225,174,623.00	1,128,603,200.00

अनुसूची - 66 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1. लेखाकरण परिपाटी

वेतन, महंगाई भत्ते का बकाया, अगर कोई हो, छुट्टी का नकदीकरण, सेवा-निवृत्ति लाभ आदि, जिनका हिसाब नकद आधार पर लगाया जाता है, को छोड़कर बोर्ड सामान्यतः आय-व्यय लेखे और तुलन-पत्र की तैयारी में लेखाकरण के प्रोद्गवन आधार को अपनाता है। वित्तीय विवरण परंपरागत लागत परिपाटी के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2. मसालों के निर्यात में गुणवत्ता मानकों के रखरखाव के लिए उद्दिष्ट निधि

बोर्ड ने मसालों के निर्यात में गुणवत्ता मानक बनाए रखने के एकल लक्ष्य के साथ कोच्ची, मुम्बई, गुण्टूर, दिल्ली के नरेला, तूत्तिकोरिन, चेन्नई और गुजरात के कांडला में गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएँ (गु.मू.प्र.) पहले ही स्थापित की हैं। बोर्ड कोलकाता में भी गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला स्थापित करने की प्रक्रिया में है। स्पाइसेस बोर्ड निर्यातकों से विश्लेषणात्मक चार्ज एकत्रित करता है और गुणवत्ता उन्नयन, मसालों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों में सामंजस्य और वैश्विक मानकों के साथ अपनी प्रक्रियाओं के बेंचमार्किंग के लिए उसके एक हिस्से का उपयोग करता है। बोर्ड निर्यात संवर्धन का प्रयास भी करता है, जिसमें प्रचार, ब्रैंडिंग, विपणन, भारतीय मसालों की उत्कृष्ट गुणवत्ता को विशेष महत्व देना और मसाला भवन प्रमाणन शामिल है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए, बोर्ड ने वर्ष 2019-20के दौरान, संगृहीत विश्लेषणात्मक चार्ज में से 2.00 करोड़ रु.की राशि उद्दिष्ट की है।

3. मसाला पार्कों की अवसंरचना के रखरखाव के लिए उद्दिष्ट निधि

बोर्ड ने मसाला उत्पादक क्षेत्रों के समीप मसालों के फसलोत्तर व प्रसंस्करण कार्य, दोनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर की सामान्य अवसंरचना-सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश के छिन्दवाडा, केरल के पुट्टुडी, राजस्थान के जोधपुर, मध्य प्रदेश के गुना, तमिल नाडु के शिवगंगा, आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर, राजस्थान के कोटा और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मसाला पार्कों की स्थापना पहले ही की है। उपर्युक्त मसाला पार्कों की स्थापना हेतु खर्च का वित्तीय प्रबंधन प्लान निधि और ए एस आई डी ई से प्राप्त सहायता दोनों से किया जाता है, जो इस कार्य के लिए पर्याप्त नहीं होगा। मसाला पार्क के रखरखाव के लिए भी पर्याप्त रकम अपेक्षित है। अतः विकास चार्ज/पट्टा राशि तथा प्रयोक्ता शुल्क के रूप में प्रवृत्त मसाला पार्कों से प्राप्त आय, जो कि 1.09करोड़ रुपए हैं, को मसाला पार्कों को पूरा करने/उनके रखरखाव के लिए उद्दिष्ट की गई है।

4. मसाला बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि के लिए उद्दिष्ट निधि

बोर्ड की वर्ष 2013-14 की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करते हुए प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा (पी डी सी ए) ने पेंशन, उपादान और छुट्टी के नकदीकरण के रूप में मसाला बोर्ड द्वारा कर्मचारियों के विषय में देयताओं के लिए कोई प्रावधान न होने के कारण 111.69 करोड़ रु. का वस्तुगत प्रभाव पाया है। तदनुसार बोर्ड को पी डी सी ए के सामने मंत्रालय से इस संबंध में एक सुविधा-पत्र प्रस्तुत करना पड़ा था कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श से जो और जैसा निर्णय लिया जाता है, बोर्ड की अनुमोदित बजट के भाग के रूप में संबन्धित वर्षों में सेवानिवृत्त होनेवाले/सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबन्धित पेंशन-देयताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रावधान बनाया जाएगा।

इन परिस्थितियों में, बोर्ड इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कर्मचारियों के लिए एक पेंशन निधि स्थापित करना उचित मानता है। तदनुसार, इस संबंध के प्रथम चरण के रूप में, जैसे कि 31-03-2016 को है, बोर्ड की पेंशन-देयताओं का एक बीमांकिक मूल्यांकन तैयार करने का कार्य भारतीय जीवन बीमा निगम को सौंपा गया। भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त बीमांकिक मूल्यांकन, जैसेकि 31-03-2016 को है, 226.23 करोड़ रुपए (195.93 करोड़ रुपए पेंशन के लिए, 18.1 करोड़ रुपए उपादान के लिए और 12.2 करोड़ रुपए छुट्टी नकदीकरण के लिए) प्राप्त हुआ है।

सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में बोर्ड की देयताओं की पूर्ति के लिए, बोर्ड ने, मसाला बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि के रूप में प्रारंभिक तौर पर वर्ष 2019-20के लिए 10 करोड़ रुपए, जैसेकि पिछले साल किया था, वर्ष 2019-20 में प्राप्त विश्लेषणात्मक शुल्क में से उद्दिष्ट किए हैं। अपेक्षित राशि जमा होने तक या मंत्रालय से बजटीय निर्माण या दूसरे तरीके से यह प्राप्त होने तक, यह प्रक्रिया जारी रहेगी। इस प्रकार से उद्दिष्ट राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों में आवधिक जमा में जमा की गई है।

5. मालसूची मूल्यांकन

आई सी ए आई द्वारा जारी, लेखाकरण मानक-2, मालसूचियों के मूल्यांकन के अनुसार, मालसूचियों का मूल्य, लागत में या वसूल करने योग्य निवल मूल्य, जो भी कम हो, में लगाया जाता है। जैसेकि 31-03-2019 को है, मालसूची का शेष स्टॉक 1,04,72,470/- रुपए का है, जिसमें इलायची, कॉफी, कालीमिर्च और रसायन शामिल हैं।

6. निवेश

जहां पर लागू हो, निवेशों को 'दीर्घ-कालीन निवेश' और 'चालू निवेश' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दीर्घ-कालीन निवेशों को लागत पर लिया जाता है। चालू निवेशों को निम्नतम लागत एवं उचित मूल्य में लिया जाता है।

7. स्थिर परिसंपत्तियां

7.1. स्थिर परिसंपत्तियां आवक मालभाडा, शुल्क, कर, प्रत्यक्ष व्यय और अभिग्रहण से संबंधित व्यय को मिलाकर अभिग्रहण की लागत में दिखाई जाती है।

7.2. वर्ष के दौरान अभिगृहीत स्थिर परिसंपत्तियों की लागत भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से चुकाई गई है।

8. चालू पूंजीगत कार्य

जैसेकि 31-03-2020 को है, चालू पूंजीगत कार्य 3.80 करोड़ रुपए का है, जो मसाला पार्क तथा गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला व प्रशिक्षण केंद्रों के लिए अवसंरचना-सुविधाओं से जुड़े निर्माण-कार्यों को दिखाता है।

9. मूल्यहास

बोर्ड ने 01-04-2008 से लेकर अपनी स्थिर परिसंपत्तियों पर आयकर नियमों में उल्लिखित दरों में मूल्यहास लगाया है। सभी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को अवलिखित मूल्य (डब्ल्यू डी वी) तरीके के आधार पर प्रदान किया जाता है। वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों, जिसका प्रयोग 180 दिनों से कम समय के लिए किया गया है, की जोड़ाई के संबंध में मूल्यहास, लागू दर के आधे में प्रदान किया गया है।

10. विदेशी मुद्रा लेन-देन

विदेशी मुद्रा में आँकी गई लेन-देन की गणना आई सी ए आई द्वारा जारी ए एस-11 का अनुपालन करते हुए ऐसी लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर की जाती है।

11. राजस्व मान्यता

(क) सहायता-अनुदान और इमदाद: बोर्ड के योजनाधीन कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता भारत सरकार के सहायता-अनुदानों और इमदादों के ज़रिए प्राप्त हो जाती है। बोर्ड द्वारा सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक बजट के अनुमोदन के ज़रिए यह प्राप्त की जाती है।

(ख) आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन - प्राप्ति के प्रमुख स्रोत मसाले नमूनों के विश्लेषणात्मक चार्ज, पादपों, फार्म उत्पादों की बिक्री से आय, पत्रिकाओं/सावधि प्रकाशनों के लिए प्राप्त चंदा, निर्यातकों से प्राप्त रजिस्ट्रीकरण शुल्क और मसाला-पार्कों से प्राप्त विकास चार्ज, प्रयोक्ता शुल्क व पट्टे का किराया आदि हैं। इन्हें प्रोद्भवन आधार पर पहचाना जाता है।

12. सरकारी अनुदान/इमदाद

12.1 सरकारी अनुदानों/इमदादों का हिसाब वसूली के आधार पर रखा जाता है।

12.2 सरकारी अनुदान को भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ए एस-12 के अनुपालनार्थ पूंजी दृष्टिकोण और आय दृष्टिकोण, जो भी लागू हो, के अधीन लिया जाता है।

13. सेवानिवृत्ति लाभ

कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ; नामतः उपदान, पेंशन सारांशीकरण के लिए प्रावधान और संचित छुट्टियों के नकदीकरण लाभ के लिए प्रावधान 2015-16 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार चालू वर्ष के खाते में किया जाता है। मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी लाभ 226.23 करोड़ रु. है, जिसमें से बोर्ड ने 31.03.2018 तक 197.54 करोड़ रु. पहले ही प्रदान किया है। जैसेकि 31-03-2020 को है, पीडीसीए को दिए आश्वासन के अनुसार राशि 226.63 करोड़ रुपए है।

14. बाहरी एजेंसियों से प्राप्त निधियाँ

ए एस आई डी ई/बाहरी एजेंसियों से प्राप्त निधियों को एक राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते के ज़रिए संचालित किया जाता है। किसी एक योजना के तहत प्राप्त निधि उस योजना के लिए प्रस्तावित व्यय के लिए पर्याप्त नहीं होती, तो ऐसे मामलों में कमियों को पूरा करने के लिए बोर्ड की निधियों का उपयोग किया जाता है। एएसआईडीई/बाहरी एजेंसियों के तहत निधीयन भारत सरकार द्वारा निर्माचित प्लान/नॉन-प्लान निधि से भिन्न, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए होता है। वैसे ही, बोर्ड की निधियों व योजना निधियों के लेखों का रखरखाव व्यावहारिक सुविधा के लिए एकसाथ किया जाता है।

15. स्थिर परिसंपत्तियों में परिवर्धन - प्लान निधि(समग्र निधि में अंतरित)

बोर्ड द्वारा प्राप्त अनुदान सामान्य प्रयोजन के अनुदान है। बोर्ड की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अनुदान प्राप्त किए जाते हैं। निधियों का उपयोग किसानों तथा निर्यातकों के लिए अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने हेतु स्थिर परिसंपत्तियों की स्थापना या अधिग्रहण के लिए भी किया जाता है। इन्हीं निधियों से बोर्ड के परिचालन व्यय की पूर्ति भी की जाती है। समग्र निधि में जोड़ी गई 1.50 करोड़ रु. की राशि वर्ष के दौरान प्लान निधियों एवं गैर प्लान निधियों से स्थिर परिसंपत्तियों में किया गया परिवर्धन है। चूंकि अनुदान विनिर्दिष्ट रूप से स्थिर परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उद्दिष्ट नहीं है, परिसंपत्ति मूल्य से अनुदान राशि की कटौती करने या उसे आस्थगित राजस्व के रूप में समझने का सवाल नहीं उठता।

16.परिसंपत्तियों की क्षति

जैसे कि तुलन-पत्र की तारीख को है, बोर्ड ने आई सी ए आई द्वारा जारी ए एस-28 के अनुसरण में परिसंपत्तियों के वसूलीयोग्य मूल्य का मूल्यांकन किया है। जैसे कि तुलन-पत्र की तारीख में है, क्षति-हानि का पता लगाने के लिए, यदि कोई है तो, परिसंपत्तियों की रखाव-राशि की समीक्षा की गई। जैसे कि मूल्यांकन-तारीख को है, परिसंपत्तियों की वसूलीयोग्य राशि प्रत्येक परिसंपत्तियों की रखाव-राशि से अधिक है। बोर्ड ने वित्तीय विवरणी में किसी क्षति-हानि के लिए अपने में कोई प्रावधान नहीं बनाया है।

17. बाह्य निधिक/ ए एस आई डी ई योजनाओं से कराया गया जमा

जैसेकि 31.03.2020 को है जमा खातों में बैंक में शेष राशि, बाह्य निधिक/ए एस आई डी ई योजनाओं से कराई गई 70.62 करोड़ रु. की जमा राशि सहित 122.52 करोड़ रु. की है।

1 से 30 तथा 31 से 67 तक की अनुसूचियाँ अनुबंध के रूप में दी गई हैं और तुलन-पत्र, जैसेकि 31.03.2020 को है, और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे का एक अभिन्न अंग बनती हैं ।

अनुसूची -67 आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणी

1. आकस्मिक देयताएं

1.1 संस्था के खिलाफ के दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किए गए - रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

1.2 इनके बारे में कि

- संस्था द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी - रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

- संस्था की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख-पत्र - रु. शून्य

- बैंकों के साथ भुनाए गए बिल - रु.शून्य (पिछले वर्ष रु.शून्य)

1.3 निम्नलिखित बातों पर विवादग्रस्त माँग : आयकर रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

बिक्री कर रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य),

नगरपालिका कर - शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

1.4 आदेशों के गैर-निष्पादन के लिए व्यक्तियों से प्राप्त, लेकिन संस्था द्वारा विरोध किए गए दावे के बारे में रु.शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

2. पूंजी प्रतिबद्धताएँ

पूँजी -लेखे पर जो संविदाएँ बनाए जाने हेतु बाकी हैं और नहीं प्रदान की गई हैं, उनका आकलित मूल्य (अग्रिम का निवल) के लिए रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

3. पट्टा बाध्यताएँ

प्लॉट और मशीनरी के लिए वित्तीय पट्टा व्यवस्था के अधीन किराए के लिए भविष्य की बाध्यताएँ- रु. शून्य (पिछले वर्ष रु.शून्य)

4. चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन की राय में, कारोबार के सामान्य क्रम में चालू परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम का वसूल किया गया मूल्य कम से कम तुलन-पत्र में दर्शाए कुल रकम के तत्तुल्य हैं ।

5. कराधान

स्पाइसेस बोर्ड का आय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 29-ए के अधीन छूट प्राप्त है, आयकर के लिए कोई भी प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

6.1 सी.आई.एफ. आधार पर आयार्तों के संगणित मूल्य

	यू एस डी	स्टेर्लिंग	येन	सी एच एफ	जीबीपी
- तैयार माल की खरीद	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
- पूंजी माल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

यू एस डी स्टेर्लिंग येन सी एच एफ जीबीपी
 - भंडारण, अतिरिक्त और उपभोज्य: 102398.9 012 शून्यशून्य 506

6.2 विदेशी मुद्राओं में व्यय

क) यात्रा यू एस डी यूरो ए ई डी ए यू डी जी बी पी

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची-682025

31-03-2020को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं का हिस्सा बननेवाली अनुसूचियां

20291शून्य

शून्य शून्यशून्य

ख) बैंकों व वित्तीय संस्थाओं में विदेशी मुद्रा में विप्रेषण और ब्याज भुगतान - शून्य

यूएसडी यूरो एसजीडी जीबीपी आरएम एयूडी

ग) व्यापार मेले में स्टॉल भाड़ा: 16564 58871.3 शून्यशून्यशून्य शून्य

घ) अन्य व्यय: 7670 शून्यशून्य शून्य शून्य शून्य

बैठकें व सेमिनार शून्यशून्य शून्य शून्य शून्यशून्य

अन्य शून्यशून्य शून्य शून्य शून्यशून्य

-बिक्री पर कमीशन - शून्य

- कानूनी एवं व्यावसायिक खर्च - शून्य

6.3 अर्जन

एफ ओ बी आधार पर निर्यातों का मूल्य - शून्य

6.4 लेखापरीक्षकों को मेहनताना:

लेखापरीक्षकों के रूप में शून्य

- कराधान मामले - शून्य

- प्रबंधन सेवा के लिए शून्य

- अन्य शून्य

7. सामान्य भविष्य निधि

बनाई रखी गई

8. पूंजी निधि

जैसे कि 01-04-2019 को है निधि का शेष (-)59,09,64,178.25 रु. था। निधि का समूचा स्रोत केंद्र सरकार से प्राप्त आबंटन था। अतः वर्ष के दौरान पूंजी के रूप में संगठन की अपेक्षा के लिए सरकार से प्राप्त राशि को निधि में जोड़ाई के रूप में दिखाया गया था। वर्ष के लिए आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता 43,33,33,395.98 रु. का था, जिसे निधि से घटाया गया है। 31-3-2020 तक निधि का शेष(-)100,93,02,781.23 रु. है। योजना एवं गैर-योजना के अधीन स्थाई परिसंपत्तियों के अभिग्रहण के लिए अनुदान के रूप में वर्ष के दौरान प्राप्त निधि को विशेष उपयोग के लिए उद्दिष्ट निधि के रूप में नहीं माना गया है क्योंकि यह किसी विशेष परिसंपत्ति के लिए रखी निधि नहीं है। संगठन ने वर्ष के दौरान किसी पूंजीगत रिज़र्व, पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व और विशेष रिज़र्व नहीं बनाया है। कोई सामान्य रिज़र्व भी नहीं है।

9. अन्य

पिछले वर्ष के अनुरूप अंकों को, जहां कहीं आवश्यक हो, पुनः वर्गीकृत/पुनः क्रमीकृत किया गया है।

1 से 30 तथा 31 से 67 तक की अनुसूचियाँ, अनुबंध के रूप में दी गई हैं और तुलन-पत्र, जैसेकि 31.03.2020 को है, और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे का एक अभिन्न अंग बनती हैं ।

(हं.)

निदेशक (वित्त)

(हं.)

सचिव

**AUDIT REPORT
ON
SPICES BOARD
FOR THE YEAR
2019-20**

INDEX

Sl. No	Description	Page No.
1	Separate Audit Report	A-E
2	Balance Sheet	1
3	Income and Expenditure Account	2 – 3
4	Receipts and Payments Account	4
5	Schedules forming part of Balance Sheet	5 – 29
6	Schedules forming part of Income and Expenditure Account	30 – 39
7	Schedules forming part of Receipts and Payments Account	40 – 57
8	Significant Accounting Policies & Notes on Accounts	58 – 61

**SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR
GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF SPICES BOARD FOR THE
YEAR ENDED 31 MARCH 2020**

We have audited the attached Balance Sheet of Spices Board, Kochi (Board) as at 31 March 2020 and the Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 24 of the Spices Board Act 1986. These financial statements include the accounts of units/branches of the Board. These financial statements are the responsibility of the Boards' management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules and regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material mis-statements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- (ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance, Government of India.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Board as required under Section 23 of Spices Board Act, 1986 in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

(A) BALANCE SHEET

1. Liabilities

1.1 Earmarked/Endowment Funds : ₹ 240.46 crore

1.1 Above is understated by ₹ 3.52 crore due to accounting of interest earned during the year as income in the Income and Expenditure Account instead of crediting the same to the Earmarked Funds (Pension Liabilities) under the head 'Income from investments made on account of funds'. This has resulted in understatement of Earmarked/Endowment Funds and Excess of Expenditure over Income by ₹3.52 crore. **The comment was also raised in the SAR for the year 2018-19, however, no corrective action taken by the Board.**

1.2 Above is understated by an amount of ₹ 2.12 crore due to non-accounting of interest accrued, during the year 2019-20, on Earmarked Pension Funds. This has resulted in understatement of Earmarked/Endowment Funds and Current Assets (Income Accrued) by ₹ 2.12 crore.

2. Assets

2.1 Fixed Assets : ₹200.16 crore

Above is understated by an amount of ₹ 1.45 crore due to non-capitalization of Spice Parks and Quality Evaluation Labs even though the same have been completed and started functioning. This has also resulted in overstatement of Capital Work in Progress. However, impact of non-charging of depreciation on these assets could not be worked out by Audit as the date of put-to-use of these assets were not furnished.

(B) INCOME AND EXPENDITURE

Income

Interest Earned: ₹ 6.77 crore

Above is understated by an amount of ₹ 0.16 crore due to non-accounting of interest accrued, during the year 2019-20, on short term deposits. This has also resulted in understatement of Current Assets (Income Accrued) to the same extent.

(C) GENERAL

1. As per Schedule 67 of Contingent Liabilities and Notes on Accounts, it is stated that Letters of Credit opened by bank on behalf of the entity is shown as Nil. However, as on 31 March 2020, the Board had four opened Letter of Credits. As such the disclosure is deficient to that extent.

2. The Board has fixed an imprest for each of its field units. The Board shown this imprest under Current Assets as Permanent Advance Office Imprest. The amount spend by field units from the imprest is recouped by the Board after making the expenditure entry in its Accounting System. The expenditure incurred by the field units, during the current financial year, which has not been recouped by the Board till 31 March 2020, has resulted in overstatement of Permanent Advance Office Imprest and understatement of Expenditure of the Board for the year.

Further, the existing practice of showing the closing balance of Cash and Bank balances of field units under Permanent Advance Office Imprest resulted in understatement of Cash/Bank balance of the Board and overstatement of Permanent Advance Office Imprest.

(D) GRANTS IN AID

Unutilized Grants (excluding Internal and Extra Budgetary Resource) carried forward from previous year 2018-19 was nil. During the year, Grants amounting to ₹105.00 crore was received which was fully utilized, leaving a nil balance of Grants at the end of the year.

(E) MANAGEMENT LETTER

Deficiencies which have not been included in Audit Report are brought to the notice of the Chairman, Spices board, Kochi, through a Management letter to be issued separately for remedial/corrective action.

Ⓓ

- (v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income & Expenditure Account; Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- (vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with Accounting Policies and Notes on Accounts and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure-I to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:
- (a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Spices Board, Kochi as at 31 March 2020; and
- (b) In so far as it relates to Income & Expenditure Account, of the deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India,



(R. AMBALAVANAN)

Director General of Commercial Audit, Chennai

Place: Chennai
Date: 12.11.2020

Annexure – I

1. Adequacy of Internal Audit System

During the year 2019-20, the Internal Audit Division has conducted audit of only one unit out of 105 Offices (including Head Office) of the Board.

2. Adequacy of Internal Control

- i. Internal control system is inadequate and not commensurate with the size and nature of the Board.
- ii. The Board has not prepared the bank reconciliation statements for two of its bank accounts.
- iii. Bank balances are overstated by ₹ 0.19 crore due to non-posting of entries from cash book to trail balance on account of system failure.
- iv. Non-migration of data from previous accounting software, resulting in non-availability of details, has rendered the accounts unreliable.
- v. As per Rule 229 (xi) of General Financial Rules, Autonomous organizations with a budgetary support of more than Rupees five crores per annum, should be required to enter into a Memorandum of Understanding with the Administrative Ministry or Department, spelling out clearly performance parameters, output targets in terms of details of programme of work and qualitative improvement in output, along with commensurate input requirements. The output targets, given in measurable units of performance, should form the basis of budgetary support extended to these organisations. The roadmap for improved performance with clear milestones should form part of the MoU. The Board has not executed MOU with administrative ministry during 2019-20 as required under above provisions of General Financial Rules.

3. System of physical verification of Assets

Out of the 105 offices of the Board (including Head Office), Asset verification reports of 64 offices were only provided to audit. The Asset verification reports of 41 offices (including Head Office) have not been provided. As such the system of physical verification of assets is inadequate and not commensurate with the size of the organization.

4. System of physical verification of inventory

The physical verification of inventories was not conducted during the year 2019-20.

5. Regularity in payment of statutory dues

The Board is regular in payment of statutory dues.


DIRECTOR (A).

SPICES BOARD, COCHIN - 682025
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31,2020

Sl.No.	Particulars	Schedule No.	Amount (in Rupees)	
			As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
	CORPUS/CAPITAL FUND & LIABILITIES			
1	CORPUS/CAPITAL FUND	1	(1,009,302,781.23)	(590,964,178.25)
2	RESERVES AND SURPLUS	2	-	-
3	EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	3	2,404,590,253.87	2,297,739,684.20
4	SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	-	-
5	UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	-	-
6	DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	-	-
7	CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	2,407,120,493.32	2,070,415,624.91
	TOTAL		3,802,407,965.96	3,777,191,130.86
	ASSETS			
8	FIXED ASSETS LESS DEPRECIATION	8	2,001,649,465.61	2,208,578,846.56
9	INVESTMENTS- FROM EARMARKED /ENDOWMENT FUNDS	9	189,123,239.85	192,762,757.85
10	INVESTMENTS- OTHERS	10	422,148.56	27,743,019.56
11	CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES etc.	11	1,611,213,111.94	1,348,106,506.89
12	MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off)		-	-
	TOTAL		3,802,407,965.96	3,777,191,130.86
13	SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	66		
14	CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	67		

Sd/-
DIRECTOR (FINANCE)

Sd/-
SECRETARY

SPICES BOARD, COCHIN - 682025

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31,2020

Sl.No.	Particulars	Schedule No.	Amount (in Rupees)	
			2019-20	2018-19
	INCOME			
1	INCOME FROM SALES/SERVICES	12	104,454,485.72	73,524,265.63
2	GRANTS/SUBSIDIES	13	1,035,005,207.00	848,079,611.00
3	OTHER GRANTS / SUPPORT	14	-	-
4	FEES/SUBSCRIPTION	15	25,483,242.38	67,644,171.34
5	INCOME FROM INVESTMENTS (Income on investment from earmarked/endowment funds)	16	-	-
6	INCOME FROM ROYALTY,PUBLICATION etc.	17	27,430.00	236,735.00
7	INTEREST EARNED	18	67,706,681.00	59,363,336.60
8	OTHER INCOME	19	3,853,010.76	6,409,799.02
9	INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS AND WORK IN PROGRESS	20	(1,421,689.00)	5,021,148.00
	TOTAL - (A)		1,235,108,367.86	1,060,279,066.59
	EXPENDITURE			
10	ESTABLISHMENT EXPENSES-NON PLAN	21	581,234,396.90	524,044,786.00
11	ADMINISTRATIVE EXPENSES-NON PLAN	22	30,977,847.30	23,699,788.20
12	EXPENDITURE-PLAN			
	a)EXPORT ORIENTED PRODUCTION	23	384,664,094.00	313,252,324.40
	b)EXPORT ORIENTED RESEARCH	24	66,946,860.42	62,241,712.90
	c)QUALITY IMPROVEMENT	25	90,749,242.00	83,608,151.66
	d)EXPORT DEVELOPMENT PROGRAMMES	26	220,730,649.98	232,093,846.40
	e)HUMAN RESOURCE DEV. & WORKS	27	10,605,247.68	3,613,801.40
13	FINANCE CHARGES	28	74,743.66	478,665.86
14	OTHERS	29	-	-
15	DEPRECIATION	30	227,141,219.95	250,858,274.48
	TOTAL - (B)		1,613,124,301.89	1,493,891,351.30

SPICES BOARD, COCHIN - 682025
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31,2020

Sl.No.	Particulars	Schedule No.	Amount (in Rupees)	
			2019-20	2018-19
16	BALANCE BEING EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE		(378,015,934.03)	(433,612,284.71)
17	PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS INCOME/ (EXP.)		(55,317,461.95)	(4,219,609.64)
18	TRANSFER TO SPECIAL RESERVE (Specify each)		-	-
19	TRANSFER TO /FROM GENERAL RESERVE (Specify each)		-	-
20	BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS /CAPITAL FUND		(433,333,395.98)	(437,831,894.35)
21	SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	66		
22	CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	67		

Sd/-
DIRECTOR (FINANCE)

Sd/-
SECRETARY

SPICES BOARD, COCHIN - 682025
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31,2020

RECEIPTS	Sch. No.	Amount (in Rupees)		PAYMENTS	Sch. No.	Amount (in Rupees)	
		2019-20	2018-19			2019-20	2018-19
I. OPENING BALANCE				I. EXPENDITURE - PLAN			
a) Cash in hand	31	-	-	a) Schemes	48	-	-
b) Bank Balance				a) Establishment Expenses	49	294,254,696.90	237,081,586.00
I) In Current Accounts	32	70,098,778.46	177,564,253.60	c) Administration Expenses	50	87,238,622.91	28,869,053.70
II) In Deposit Accounts	33	1,128,603,200.00	885,322,204.00	II. EXPENDITURE - PLAN			
				a) Export Oriented Production	51	384,779,400.00	314,077,048.40
II. GRANTS RECEIVED				b) Export Oriented Research	52	69,930,330.42	70,435,328.90
a) Grants from Govt. of India				c) Quality Improvement	53	92,546,727.00	105,584,986.66
i. Plan	34	1,050,000,000.00	879,700,000.00	d) Export Development /Promotion	54	229,759,980.98	232,095,985.40
ii. Non Plan	35	-	-	e) Human Resources Development & Works	55	10,821,268.68	3,765,886.40
b) Support From Other Institutions	36	-	2,268,390.00				
c) Grants from State Governments				III. EXTERNALLY FUNDED/ASIDE SCHEMES	56	28,302,509.33	55,373,470.35
i. Revenue	37	-	-				
d) Grants from other Agencies				IV. OTHER PAYMENTS			
i. Revenue	38	2,720,000.00	48,871,856.00	a) Advance to Staff bearing Interest	57	897,703.00	400,000.00
e). Earmarked Fund	39	130,855,551.00	130,301,327.00	b) Advance to Staff not Bearing Interest	58	1,633,650.00	5,148,142.00
III. INCOME FROM INVESTMENTS				c) Current Liabilities Bills Payable	59	9,821,900.51	36,236,847.00
EARMARKED FUNDS	40	-	-	d) Recoveries Awaiting Remittance	60	197,117,975.48	327,721,309.38
IV. INTEREST RECEIVED				e) Office Imprest/ Special Advance	61	6,390,952.96	2,535,424.00
a) On Bank Deposits	41	66,930,516.00	58,430,947.60	f) Advance/Deposit With Outside Parties	62	30,049,110.07	85,841,792.41
b) Loans, Advances etc	42	998,616.00	1,190,924.00				
V. OTHER RECEIPTS				V. CLOSING BALANCE			
a) Non Plan - Internal Resources	43	144,779,577.86	130,743,943.89	a) Cash in hand	63	-	-
b) Loan Repayments received	44	7,677,419.00	2,651,890.00	b) Bank Balance			
c) Other Receipts	45	140,602.00	312,485.00	I) In Current Accounts	64	215,740,400.14	70,098,778.46
VI. OTHER ADVANCE/ DEPOSITS				II) In Deposit Accounts	65	1,225,174,623.00	1,128,603,200.00
Advance/Deposits/Recoveries	46	2,362,297.00	4,086,960.00				
Deposit from Outside Parties	47 A	41,521,688.66	69,010,547.81				
Recoveries Awaiting Remittance	47 B	237,771,605.40	313,413,110.16				
TOTAL		2,884,459,851.38	2,703,868,839.06	TOTAL		2,884,459,851.38	2,703,868,839.06

Sd/-
DIRECTOR (FINANCE)

Sd/-
SECRETARY

SPICES BOARD, COCHIN - 682025
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31,2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
SCHEDULE-1 CORPUS/CAPITAL FUND				
Balance at the beginning of the year	(590,964,178.25)		(184,752,672.90)	
Add Contributions towards Corpus/Capital Fund(Net)	14,994,793.00		31,620,389.00	
Add/(Deduct): Balance of Net Income/ (Expenditure) transferred from the Income and Expenditure A/c	(433,333,395.98)		(437,831,894.35)	
Balance at the end of the Year		(1,009,302,781.23)		(590,964,178.25)
TOTAL		(1,009,302,781.23)		(590,964,178.25)
SCHEDULE-2 - RESERVE AND SURPLUS				
A. CAPITAL RESERVE				
As per last Balance Sheet	-		-	
Add - Additions During the Year	-		-	
Less - Deductions during the Year	-		-	
Closing Balance		-		-
B. REVALUATION RESERVE				
As per last Balance Sheet	-		-	
Add - Additions During the Year	-		-	
Less - Deductions during the Year	-		-	
Closing Balance		-		-
C. SPECIAL RESERVE				
As per last Balance Sheet	-		-	
Add - Additions During the Year	-		-	
Less - Deductions during the Year	-		-	
Closing Balance		-		-
D. GENERAL RESERVE				
As per last Balance Sheet	-		-	
Add - Additions During the Year	-		-	
Less - Deductions during the Year	-		-	
Closing Balance		-		-
TOTAL		-		-

SPICES BOARD, COCHIN - 682025SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2020

SCHEDULE-3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK UP			
	Brand Promotion Fund	World Bank ITC Project Fund	Product Research Fund	Employee GPF Fund
a) Opening Balance of Funds	7,622,644.00	795,817.50	5,112,600.00	188,262,757.85
b) Additions to the funds				
i. Donations / Grants	-	-	-	-
ii. Income from investments made on account of funds	-	-	-	11,988,999.00
iii. Other Additions	-	-	-	-
TOTAL (a+b)	7,622,644.00	795,817.50	5,112,600.00	200,251,756.85
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds				
i. Capital expenditure				
- Fixed Assets				
- Others				
Total	-	-	-	-
ii. Revenue Expenditure				
- Salaries, Wages and Allowances etc				
- Rent				
- Other Administrative expenses	7,622,644.00	795,817.50	5,112,600.00	15,628,517.00
Total	7,622,644.00	795,817.50	5,112,600.00	15,628,517.00
TOTAL (c)	7,622,644.00	795,817.50	5,112,600.00	15,628,517.00
NET BALANCE AS AT THE END OF THE YEAR (a+b-c)	-	-	-	184,623,239.85

SPICES BOARD, COCHIN - 682025SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2020

SCHEDULE-3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK UP			
	Mobile Agri Clinic, SHM, Idukki	N.H.M. Karnataka - Production, Pepper-rooted cuttings	SHM Kerala- Establishment of Bio-Control Prodn. Centre	ICAR - AICRPS
a) Opening Balance of Funds	678,850.00	-	1,722,578.00	145,454.00
b) Additions to the funds				
i. Donations / Grants	-	-	-	1,950,000.00
ii. Income from investments made on account of funds	-	-	-	-
iii. Other Additions	-	-	-	-
TOTAL (a+b)	678,850.00	-	1,722,578.00	2,095,454.00
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds				
i. Capital expenditure				
- Fixed Assets		-		-
- Others		-		-
Total	-	-	-	-
ii. Revenue Expenditure				
- Salaries, Wages and Allowances etc		-		578,898.00
- Rent		-		-
- Other Administrative expenses	678,850.00	-	1,722,578.00	486,978.00
Total	678,850.00	-	1,722,578.00	1,065,876.00
TOTAL (c)	678,850.00	-	1,722,578.00	1,065,876.00
NET BALANCE AS AT THE END OF THE YEAR (a+b-c)	-	-	-	1,029,578.00

SPICES BOARD, COCHIN - 682025SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2020

SCHEDULE-3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK UP			
	Development of Micro satellite Markers	NHM Pepper Production in Idukki Dist.	ASIDE - Guntur	ASIDE - New Delhi
a) Opening Balance of Funds	-	-	154,175,621.47	39,852,715.00
b) Additions to the funds				
i. Donations / Grants	-	-	-	-
ii. Income from investments made on account of funds	-	-	-	-
iii. Other Additions	-	-	-	-
TOTAL (a+b)	-	-	154,175,621.47	39,852,715.00
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds				
i. Capital expenditure				
- Fixed Assets			-	
- Others			-	
Total	-	-	-	-
ii. Revenue Expenditure				
- Salaries, Wages and Allowances etc			-	
- Rent			-	
- Other Administrative expenses	-	-	-	
Total	-	-	-	-
TOTAL (c)	-	-	-	-
NET BALANCE AS AT THE END OF THE YEAR (a+b-c)	-	-	154,175,621.47	39,852,715.00

SPICES BOARD, COCHIN - 682025SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2020

SCHEDULE-3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK UP			
	ASIDE - Chennai	ASIDE - Kolkata	ASIDE - Tuticorin	ASIDE -Chindwara
a) Opening Balance of Funds	54,563,766.50	53,387,567.49	46,563,308.00	-
b) Additions to the funds				
i. Donations / Grants	-	-	-	-
ii. Income from investments made on account of funds	-	-	-	-
iii. Other Additions	-	-	-	-
TOTAL (a+b)	54,563,766.50	53,387,567.49	46,563,308.00	-
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds				
i. Capital expenditure				
- Fixed Assets				
- Others				
Total	-	-	-	-
ii. Revenue Expenditure				
- Salaries, Wages and Allowances etc				
- Rent				
- Other Administrative expenses				-
Total	-	-	-	-
TOTAL (c)	-	-	-	-
NET BALANCE AS AT THE END OF THE YEAR (a+b-c)	54,563,766.50	53,387,567.49	46,563,308.00	-

SPICES BOARD, COCHIN - 682025SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2020

SCHEDULE-3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK UP			
	ASIDE - Mumbai	ASIDE-Guna	ASIDE -Kota	ASIDE-Kandla
a) Opening Balance of Funds	152,596,304.00	257,214,919.28	102,877,981.76	52,926,458.08
b) Additions to the funds				
i. Donations / Grants	-	-	-	-
ii. Income from investments made on account of funds	-	-	-	-
iii. Other Additions	-	-	-	-
TOTAL (a+b)	152,596,304.00	257,214,919.28	102,877,981.76	52,926,458.08
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds				
i. Capital expenditure				
- Fixed Assets	-	-	-	-
- Others	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
ii. Revenue Expenditure				
- Salaries, Wages and Allowances etc	-	-	-	-
- Rent	-	-	-	-
- Other Administrative expenses	-	22,500.00	-	-
Total	-	22,500.00	-	-
TOTAL (c)	-	22,500.00	-	-
NET BALANCE AS AT THE END OF THE YEAR (a+b-c)	152,596,304.00	257,192,419.28	102,877,981.76	52,926,458.08

SPICES BOARD, COCHIN - 682025SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2020

SCHEDULE-3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK UP			
	Cardamom Development Fund	ICAR - NAIP	ASIDE - IIPM	CSR Activities
a) Opening Balance of Funds	-	572,948.00	79,636,934.00	-
b) Additions to the funds		-		
i. Donations / Grants	-	-	-	-
ii. Income from investments made on account of funds	-	-		-
iii. Other Additions	-	-	-	-
TOTAL (a+b)	-	572,948.00	79,636,934.00	-
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds				
i. Capital expenditure				
- Fixed Assets			-	
- Others			-	
Total	-	-	-	-
ii. Revenue Expenditure				
- Salaries, Wages and Allowances etc			-	
- Rent			-	
- Other Administrative expenses	-	572,948.00	2,422,871.00	-
Total	-	572,948.00	2,422,871.00	-
TOTAL (c)	-	572,948.00	2,422,871.00	-
NET BALANCE AS AT THE END OF THE YEAR (a+b-c)	-	-	77,214,063.00	-

SPICES BOARD, COCHIN - 682025SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2020

SCHEDULE-3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK UP			
	Soil based plant nutrient management plan	DUS- test Centre	Western Ghat Development Programme	ASIDE - Hamirpur
a) Opening Balance of Funds	584,326.00	43,148.00	733,683.00	-
b) Additions to the funds				
i. Donations / Grants	-	-	-	-
ii. Income from investments made on account of funds	-	-	-	-
iii. Other Additions	-	-	-	-
TOTAL (a+b)	584,326.00	43,148.00	733,683.00	-
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds				
i. Capital expenditure				
- Fixed Assets	-			-
- Others	-			-
Total	-	-	-	-
ii. Revenue Expenditure				
- Salaries, Wages and Allowances etc	-			-
- Rent	-			-
- Other Administrative expenses	-	-	733,683.00	-
Total	-	-	733,683.00	-
TOTAL (c)	-	-	733,683.00	-
NET BALANCE AS AT THE END OF THE YEAR (a+b-c)	584,326.00	43,148.00	-	-

SPICES BOARD, COCHIN - 682025SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2020

SCHEDULE-3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK UP			
	New Pension System	Quality Standard in Export of Spices	Infrastructure for Spice park	Inter Institutional Collaborative Studies – CSIR
a) Opening Balance of Funds	37,094.47	177,021,616.86	89,298,126.48	-
b) Additions to the funds				
i. Donations / Grants	-	-	-	-
ii. Income from investments made on account of funds	-	-	-	-
iii. Other Additions	-	20,000,000.00	10,855,551.00	-
TOTAL (a+b)	37,094.47	197,021,616.86	100,153,677.48	-
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds				
i. Capital expenditure				
- Fixed Assets		-	-	-
- Others		-	-	-
Total	-	-	-	-
ii. Revenue Expenditure				
- Salaries, Wages and Allowances etc		-	-	-
- Rent		-	-	-
- Other Administrative expenses	37,094.47	-	-	-
Total	37,094.47	-	-	-
TOTAL (c)	37,094.47	-	-	-
NET BALANCE AS AT THE END OF THE YEAR (a+b-c)	-	197,021,616.86	100,153,677.48	-

SPICES BOARD, COCHIN - 682025SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2020

SCHEDULE-3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK UP			
	Inter Institutional Collaborative Studies	ASIDE Rai Bareli - Spice Park	Desease Forecasting Unit	Leaf Tissue Analytical Unit
a) Opening Balance of Funds	-	168,572,389.27	-	-
b) Additions to the funds				
i. Donations / Grants	-	-	-	-
ii. Income from investments made on account of funds	-	-	-	-
iii. Other Additions	-	-	-	-
TOTAL (a+b)	-	168,572,389.27	-	-
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds				
i. Capital expenditure				
- Fixed Assets	-	-		
- Others	-	-		
Total	-	-	-	-
ii. Revenue Expenditure				
- Salaries, Wages and Allowances etc	-	-		
- Rent	-	-		
- Other Administrative expenses	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
TOTAL (c)	-	-	-	-
NET BALANCE AS AT THE END OF THE YEAR (a+b-c)	-	168,572,389.27	-	-

SPICES BOARD, COCHIN - 682025SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2020

SCHEDULE-3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK UP			
	E Spice Project Ministry of IT	MIDH	Myanmar Large Cardamom Development Project	Pension Liabilities
a) Opening Balance of Funds	26,035,691.65	5,606,030.00	262,028.00	511,915,963.00
b) Additions to the funds				
i. Donations / Grants	-	-	-	-
ii. Income from investments made on account of funds	-	-	-	-
iii. Other Additions	-	-	-	100,000,000.00
TOTAL (a+b)	26,035,691.65	5,606,030.00	262,028.00	611,915,963.00
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds				
i. Capital expenditure				
- Fixed Assets	-	-		
- Others	-	-		
Total	-	-	-	-
ii. Revenue Expenditure				
- Salaries, Wages and Allowances etc	-	-		
- Rent	-	-		
- Other Administrative expenses	1,777,881.00	-	-	
Total	1,777,881.00	-	-	-
TOTAL (c)	1,777,881.00	-	-	-
NET BALANCE AS AT THE END OF THE YEAR (a+b-c)	24,257,810.65	5,606,030.00	262,028.00	611,915,963.00

SPICES BOARD, COCHIN - 682025SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2020

SCHEDULE-3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK UP			
	RKVY Andhra Pradesh & Telengana	Areawide IPM Black Pepper	Centre of Excellence in Microbiology	Ginger Project Bastar
a) Opening Balance of Funds	1,811,778.00	-	108,993,784.00	88,285.00
b) Additions to the funds				
i. Donations / Grants	-	-	-	-
ii. Income from investments made on account of funds	-	-	-	-
iii. Other Additions	-	-	-	-
TOTAL (a+b)	1,811,778.00	-	108,993,784.00	88,285.00
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds				
i. Capital expenditure				
- Fixed Assets	-	-	-	-
- Others	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
ii. Revenue Expenditure				
- Salaries, Wages and Allowances etc	-	-	-	-
- Rent	-	-	-	-
- Other Administrative expenses	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
TOTAL (c)	-	-	-	-
NET BALANCE AS AT THE END OF THE YEAR (a+b-c)	1,811,778.00	-	108,993,784.00	88,285.00

SPICES BOARD, COCHIN - 682025 SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2020

SCHEDULE-3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK UP			
	Quality Standards in Indian Medicinal Plants	WTO - STDF	International Pepper Community (IPC)	RKVY ASSAM
a) Opening Balance of Funds	-	85,649.00	64,229.54	8,400.00
b) Additions to the funds				
i. Donations / Grants		-		-
ii. Income from investments made on account of funds	-	-		
iii. Other Additions	-	-		
TOTAL (a+b)	-	85,649.00	64,229.54	8,400.00
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds				
i. Capital expenditure				
- Fixed Assets	-	-		
- Others	-	-		
Total	-	-	-	-
ii. Revenue Expenditure				
- Salaries, Wages and Allowances etc	-	-		
- Rent	-	-		
- Other Administrative expenses	-	100,000.00		-
Total	-	100,000.00	-	-
TOTAL (c)	-	100,000.00	-	-
NET BALANCE AS AT THE END OF THE YEAR (a+b-c)	-	(14,351.00)	64,229.54	8,400.00

SPICES BOARD, COCHIN - 682025 SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2020

SCHEDULE-3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK UP			
	FSTL	MIDH Integrated Project on Turmeric Haryana	RPL-PMKVY	Study on evaluation of Hunk
a) Opening Balance of Funds	4,500,000.00	2,750,000.00	(151,763.00)	770,000.00
b) Additions to the funds				
i. Donations / Grants	-	-		770,000.00
ii. Income from investments made on account of funds	-			
iii. Other Additions	-			
TOTAL (a+b)	4,500,000.00	2,750,000.00	(151,763.00)	1,540,000.00
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds				
i. Capital expenditure				
- Fixed Assets	-			
- Others	-			
Total	-			
ii. Revenue Expenditure				
- Salaries, Wages and Allowances etc	-			
- Rent	-			
- Other Administrative expenses	-		420,120.36	
Total	-	-	420,120.36	-
TOTAL (c)	-	-	420,120.36	-
NET BALANCE AS AT THE END OF THE YEAR (a+b-c)	4,500,000.00	2,750,000.00	(571,883.36)	1,540,000.00

SPICES BOARD, COCHIN - 682025SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2020

SCHEDULE-3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	GRANDTOTAL	
	Current Year	Previous Year
a) Opening Balance of Funds	2,297,739,684.20	2,146,261,630.55
b) Additions to the funds		
i. Donations / Grants	2,720,000.00	51,140,246.00
ii. Income from investments made on account of funds	11,988,999.00	12,145,856.00
iii. Other Additions	130,855,551.00	130,301,327.00
TOTAL (a+b)	2,443,304,234.20	2,339,849,059.55
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds		
i. Capital expenditure		
- Fixed Assets	-	-
- Others	-	-
Total	-	-
ii. Revenue Expenditure		
- Salaries, Wages and Allowances etc	578,898.00	449,462.00
- Rent	-	-
- Other Administrative expenses	38,135,082.33	41,659,913.35
Total	38,713,980.33	42,109,375.35
TOTAL (c)	38,713,980.33	42,109,375.35
NET BALANCE AS AT THE END OF THE YEAR (a+b-c)	2,404,590,253.87	2,297,739,684.20

SPICES BOARD, COCHIN - 682025
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31,2020

Particulars	Amount (in Rupees)		Amount (in Rupees)	
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
SCHEDULE -4 - SECURED LOANS & BORROWINGS				
1. Central Government	-		-	
2. State Government	-		-	
3. Financial Institutions	-		-	
a) Term Loan	-		-	
b) Interest accrued and due	-		-	
4. Banks	-		-	
a) Term Loan	-		-	
i) Interest accrued and due	-		-	
b) Other Loans (Specify)	-		-	
i) Interest accrued and due	-		-	
5. Other Institutions and Agencies	-		-	
6. Debentures and Bonds	-		-	
7 Others (Specify)	-		-	
TOTAL		-		-
Note:- Amounts due within one year				
SCHEDULE-5 - UNSECURED LOANS & BORROWINGS				
1. Central Government	-		-	
2. State Government	-		-	
3. Financial Institutions	-		-	
a) Term Loan	-		-	
b) Interest accrued and due	-		-	
4. Banks	-		-	
a) Term Loan	-		-	
i) Interest accrued and due	-		-	
b) Other Loans (Specify)	-		-	
i) Interest accrued and due	-		-	
5. Other Institutions and Agencies	-		-	
6. Debentures and Bonds	-		-	
7 Others (Specify)	-		-	
TOTAL		-		-

SPICES BOARD, COCHIN - 682025
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31,2020

Particulars	Amount (in Rupees)	
	Current year 2019-20	Previous year 2018-19
Note:- Amounts due within one year		
SCHEDULE-6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES		
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets.	-	-
b) Other Assets	-	-
TOTAL	-	-
SCHEDULE-7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS.		
A. CURRENT LIABILITIES		
1. EMD & Security Deposit	32,088,775.92	25,113,878.92
2. Amount withheld against Delayed Work	816,554.00	816,554.00
3. Salary Payable	21,988,993.00	24,281,611.00
4. Audit Fees Payable	1,827,886.00	1,827,886.00
5. Unexpired income-CRES & Licence fees	35,400.00	(10,735,000.00)
6. Subscription for periodicals	-	-
7. Licence Fees	57,944.00	61,275.00
8. Leave Salary & Pension Contribution	447,834.00	116,223.00
9. Statutory Liabilities		
a) Overdue	-	-
b) Others:	-	-
(i) State Life Insurance	-	-
(ii) VAT/WCT	2,976,544.00	3,106,433.00
(iii) WWF	1,423,173.00	1,387,125.00
(iv) Service Tax Dues		
(v) Income Tax Payable (Contractors & Others)	765,896.40	428,623.50
(vi) Income Tax Payable (Salary & Pension)	(720,017.00)	(207,310.00)
(vii) Income Tax Payable (Pension)	-	(1,912,437.00)
(viii) EPF Payable	-	(1,369,054.00)
(ix) GST dues	39,917,191.72	13,545,488.98
10. Accounts Trade Payable	(1,162,973.72)	(1,203,921.49)
11. Salary Recoveries		
a) Group Insurance Payable	(2,455,910.00)	(1,085,448.00)

SPICES BOARD, COCHIN - 682025
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31,2020

Particulars	Amount (in Rupees)		Amount (in Rupees)	
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
b) Society Payable	-		-	
c) GPF Advance Recovery	-		-	
d) GPF Subscription	1,260,441.00		-	
e) LIC Payable	(12,378.00)		(132.00)	
f) CPF Subscription	4,757,474.00		5,202,547.00	
g) LIC HFL Thirunelveli	-		-	
h) Professional Tax Payable	(13,516.00)		(102,384.00)	
i) Court Attachment Payable	-		-	
j) CPF Payable	(41,736.00)		(3,076,596.00)	
k) Central Govt. Employees Welfare Committee	12,740.00		2,460.00	
l) Licence Fee - Outside	775.00		775.00	
m) PLI	46,004.00		31,868.00	
n) Medical Reimbursement - Labourers	7,400.00		7,400.00	
o) Staff Club	104,470.00		80,160.00	
p) Others	-		-	
12. Pension Payable	38,660,763.00		38,495,697.00	
13. Group Insurance Claim Payable	3,659,458.00		1,691,493.00	
14. Retirement Benefits Payable	(1,628,693.00)		(456,423.00)	
15. Subsidy payable	-		(993,168.00)	
TOTAL - (A)		144,820,493.32		95,055,624.91
B.PROVISIONS				
1. For Taxation	-		-	
2. Gratuity	181,000,000.00		164,360,000.00	
3. Superannuation/Pension	1,959,300,000.00		1,702,240,000.00	
4. Accumulated Leave Encashment	122,000,000.00		108,760,000.00	
5. Trade Warrenties/Claims	-		-	
6. Others	-		-	
TOTAL - (B)		2,262,300,000.00		1,975,360,000.00
TOTAL - (A) + (B)		2,407,120,493.32		2,070,415,624.91

SPICES BOARD, COCHIN - 682025
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31,2020

SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS

Sl. No	Name of the Asset	Gross Block				Rate	Depreciation				Net Block as on 31.03.2020	Net Block as on 31.03.2019
		As on 01.04.2019	Additions during the year	Sales/ Transfer	As on 31.03.2020		Accumulated Depreciation as on 01.04.2019	For the year	Deductions during the year	Accumulated Depreciation as on 31-03-2020		
A	FIXED ASSETS											
1	LAND	127,622,127.40	-	-	127,622,127.40	0	6,135,389.00	1,933,672.00	-	8,069,061.00	119,553,066.40	121,486,738.40
2	BUILDING	2,437,778,887.44	-	-	2,437,778,887.44	10	719,274,696.51	171,850,419.09	-	891,125,115.60	1,546,653,771.84	1,718,504,190.93
3	VEHICLES	18,949,671.67	-	-	18,949,671.67	15	15,679,651.80	490,502.98	-	16,170,154.78	2,779,516.89	3,270,019.87
4	IRRIGATION INSTRUMENTS	2,864,565.00	249,946.00	-	3,114,511.00	15	1,751,149.15	179,158.33	-	1,930,307.48	1,184,203.52	1,113,415.85
5	COMPUTER HARDWARE	101,335,855.46	1,934,748.00	3,933.00	103,266,670.46	60	99,457,103.48	2,188,410.89	-	101,645,514.37	1,621,156.09	1,878,751.98
6	FARM/CURING HOUSE	237,257.52	-	-	237,257.52	5	187,474.12	2,489.17	-	189,963.29	47,294.23	49,783.40
7	REFERENCE BOOKS	10,261,845.38	36,718.00	-	10,298,563.38	100	10,248,889.38	31,315.00	-	10,280,204.38	18,359.00	12,956.00
8	PLANT AND MACHINERY	279,048,475.21	2,071,657.00	-	281,120,132.21	15	196,870,496.81	12,637,445.31	-	209,507,942.12	71,612,190.09	82,177,978.40
9	WATER SUPPLY INSTALLATION	235,928.34	-	-	235,928.34	10	218,028.74	1,789.96	-	219,818.70	16,109.64	17,899.60
10	FURNITURE AND FIXURES	78,735,865.27	102,671.00	-	78,838,536.27	10	49,321,229.32	2,946,829.65	-	52,268,058.97	26,570,477.30	29,414,635.95
11	LAB EQUIPMENTS	527,796,261.48	10,322,355.00	8,564,443.00	529,554,173.48	15	301,078,960.30	34,879,187.57	-	335,958,147.87	193,596,025.61	226,717,301.18
	TOTAL CURRENT YEAR	3,584,866,740.17	14,718,095.00	8,568,376.00	3,591,016,459.17		1,400,223,068.61	227,141,219.95	-	1,627,364,288.56	1,963,652,170.61	2,184,643,671.56
B	CAPITAL W I P	23,935,175.00	16,042,120.00	1,980,000.00	37,997,295.00		-	-	-	-	37,997,295.00	23,935,175.00
	TOTAL CURRENT YEAR	3,608,801,915.17	30,760,215.00	10,548,376.00	3,629,013,754.17		1,400,223,068.61	227,141,219.95	-	1,627,364,288.56	2,001,649,465.61	2,208,578,846.56
	PREVIOUS YEAR	3,551,980,460.17	1,511,923,416.64	1,455,101,961.64	3,608,801,915.17		1,149,364,794.13	250,858,274.48	-	1,400,223,068.61	2,208,578,846.56	2,402,615,666.04

SPICES BOARD, COCHIN - 682025
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31,2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
SCHEDULE-9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS				
1. Long term investments				
a) In Governemnt securities	-		-	
b) Other approved securities	-		-	
c) Shares	4,500,000.00		4,500,000.00	
d) GPF Investment Account	-		-	
e) C P F Investment Account	-	4,500,000.00	-	4,500,000.00
2. Short term investments				
a) In Governemnt securities	-		-	
b) Other approved securities	-		-	
c) Shares	-		-	
d) GPF Investment Account	184,623,239.85	184,623,239.85	188,262,757.85	188,262,757.85
TOTAL		189,123,239.85		192,762,757.85
SCHEDULE-10 - INVESTMENTS - OTHERS				
1) Long term investments				
a) Loan to Planters	422,148.56		422,148.56	
b) Product Research Revolving Fund Loan	-		-	
c) Equity Fund Contribution	-		20,000,000.00	
d) Brand Promotion Revolving Fund Loan	-		-	
e) Brand Promotion Loan Scheme	-	422,148.56	7,320,871.00	27,743,019.56
2) Short term investments				
a) Loan to Planters	-		-	
b) Product Research Revolving Fund Loan	-		-	
c) Equity Fund Contribution	-		-	

SPICES BOARD, COCHIN - 682025
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31,2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
d) Brand Promotion Revolving Fund Loan	-		-	
e) Brand Promotion Loan Scheme	-	-	-	-
TOTAL		422,148.56		27,743,019.56
SCHEDULE-11 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES etc.				
A. CURRENT ASSETS				
1) Inventories				
a) Stores, Chemicals and Spares	10,399,930.00		6,878,496.48	
b) Loose tools	-		-	
c) Stock in Trade				
i) Cardamom, Coffee, Clove and Pepper-Res Farm	72,540.00		5,015,662.52	
ii) Polythene Sheet	-		-	
iii) Bamboo Mat	-		-	
iv) Pepper	-	10,472,470.00	-	11,894,159.00
2) Sundry Debtors				
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months	-		-	
b) Others	-	-	-	-
3) Cash Balance in Hand (including cheques/drafts and imprest)	-	-	-	-
4) Bank Balance				
a) With scheduled Banks				
i) In Current Accounts	215,740,400.14		70,098,778.46	

SPICES BOARD, COCHIN - 682025
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31,2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
ii) In Deposit Accounts(includes Margin Money)	1,225,174,623.00		1,128,603,200.00	
iii) In savings Account	-	1,440,915,023.14	-	1,198,701,978.46
b)With non-scheduled Banks				
i) In Current Accounts	-		-	
ii) In Deposit Accounts(includes Margin Money)	-		-	
iii) In savings Account	-	-	-	-
TOTAL - (A)		1,451,387,493.14		1,210,596,137.46
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS				
1) Loans to Staff				
i. Festival Advance	9,600.00		9,600.00	
ii. Conveyance Advance	-		-	
iii. Pay Advance	472,089.00		472,089.00	
iv. Special Advance	3,724,080.98		3,363,681.98	
v. House Building Advance	818,213.00		640,664.00	
vi. Computer Advance	132,835.00		150,730.00	
vii. Car Advance	36,520.00		56,440.00	
viii. Scooter Advance	229,830.00		50,860.00	
ix. Cycle Advance	(1,000.00)		(1,000.00)	
x. Medical Advance	51,740.00		337,262.00	
xi. LTC Advance	1,491,215.00		1,315,615.00	
xii. Warm Clothing Advance	-		-	
xiii. Permanent Advance / Office Imprests	6,814,512.00	13,779,634.98	6,754,512.00	13,150,453.98
2) Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received				

SPICES BOARD, COCHIN - 682025
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31,2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
a) Travel advance				
i. Administration	1,158,271.00		2,142,338.00	
ii. Development - Large Cardamom	409,561.00		413,201.00	
iii. Extension Advisory Scheme	610,034.00		622,024.00	
iv. Marketing	145,244.00		(238,558.00)	
v. Research Large cardamom	552,273.00		552,273.00	
vi. Research Small cardamom	10,978.00		23,400.00	
vii. Quality Improvement	(2,540.00)	2,883,821.00	(12,132.00)	3,502,546.00
b) Deposits				
i. With KSEB	387,780.00		387,780.00	
ii. Others	2,881,993.00		4,736,609.00	
iii. With BSNL	9,796.00	3,279,569.00	9,796.00	5,134,185.00
c) Pre paid Expenses				
i. AMC Charges prepaid	-	-	-	-
3. Income Accrued				
i. On investments	15,336,092.60		15,336,092.60	
	-	15,336,092.60	-	15,336,092.60
4. Rent Advances/Deposits				
i. Marketing Services	804,500.00		764,500.00	
ii. Extension Advisory Scheme	1,459,202.00		1,459,202.00	
iii. Quality Improvement	118,100.00		118,100.00	

SPICES BOARD, COCHIN - 682025
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31,2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
iv. Administration	581,850.00		588,650.00	
v. Large Cardomom Extention	371,400.00	3,335,052.00	371,400.00	3,301,852.00
5. Grant Receivable	-	-	-	-
6. Contract Advance	27,081,605.00	27,081,605.00	27,024,605.00	27,024,605.00
7. Prepaid Insurance	68,250.00	68,250.00	68,250.00	68,250.00
8. CEN VAT Credit	25,580,797.00	25,580,797.00	9,400,252.66	9,400,252.66
9. Group Insurance Dues	(19,440.00)	(19,440.00)	(53,400.00)	(53,400.00)
10. Advance Others- Govt Of Gujarat	21,552,405.00	21,552,405.00	21,552,405.00	21,552,405.00
11. TDS on Interest	-	-	-	-
12. STCL	-	-	482,156.00	482,156.00
13. Others				
i. Advances - Administration	18,556,206.80		12,785,380.84	
ii. Advances - Development - Small Cardamom	2,785,428.72		2,785,428.72	
iii. Advances - Development - Large Cardamom	1,497,074.50		1,497,074.50	
iv. Advances - Research - Small Cardamom	305,858.00		305,858.00	
v. Advances - Research - Large Cardamom	1,327,861.00		1,327,861.00	
vi. Quality Evaluation and Upgradation Lab	866,586.00		844,080.00	
vii. Marketing Services	6,067,672.00		6,088,610.00	
viii. Market Access Initiative	29,857.00		29,857.00	
ix. ASIDE - Chindwara	-		-	
x. ASIDE - Guntur	-		-	
xi. ASIDE - New Delhi	-		-	
xii. ASIDE - Chennai	-		-	

SPICES BOARD, COCHIN - 682025
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31,2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
xiii. ASIDE - Tuticorin	-		-	
xiv. E-Auction in Cardamom	135,357.00		135,357.00	
xv. Quality Improvement Training	-		(198,160.00)	
xvi. Infrastructure - Spice Park	3,412,009.00		3,412,009.00	
xvii. Credit Card Advance	-		(103,880.07)	
xviii. Mobilisation Advance	5,500,839.00		5,500,839.00	
xix. Other Advances	661,487.00	41,146,236.02	(1,600,940.00)	32,809,374.99
14. Advance against purchase of equipment	5,801,596.20	5,801,596.20	5,801,596.20	5,801,596.20
TOTAL - (B)		159,825,618.80		137,510,369.43
TOTAL - (A) + (B)		1,611,213,111.94		1,348,106,506.89

SPICES BOARD, COCHIN - 682025

20 SCHEDULES FORMING PART OF THE INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31, 2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
SCHEDULE-12 - INCOME FROM SALES/SERVICES				
1) Income from Sales				
a) Sale of Spices, Planting materials and Plantation Inputs				
Cardamom	-		-	
Pepper Cuttings	-		9,825.00	
Pepper	-		-	
Bio Agent	11,368,260.00		2,761,349.00	
Other Products - Res. Farm	171,382.00	11,539,642.00	1,785,025.00	4,556,199.00
b) Sale Proceeds of Seedlings				
Cardamom seedlings	-	-	750.00	750.00
c) Miscellaneous Receipts				
Sale of Scrap	14,945.00		152,093.00	
Refund - Brand promotion Grant	-	14,945.00	-	152,093.00
2) Income from Spice Park				
a) User Fee-Spice Park	-		-	
b) Development Charges	-		-	
c) Lease proceeds	-	-	-	-
3) Income from Services				
a) Analytical Charges received	92,849,048.72		68,596,035.63	
b) Training fees collected	50,850.00	92,899,898.72	219,188.00	68,815,223.63
TOTAL		104,454,485.72		73,524,265.63

SPICES BOARD, COCHIN - 682025

20SCHEDULES FORMING PART OF THE INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31,2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
(Irrevocable grants & subsidies Received)				
SCHEDULE-13 - GRANTS/ SUBSIDIES				
PLAN				
Grant- in -aid from Government of India	1,050,000,000.00		879,700,000.00	
NON-PLAN				
Grant in-aid from Government of India	-	1,050,000,000.00	-	879,700,000.00
Add Amount Realised by Disposal of Assets	-	-	-	-
Less Contribution towards Capital Fund	14,994,793.00	(14,994,793.00)	31,620,389.00	(31,620,389.00)
TOTAL		1,035,005,207.00		848,079,611.00
SCHEDULE 14 OTHER GRANTS /SUPPORT				
1) APEDA	-		-	
2) Support from Ministry of External Affairs – MarketAccess Initiative	-		-	
3) Government of Andhra Pradesh	-		-	
4) Cardamom Development Fund	-			
5) Government of Kerala - Planning Board	-	-	-	-
TOTAL		-		-
SCHEDULE-15 - FEES/SUBSCRIPTIONS				
1) Auctioneer's and Dealer's Licence Fee	(8,600.00)		1,492,700.00	
2) CRES	17,403,621.38		49,808,080.34	
3) Participation Fee Collected From Exporters	8,088,221.00		8,260,000.00	
4) User Fee-E Auction	-		8,083,391.00	
5) Consultation Fees	-	25,483,242.38	-	67,644,171.34
TOTAL		25,483,242.38		67,644,171.34

SPICES BOARD, COCHIN - 682025

20SCHEDULES FORMING PART OF THE INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31,2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
Note:- Accounting policies towards each item are to be disclosed				
SCHEDULE-16 - INCOME FROM INVESTMENT				
1) Interest				
a) On Government Securities	-		-	
b) Other Bonds/Debentures	-		-	
c) Others (STD)	-	-	-	-
2) Dividends				
a) On Shares	-		-	
b) On mutual Fund Securities	-	-	-	-
Total (a)		-		-
3) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds				
a) Capital Expenditure				
i. Fixed Assets	-		-	
ii. Others	-	-	-	-
Total (b)		-		-
b) Revenue Expenditure				
i. Salaries, wages and allowances etc.	-		-	
ii. Rent	-		-	
iii. Other administrative expenses	-	-	-	-
Total (c)		-		-
Net Balance as at the year end (a+b+c)		-		-
SCHEDULE-17 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION etc.				
1) Income from publications & Advertisement	27,430.00	27,430.00	236,735.00	236,735.00
TOTAL		27,430.00		236,735.00

SPICES BOARD, COCHIN - 682025

20SCHEDULES FORMING PART OF THE INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31,2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
SCHEDULE-18 - INTEREST EARNED				
1) On Short Term Deposit				
a) With Scheduled Banks	66,404,567.00	66,404,567.00	57,841,609.60	57,841,609.60
2) Other Interest				
a) Other Interest	525,949.00	525,949.00	635,071.00	635,071.00
3) On Loans to Employees				
a) Interest received from Employees - HBA	675,500.00		759,356.00	
b) Other Interest from Employees	100,665.00	776,165.00	127,300.00	886,656.00
TOTAL		67,706,681.00		59,363,336.60
SCHEDULE - 19 - OTHER INCOME				
1) Guest Room Rent	945,505.00		1,455,657.00	
2) Licence Fee Board's Quarters	89,752.00		93,147.00	
3) Profit on Sale of Assets	-		-	
4) Other Receipts	2,817,753.76	3,853,010.76	4,860,995.02	6,409,799.02
TOTAL		3,853,010.76		6,409,799.02
SCHEDULE-20 - INCREASE/(DECREASE) IN THE STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS				
1) Closing stock				
a) Cardamom & Other Products	10,472,470.00		11,894,159.00	
b) Work in Progress	-	10,472,470.00	-	11,894,159.00
2) Less Opening Stock				
a) Cardamom & Other Products	11,894,159.00		6,873,011.00	
b) Work in Progress	-	11,894,159.00	-	6,873,011.00
NET INCREASE/(DECREASE) a-b		(1,421,689.00)		5,021,148.00

SPICES BOARD, COCHIN - 682025

20 SCHEDULES FORMING PART OF THE INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31, 2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
SCHEDULE - 21 - ESTABLISHMENT EXPENSES-NON PLAN				
1) Salaries & Pension - Officers	105,256,475.00		74,727,817.00	
2) Salaries, Bonus & Pension - Staff	410,185,198.00		400,719,585.00	
3) Other Allowances - Officers & Staff	673,980.00		1,968,398.00	
4) Gratuity	33,046,664.00		22,853,021.00	
5) Group Superannuation	-		-	
6) Leave Encashment	22,564,507.00		16,460,361.00	
7) Establishment Expenses	9,507,572.90	581,234,396.90	7,315,604.00	524,044,786.00
TOTAL		581,234,396.90		524,044,786.00
SCHEDULE- 22 - ADMINISTRATIVE EXPENSES-NON PLAN				
1) Purchases	-		-	
2) Labour & Processing expenses	527,278.00		-	
3) Cartage & Carriage inwards	-		-	
4) Electricity & Power	3,997,948.00		3,401,976.00	
5) Repairs & Maintenance	1,631,281.00		674,109.00	
6) Excise Duty	-		-	
7) Rent, rate and taxes	-		224,756.00	
8) Vehicle running and maintenance	599,339.00		946,884.00	
9) Postage, Communication and Telephone charges	487,262.00		504,015.00	
10) Printing and stationery	304,441.00		512,894.50	
11) Travelling and Conveyance Expenses	6,675,202.00		7,420,834.00	
12) Expenses on Seminar/Workshops	(92,311.00)		105,284.00	
13) Subscription Expenses	297,782.00		118,195.00	
14) Expenses on Fees	-		-	
15) Auditors' Remuneration	3,411,880.00		-	
16) Hospitality Expenses	-		16,784.00	
17) Professional Charges	2,415,371.00		3,361,865.00	
18) Frieght and Forwarding Expenses	-		9,924.00	
19) Advertisement & Publicity	472.00		-	
20) Analytical Charge written off	-		-	
21) Others	10,721,902.30	30,977,847.30	6,402,267.70	23,699,788.20
TOTAL		30,977,847.30		23,699,788.20

SPICES BOARD, COCHIN - 682025

20SCHEDULES FORMING PART OF THE INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31,2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
SCHEDULE-23 - EXPENDITURE AGAINST GRANTS AND SUBSIDIES - EXPORT ORIENTED PRODUCTION				
1) Extension Advisory Scheme	146,837,418.00		171,308,636.40	
2) Small Cardamom Certified Nursery - Subsidy & Other Expenses	-		-	
3) Poly Bag Nursery Scheme	-		-	
4) Departmental Nursery Scheme	4,736,761.00		5,010,327.00	
5) Replanting - Small Cardamom	54,861,528.00		29,975,775.00	
6) Rejuvenation - Small Cardamom	9,869,750.00		-	
7) Replanting Cardamom - Karnataka Region	-		-	
8) WGDP Karnataka - Subsidy	-		-	
9) WGDP Kerala - Subsidy	-		-	
10) WGDP Tamil Nadu - Subsidy	-		-	
11) Rain Water Harvesting Small Cardamom - Subsidy	198,920.00		306,416.00	
12) Rain Water Harvesting (NE)	27,675.00		-	
13) Rain Water Harvesting Sikkim	-		-	
14) Improved Curing Devices S.C - Subsidy	3,334,249.00		1,026,485.00	
15) Large Cardamom Extension Expenses	49,723,719.00		51,025,107.00	
16) Large Cardamom Rejuvenation	-		-	
17) Planting Material Production-Pepper in Wayanad	-		-	
18) Replanting Rejuvenation Pepper in Wayanad	-		-	
19) Planting material Production-Pepper in NE	-		-	
20) Replanting/ Rejuvenation Pepper in NE	-		-	
21) Large Cardamom Curing House-Sikkim - Subsidy	-		-	
22) Large Cardamom Certified Nursery - Subsidy & Other Expenses	-		-	
23) Replanting Large Cardamom Sikkim / W.B Region	56,596,120.00		41,443,145.00	
24) Pepper Planting	-		-	
25) Supply of Polythene Sheets - Subsidy	-		-	
26) Supply of Bamboo Mats - Subsidy	-		-	
27) Establishing Vermi Compost Pits - Subsidy	1,413,000.00		899,250.00	
28) Promotion of IPM in Chilly - Subsidy	-		-	
29) Promotion of IPM in Pepper - Subsidy	-		-	

SPICES BOARD, COCHIN - 682025

20SCHEDULES FORMING PART OF THE INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31,2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
30) Pepper Thresher - Subsidy	2,461,202.00		2,805,778.00	
31) Seedspices Threshers (Power)	3,690,000.00		406,500.00	
32) Seedspices Threshers (Manual)	-		-	
33) Turmeric Boilers	7,853,200.00		3,749,000.00	
34) Turmeric Polishers	1,600,000.00		946,080.00	
35) Curing House subsidy (NE) - Modified Bhatties	583,500.00		1,126,250.00	
36) Large Cardamom New Planting (NE)	-		-	
37) Training to Farmers - N.E	218,560.00		-	
38) Organic Cultivation-Ginger.N.E - Subsidy	-		-	
39) Organic Production of Turmeric-N.E - Subsidy	-		-	
40) Organic Naga Chilli	-		-	
41) Organic Cultivation of Spices	-		-	
42) Lakadong Turmeric - Organic	-		-	
43) Certification Organic Farming	-		-	
44) Monkey Menace Scheme For Cardomom In Karnataka	-		-	
45) Gap Supply of Kits	-		-	
46) Bee Keeping Boxes	-		-	
47) Weed Cutter/ Pit Maker	-		-	
48) Plant Promotion Protection Equipment	-		-	
49) Washing Equipment	-		-	
50) Polishers	-		-	
51) Training-North East	-		-	
52) Irrigation Structure -Sikkim WB NE	-		-	
53) Irrigation Equipment - Sikkim WB NE	-		-	
54) Pepper Clove Harvesting Ladder	-		-	
55) Pepper Cleaner Grader	-		-	
56) Nutmeg Dehuller	-		-	
57) Nutmeg Drier	1,050,500.00		183,000.00	
58) Mint Distillation Units	710,390.00		1,327,404.00	
59) Assistance for ICS Maintenance	-		-	
60) Grading Sieves - Sikkim WB NE	-		-	
61) ILD - Karnataka	-		-	

SPICES BOARD, COCHIN - 682025

20SCHEDULES FORMING PART OF THE INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31,2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
62) ILD - Kerala	-		-	
63) ILD - Tamil Nadu	-		-	
64) Pit Digger - Sikkim WB NE	-		-	
65) Saffron Development Programme	-		-	
66) Sickle and Hoe Churi - Sikkim WB NE	-		-	
67) Small Cardamom Plant Protection Equipment	-		-	
68) Sprayer - Sikkim WB NE	-		-	
69) Training- Overseas	238,964.00		-	
70) Large Cardamom Planting Material Production	8,206,250.00		63,000.00	
71) Small Cardamom Planting Material Production	2,275,100.00		-	
72) SAWO Drier	-		-	
73) Skill Development Programme on Nursery Management in Spices	-		-	
74) EOP Scheme	-		213,416.00	
75) Large Cardamom Irrigation Equipment	95,760.00		325,792.00	
76) Large Cardamom Irrigation Structures	30,000.00		285,500.00	
77) Organic Seed Bank	37,500.00		25,000.00	
78) Small Cardamom ILD -Irrigation Pump Set	260,786.00		330,463.00	
79) Small Cardamom ILD -Water Storage Structure	1,100,712.00		470,000.00	
80) Large Cardamom Agri Implements	142,000.00		-	
81) Small Cardamom ILD- Micro-Irrigation Equipment	49,558.00		-	
82) Social Securities Programme-Spice Producers Societies	1,076,220.00		-	
83) SC Sub Plan	24,243,712.00		-	
84) ST Sub Plan	1,141,040.00	384,664,094.00	-	313,252,324.40
TOTAL		384,664,094.00		313,252,324.40
SCHEDULE-24 - EXPORT ORIENTED RESEARCH PROGRAMMES				
1) Research Expenses - Small Cardamom	61,346,316.42		54,911,674.90	
2) Research Expenses - Large Cardamom	5,600,544.00		7,330,038.00	
3) Bio-Tech Production unit - Expenses	-	66,946,860.42	-	62,241,712.90
TOTAL		66,946,860.42		62,241,712.90

SPICES BOARD, COCHIN - 682025

20SCHEDULES FORMING PART OF THE INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31,2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
SCHEDULE-25 - QUALITY IMPROVEMENT				
Quality Improvement - Revenue Expenses	90,749,242.00	90,749,242.00	83,608,151.66	83,608,151.66
TOTAL		90,749,242.00		83,608,151.66
SCHEDULE-26 - EXPORT DEVELOPMENT PROGRAMMES				
1) Infrastructure - Spice Park	18,532,670.69		18,747,236.72	
2) Infrastructure - Spice Park Chindwara	-		-	
3) Grant in Aid - Tech Transfer & Production upgradation - Subsidy	-		-	
4) Adoption of HiTech	-		-	
5) Packaging Development-Assist & Reimbursement - Expenses	889,606.00		-	
6) Quality Certification	-		-	
7) Sending Business Samples Abroad	-		38,950.00	
8) Printing Brochures	-		-	
9) Set up / Upgrade in-house lab	515,892.00		-	
10) Brand Promotion	-		-	
11) Quality Evaluation Lab Delhi	-		-	
12) International fairs	41,498,441.50		39,305,475.68	
13) Assistance to Exporters-Trade fair participation - Subsidy	99,896.00		304,886.00	
14) Market Study Abroad	808,400.00		-	
15) Trade Information and TIS Survey	-		150,000.00	
16) Information Technology	8,474,022.00		4,270,898.00	
17) Publications & Printing	2,829,221.00		11,287,416.00	
18) Marketing Services	138,102,887.43		151,236,048.00	
19) E - Auction in Cardamom	-		-	
20) Assistance to Research Institutions	1,532,717.00		(97,552.00)	
21) International Seminars / Meeting	429,985.00		34,335.00	
22) Establishing export oriented processing unit- Training HRD	-		-	
23) Domestic Market Survey/ Studies and Promotion	4,693,395.00		5,961,227.00	
24) Technology and Process Upgradation	-		-	
25) Buyer Seller Meet	2,323,516.36	220,730,649.98	854,926.00	232,093,846.40
TOTAL		220,730,649.98		232,093,846.40

SPICES BOARD, COCHIN - 682025

20SCHEDULES FORMING PART OF THE INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31,2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
SCHEDULE-27 - HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT & WORKS				
HRD & Works	10,605,247.68	10,605,247.68	3,613,801.40	3,613,801.40
TOTAL		10,605,247.68		3,613,801.40
SCHEDULE-28 - FINANCE CHARGES				
1) On Fixed Loans	-		-	
2) On Other Loans (Including Bank Charges)	74,743.66		478,665.86	
3) Others (Specify)	-	74,743.66	-	478,665.86
TOTAL		74,743.66		478,665.86
SCHEDULE-29 - OTHERS				
1) Educational Stipend	-		-	
2) Grant to Educational Institutions	-		-	
3) DBT - Root Grubs - Expenses	-		-	
4) Model Organic Farm	-		-	
5) MDA Grant Payment	-	-	-	-
TOTAL		-		-
SCHEDULE-30 - DEPRECIATION				
1) Depreciation - Land (Lease Amortisation)	1,933,672.00		-	
2) Depreciation - Buildings	171,850,419.09		190,944,910.10	
3) Depreciation - Vehicles	490,502.98		577,062.33	
4) Depreciation - Irrigation & PP Equipments	179,158.33		180,918.42	
5) Depreciation - Computer Hardware	2,188,410.89		2,633,778.73	
6) Depreciation - Farm/ Curing House	2,489.17		2,620.18	
7) Depreciation - Reference & Library Books	31,315.00		52,783.50	
8) Depreciation - Plant & Machinery	12,637,445.31		14,000,765.28	
9) Depreciation - Water Supply Installations	1,789.96		1,988.85	
10) Depreciation - Furniture & Fixtures	2,946,829.65		3,261,177.00	
11) Depreciation - Lab Equipments	34,879,187.57	227,141,219.95	39,202,270.09	250,858,274.48
TOTAL		227,141,219.95		250,858,274.48

SPICES BOARD, COCHIN - 682025

SCHEDULES FORMING PART OF THE RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31, 2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
SCHEDULE-31 - CASH & INSTRUMENTS IN HAND (OPENING BALANCE)				
1 General Cash	-		-	
2 Cash & Instruments in hand	-		-	
3 Permenant Advance / Office Imprests	-	-	-	-
TOTAL		-		-
SCHEDULE-32 - BANK BALANCE (OPENING BALANCES)				
1 SBT Cochin A/c No - 57067470909	11,066,798.40		8,270,048.28	
2 SBH Vennala A/c No - 52026450364	-		-	
3 SBI, Cochin A/c No - 30026867834	-		-	
4 Axis Bank, Cochin - 081010200018081	2,521,690.54		1,788,940.39	
5 Central Bank, New Delhi A/c No - 153	91,882.50		91,882.50	
6 SBT, Nedumkandom A/c No - 57050612514	6,329,366.43		13,557,300.72	
7 Axis Bank - (Receipts A/c. SUDAN)	13,460,206.30		27,422,280.30	
8 UBI, Cheruthony A/c	-		-	
9 SBI, Shimoga A/c No - 1064023356	-		-	
10 UBI, Nedumkandam - Zonal Office	-		-	
11 UBI, Rajakumari Zonal Office	-		-	
12 UBI, Nedumkandam - Regional Office	-		-	
13 UBI, Vandamedu A/c No - 29049	-		-	
14 SBM, Mercara A/c No - 57046308408	-		-	
15 SBM, Saklespur A/c No - 54030030186	-		-	
16 SBM, Chickmagalur A/c No - 54010970204	-		-	
17 SBI, Gangtok A/c No - 11018602438	-		-	
18 UBI, Kumily Regional Office A/c	-		-	
19 UBI, Kumily Zonal Office A/c	-		-	

SPICES BOARD, COCHIN - 682025

SCHEDULES FORMING PART OF THE RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31, 2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
20 SBT, Zonal Office, Kattapana	-		-	
21 SBT Kalpetta RO	-		-	
22 SBI Padivattom	44,132.00		44,132.00	
23 AXIS Bank - NPS Account	8,885.47		13,065.47	
24 UBI Dindigul ZO	-		-	
25 UBI, Bodynayakannur	-		-	
26 Axis Bank Cochin, Payment Account	35,245.00		-	
27 PNB Palarivattom A/c No.-7176002100002239	25,176,259.74		107,844,326.02	
30 PNB Palarivattom A/c No.-7176002100002354	1,766,159.03		3,375,535.82	
31 PNB Palarivattom-A/c No.7176002100002381(Cres)	419,459.94		15,156,742.10	
32 PNB Sudan-A/c No.-7176002100002345	9,178,693.11	70,098,778.46	-	177,564,253.60
TOTAL		70,098,778.46		177,564,253.60
SCHEDULE-33 - OPENING BANK BALANCE (IN DEPOSIT ACCOUNTS)				
1 Short Term Deposit General	557,029,635.00		131,736,313.00	
2 Short Term Deposit Externally Aided	571,573,565.00	1,128,603,200.00	753,585,891.00	885,322,204.00
TOTAL		1,128,603,200.00		885,322,204.00
SCHEDULE-34 - GRANT FROM GOVT. OF INDIA				
1 Plan-Grant in Aid-Other than NE Region	535,900,000.00		435,600,000.00	
2 Plan-Grant in Aid- NE Region	39,900,000.00		39,900,000.00	
3 Plan-Subsidy-Other than NE Region	340,000,000.00		290,000,000.00	
4 Plan-Subsidy-NE Region	29,000,000.00		39,000,000.00	
5 Plan-Grant in Aid-Sub Plan SC	17,700,000.00		-	
6 Plan-Subsidy-Sub Plan SC	32,200,000.00		20,300,000.00	
7 Plan-Grant in Aid-Sub Plan SC-Capital	100,000.00		100,000.00	
8 Plan-Grant in Aid-Other than NE Region-Capital	75,000.00		100,000.00	
9 Plan-Grant in Aid- NE Region-Capital	125,000.00		100,000.00	
10 Plan-Grant in Aid-Sub Plan -ST	17,800,000.00		17,800,000.00	
11 Plan-Subsidy-Sub Plan ST	32,200,000.00		32,200,000.00	
12 Plan-Grant in Aid-Swachhta Action	5,000,000.00	1,050,000,000.00	4,600,000.00	879,700,000.00
TOTAL		1,050,000,000.00		879,700,000.00

SPICES BOARD, COCHIN - 682025

SCHEDULES FORMING PART OF THE RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31, 2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
SCHEDULE-35 - GRANT FROM GOVT. OF INDIA				
Non Plan Grant in Aid	-	-	-	-
TOTAL		-		-
SCHEDULE-36 - SUPPORT FROM OTHER INSTITUTIONS				
Cardamom Development Fund	-	-	2,268,390.00	2,268,390.00
TOTAL		-		2,268,390.00
SCHEDULE-37 - GRANT FROM STATE GOVERNMENTS - REVENUE				
1 Government of Karnataka - WGDP	-		-	
2 Government of Kerala - Planning Board	-	-	-	-
TOTAL		-		-
SCHEDULE-38 - GRANT FROM OTHER AGENCIES - REVENUE				
1 ASIDE - New Delhi	-		-	
2 ASIDE - Kolkata	-		-	
3 ASIDE - Guna	-		-	
4 ASIDE - Guntur	-		-	
5 ASIDE - Kota	-		-	
6 ASIDE - Kandla	-		-	
7 ASIDE - Rai Bareli Spice Park	-		-	
8 ASIDE - Mumbai	-		-	
9 ASIDE - IIPM	-		2,512,330.00	
10 ECO - Friendly Neem Project	-		-	
11 ICAR - NAIP	-		-	
12 ICAR-AICRPS	1,950,000.00		398,973.00	
13 Inter Institutional Collaborative Research	-		-	
14 Soil based Plant Nutrient Management	-		-	
15 DBT-Development of INM Package	-		-	
16 Devpt. Of Micro Satellite Markers	-		-	
17 DUS Test Centre	-		-	

SPICES BOARD, COCHIN - 682025

SCHEDULES FORMING PART OF THE RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31, 2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
18 National Horticulture Mission - Pepper	-		-	
19 E - Spice Project Ministry of IT	-		41,692,000.00	
20 MIDH	-		-	
21 RKVY - Andhra Pradesh	-		19,800.00	
22 RKVY ASSAM	-		-	
23 Areawide IPM Black Pepper	-		728,753.00	
24 MEA - Myanmar Large Cardamom	-		-	
25 Centre of Excellence in Microbiology	-		-	
26 Ginger Project Bastar	-		-	
27 WTO STDF	-		-	
28 Quality Standards in Indian Medicinal Plants	-		-	
29 International Pepper Community	-		-	
30 MIDH Integrated Project on Turmeric Haryana	-		2,750,000.00	
31 Study of Evaluation of Hunk	770,000.00	2,720,000.00	770,000.00	48,871,856.00
TOTAL		2,720,000.00		48,871,856.00
SCHEDULE-39 - EARMARKED FUNDS				
1 QUALITY STANDARDS IN EXPORTS OF SPICES	20,000,000.00		20,000,000.00	
2 INFRASTRUCTURE OF SPICE PARKS	10,855,551.00		10,301,327.00	
3 PENSION LIABILITIES	100,000,000.00	130,855,551.00	100,000,000.00	130,301,327.00
TOTAL		130,855,551.00		130,301,327.00
SCHEDULE-40 - INCOME FROM INVESTMENTS - EARMARKED FUNDS				
1 ASIDE - Mumbai				
2 ASIDE - Guna				
3 ASIDE - New Delhi				
4 ASIDE - Chennai				
5 ASIDE - Tuticorin				
6 ASIDE - Guntur				
7 ASIDE -Kota				
8 ASIDE -Kandla				

SPICES BOARD, COCHIN - 682025

SCHEDULES FORMING PART OF THE RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31, 2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
9 ASIDE -Raibareli				
10 Centre of Excellence in Microbiology				
11 ASIDE - Kolkatta	-		-	
12 Infrastructure for spice park	-		-	
13 Quality standard in Spice Export	-		-	
14 E-Spice Project	-		-	
15 Pension Liabilities	-	-	-	-
TOTAL		-		-
SCHEDULE-41 -INTEREST RECEIVED ON BANK DEPOSITS				
1 Interest on Short Term Deposit	31,201,039.00		28,459,167.91	
2 Other Bank Interest	525,949.00		589,338.00	
3 Interest on Short Term Deposit - Pension	35,203,528.00	66,930,516.00	29,382,441.69	58,430,947.60
TOTAL		66,930,516.00		58,430,947.60
SCHEDULE-42 -INTEREST RECEIVED ON LOANS , ADVANCES ETC				
1 Interest received from Employees - HBA	897,951.00		1,017,891.00	
2 Other Interest from Employees	100,665.00		127,300.00	
3 Interest on Mobilisation Advance	-	998,616.00	45,733.00	1,190,924.00
TOTAL		998,616.00		1,190,924.00
SCHEDULE-43 - NON PLAN - INTERNAL AND EXTRA BUDGETORY RESOURCES				
I				
Seedlings, Products, Analytical charges and other receipts				
1 Cardamom Seedlings	-		750.00	
2 Cardamom	-		-	
3 Pepper Cuttings	-		9,825.00	
4 Pepper	-		-	
5 Bio Agent	11,368,260.00		2,761,349.00	
6 Other Products - Res.Farm	171,382.00		1,785,025.00	
7 Analytical Charges	92,849,048.72	104,388,690.72	68,596,035.63	73,152,984.63

SPICES BOARD, COCHIN - 682025

SCHEDULES FORMING PART OF THE RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31, 2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
II Income From Spices Park				
1 User Fee - Spices Park	-		-	
2 Development Charges	-		-	
3 Lease proceeds	-	-	-	-
III Fees for registration & Licensing				
1 Auctioners ' and Dealers' Licence Fee	(8,600.00)		1,492,700.00	
2 Participation fee collected from exporters	8,088,221.00		8,260,000.00	
3 User Fee-E Auction	-		8,083,391.00	
4 C R E S	28,174,021.38		33,049,538.24	
5 Consultation Fees	-	36,253,642.38	-	50,885,629.24
IV Subscriptions to Journals & Sale of Periodicals				
1 Periodicals /News Letters	27,430.00		236,735.00	
2 Magazines	-		-	
3 Advertisement/ News letters	-	27,430.00	-	236,735.00
V Other Miscellaneous Income				
1 Guest Room Rent	945,505.00		1,455,657.00	
2 Sale of Scrap	14,945.00		152,093.00	
3 Refund - Brand promotion Grant	-		-	
4 Other Receipts	3,149,364.76		4,860,845.02	
5 Chemical and other lab materials like glasswares	-		-	
6 Receipt - Other farm products	-	4,109,814.76	-	6,468,595.02
TOTAL		144,779,577.86		130,743,943.89
SCHEDULE-44 - LOAN REPAYMENTS				
1 House Building Advance	-		-	
2 Car Advance	19,920.00		18,260.00	
3 Scooter Advance	246,483.00		35,900.00	
4 Cycle Advance	-		1,050.00	
5 Computer Advance	90,145.00		96,680.00	
6 Promotion of Indian Spices Brand	7,320,871.00	7,677,419.00	2,500,000.00	2,651,890.00
TOTAL		7,677,419.00		2,651,890.00

SPICES BOARD, COCHIN - 682025

SCHEDULES FORMING PART OF THE RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31, 2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
SCHEDULE-45 - OTHER RECEIPTS				
1 Training Fee collected	50,850.00		219,188.00	
2 PSFT Membership Fees	-		-	
3 Growers ID Card	-		150.00	
4 Other Receipts Bus Fare	-		-	
5 Other receipts	-		-	
6 Licence Fee Board's Quarters	89,752.00		93,147.00	
7 Sale of Vehicle	-	140,602.00	-	312,485.00
TOTAL		140,602.00		312,485.00
SCHEDULE-46 – OTHER ADVANCE / DEPOSITS				
1 Travel Advance	1,401,000.00		2,825,691.00	
2 LTC Advance	675,775.00		940,269.00	
3 Festival Advance	-		9,000.00	
4 Medical Advance	285,522.00		312,000.00	
5 Pay Advance	-		-	
6 Warm Clothing Advance	-		-	
7 Other Advances	-	2,362,297.00	-	4,086,960.00
TOTAL		2,362,297.00		4,086,960.00
SCHEDULE-47A - DEPOSITS FROM OUTSIDE PARTIES				
Deposit from Outside Parties	41,521,688.66	41,521,688.66	69,010,547.81	69,010,547.81
TOTAL		41,521,688.66		69,010,547.81
SCHEDULE-47B- RECOVERIES AWAITING REMITTANCE				
CURRENT LIABILITY RECOVERIES	237,771,605.40	237,771,605.40	313,413,110.16	313,413,110.16
TOTAL		237,771,605.40		313,413,110.16

SPICES BOARD, COCHIN - 682025

SCHEDULES FORMING PART OF THE RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31, 2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
EXPENDITURE - PLAN				
SCHEDULE - 48 - SCHEMES				
1 Grant in Aid - Educational Institutions	-		-	
2 Grant in Aid - Educational Stipend	-	-	-	-
TOTAL		-		-
SCHEDULE - 49 - ESTABLISHMENT EXPENSES				
1 Personnel Cost Salary Officers	18,200,025.00		8,967,217.00	
2 Personnel Cost-Retirement Benefits Officers	87,084,898.00		66,041,957.00	
3 Personnel Cost - Salary Staff	34,081,557.00		28,973,761.00	
4 Personnel Cost-Retirement Benefits Staff	144,730,974.00		123,837,849.00	
5 Personnel Cost - Other Expenses	673,980.00		1,968,398.00	
6 Establishment Expenses	9,483,262.90		7,292,404.00	
7 Travelling Expenses		294,254,696.90		237,081,586.00
TOTAL		294,254,696.90		237,081,586.00
SCHEDULE - 50 - ADMINISTRATIVE EXPENSES				
1 Rent, Rates & Taxes	-		224,756.00	
2 Administration Costs & Advertisement Charges	86,310,699.25		27,694,641.84	
3 Finance Charges & Bank Charges	74,743.66		478,665.86	
4 Service Tax and Edu cess	-		-	
5 Other Charges Capital	853,180.00	87,238,622.91	470,990.00	28,869,053.70
TOTAL		87,238,622.91		28,869,053.70

SPICES BOARD, COCHIN - 682025

SCHEDULES FORMING PART OF THE RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31, 2020

Particulars	Amount (in Rupees)	
	Current year 2019-20	Previous year 2018-19
EXPENDITURE - PLAN		
SCHEDULE - 51 - EXPORT ORIENTED PRODUCTION PROGRAMMES		
1 Extension Advisory Scheme	146,837,418.00	171,308,636.40
2 Small Cardamom Certified Nursery - Subsidy & Other Expenses	-	-
3 Poly Bag Nursery Scheme	-	-
4 Departmental Nursery Scheme	4,736,761.00	5,010,327.00
5 Replanting - Small Cardamom	54,861,528.00	29,975,775.00
6 Rejuvenation - Small Cardamom	9,869,750.00	-
7 Replanting Cardamom - Karnataka Region	-	-
8 WGDP Karnataka - Subsidy	-	-
9 WGDP Kerala - Subsidy	-	-
10 WGDP TamilNadu - Subsidy	-	-
11 Rain Water Harvesting Small Cardamom - Subsidy	198,920.00	306,416.00
12 Rain Water Harvesting (NE)	27,675.00	-
13 Rain Water Harvesting Sikkim	-	-
14 Improved Curing Devices SC - Subsidy	3,334,249.00	1,026,485.00
15 Large Cardamom Extension Expenses	49,723,719.00	51,025,107.00
16 Large Cardamom Rejuvenation	-	-
17 Planting Material Production-Pepper in Wayanad	-	-
18 Replanting Rejuvenation Pepper in Wayanad	-	-
19 Planting material Production-Pepper in NE	-	-
20 Replanting Rejuvenation Pepper in NE	-	-
21 Large Cardamom Curing House-Sikkim - Subsidy	-	-
22 Large Cardamom Certified Nursery - Subsidy & Other Expenses	-	-
23 Replanting Large Cardamom Sikkim / W.B Region	56,596,120.00	41,443,145.00
24 Pepper Planting	-	-
25 Supply of Polythene Sheets - Subsidy	-	-
26 Supply of Bamboo Mats - Subsidy	-	-
27 Establishing Vermi Compost Pits - Subsidy	1,413,000.00	899,250.00

SPICES BOARD, COCHIN - 682025

SCHEDULES FORMING PART OF THE RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31, 2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
28 Promotion of IPM in Chilly - Subsidy	-		-	
29 Promotion of IPM in Pepper - Subsidy	-		-	
30 Pepper Thresher - Subsidy	2,461,202.00		2,805,778.00	
31 Seedspices Threshers (Power)	3,690,000.00		406,500.00	
32 Seedspices Threshers (Manual)	-		-	
33 Turmeric Boilers	7,853,200.00		3,749,000.00	
34 Turmeric Polishers	1,600,000.00		946,080.00	
35 Curing House subsidy (NE) - Modified Bhatties	583,500.00		1,126,250.00	
36 Large Cardamom New Planting (NE)	-		-	
37 Training to Farmers - N.E	218,560.00		-	
38 Organic Cultivation-Ginger.N.E - Subsidy	-		-	
39 Organic Production of Turmeric-N.E - Subsidy	-		-	
40 Organic Naga Chilli	-		-	
41 Organic Cultivation of Spices	-		-	
42 Lakadong Turmeric - Organic	-		-	
43 Certification Organic Farming	-		-	
44 Monkey Menance Scheme For Cardomom In Karnataka	-		-	
45 Gap Supply of Kits	-		-	
46 Bee Keeping Boxes	-		-	
47 Weed Cutter/ Pit Maker	-		-	
48 Plant Promotion Protection Equipment	-		-	
49 Washing Equipment	-		-	
50 Polishers - Cardamom	-		-	
51 Training-North East	-		-	
52 Irrigation Structure -Sikkim WB NE	-		-	
53 Irrigation Equipment - Sikkim WB NE	-		-	
54 Pepper Clove Harvesting Ladder	-		-	
55 Pepper Cleaner Grader	-		-	
56 Nutmeg Dehuller	-		-	
57 Nutmeg Drier	1,050,500.00		183,000.00	
58 Mint Distillation Units	710,390.00		1,327,404.00	
59 Assistance for ICS Maintenance	-		-	
60 Grading Sieves - Sikkim WB NE	-		-	

SPICES BOARD, COCHIN - 682025

SCHEDULES FORMING PART OF THE RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31, 2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
61 ILD - Karnataka	-		-	
62 ILD - Kerala	-		-	
63 ILD - Tamil Nadu	-		-	
64 Pitt Digger - Sikkim WB NE	-		-	
65 Saffron Development Programme	-		-	
66 Sickle and Hoe Churi - Sikkim WB NE	-		-	
67 Small Cardamom Plant Protection Equipment	-		-	
68 Sprayer - Sikkim WB NE	-		-	
69 Training- Overseas	238,964.00		-	
70 Large Cardamom Planting Material Production	8,206,250.00		63,000.00	
71 Small Cardamom Planting Material Production	2,275,100.00		-	
72 Capital Expenditure	115,306.00		824,724.00	
73 SAWO Driers	-		-	
74 Skill Development Programme on Nursery management in spices	-		-	
75 EOP Scheme	-		213,416.00	
76 Large Cardamom Irrigation Equipment	95,760.00		325,792.00	
77 Large Cardamom Irrigation Structures	30,000.00		285,500.00	
78 Organic Seed Bank	37,500.00		25,000.00	
79 Small Cardamom ILD -Irrigation Pump Set	260,786.00		330,463.00	
80 Small Cardamom ILD -Water Storage Structure	1,100,712.00		470,000.00	
81 Large Cardamom Agri Implements	142,000.00		-	
82 Small Cardamom ILD- Micro-Irrigation Equipment	49,558.00		-	
83 Social Securities Programme-Spice Producers Societies	1,076,220.00		-	
84 Sc Sub Plan	24,243,712.00		-	
85 ST Sub Plan	1,141,040.00	384,779,400.00	-	314,077,048.40
TOTAL		384,779,400.00		314,077,048.40
SCHEDULE - 52 - EXPORT ORIENTED RESEARCH PROGRAMMES				
1 Research Expenses - Small Cardamom-Revenue	61,346,316.42		54,911,674.90	
2 Research Expenses - Small Cardamom-Capital	2,983,470.00		8,193,616.00	
3 Research Expenses - Large Cardamom-Revenue	5,600,544.00		7,330,038.00	
4 Research Expenses - Large Cardamom-Capital		69,930,330.42	-	70,435,328.90
TOTAL		69,930,330.42		70,435,328.90

SPICES BOARD, COCHIN - 682025

SCHEDULES FORMING PART OF THE RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31, 2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
SCHEDULE-53- QUALITY IMPROVEMENT				
1 Quality Evaluation lab Cochin - Revenue	90,749,242.00		83,608,151.66	
2 Quality Evaluation Lab Cochin - Capital	1,797,485.00	92,546,727.00	21,976,835.00	105,584,986.66
TOTAL		92,546,727.00		105,584,986.66
SCHEDULE-54 - EXPORT DEVELOPMENT/PROMOTION PROGRAMME				
1 Infrastructure - Spice Park- Revenue	18,532,670.69		18,747,236.72	
2 Infrastructure - Spice Park-Capital	7,161,449.00		3,963,799.00	
3 Infrastructure - Spice Park Chindwara-Revenue	-		-	
4 Infrastructure - Spice Park Chindwara-Capital	-		-	
5 Grant in Aid - Tech Transfer & Production upgradation - Subsidy	-		-	
6 Adoption of HiTech	-		-	
7 Packaging Development-Assist & Reimbursement - Expenses	889,606.00		-	
8 Quality Certification	-		-	
9 Sending Business Samples Abroad	-		38,950.00	
10 Printing Brochures	-		-	
11 Set up / Upgrade in-house lab	515,892.00		-	
12 Quality Evaluation lab Mumbai - Revenue	-		-	
13 Quality Evaluation lab Mumbai - Capital	-		-	
14 Quality Evaluation Lab Guntur - Capital	-		-	
15 Quality Evaluation Lab Chennai - Capital	-		-	
16 Quality Evaluation Lab Tuticorin - Capital	-		-	
17 Quality Evaluation lab Delhi - Revenue	-		-	
18 Quality Evaluation Lab Delhi - Capital	-		-	
19 International fairs	41,498,441.50		39,305,475.68	
20 Assistance to Exporters-Trade fair participation - Subsidy	99,896.00		304,886.00	
21 Market Study Abroad	808,400.00		-	
22 Trade Information and TIS Survey - Revenue	-		150,000.00	
23 Trade Information and TIS Survey - Capital	-		-	
24 Information Technology - Revenue	8,474,022.00		4,270,898.00	
25 Information Technology - Capital	1,835,102.00		817,806.00	
26 Publications & Printing - Revenue	2,829,221.00		11,287,416.00	

SPICES BOARD, COCHIN - 682025

SCHEDULES FORMING PART OF THE RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31, 2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
27 Publications & Printing - Capital	-		-	
28 Marketing Services - Revenue	138,102,887.43		151,236,048.00	
29 Marketing Services - Capital	32,780.00		(4,779,466.00)	
30 E - Auction in Cardamom-Revenue	-		-	
31 E - Auction in Cardamom-Capital	-		-	
32 Brand Promotion	-		-	
33 Assistance to Research Institutions	1,532,717.00		(97,552.00)	
34 International Seminars / Meeting	429,985.00		34,335.00	
35 Export oriented processing unit- Revenue	-		-	
36 Domestic Market Survey/ Studies and Promotion	4,693,395.00		5,961,227.00	
37 Technology and Process Upgradation	-		-	
38 Buyer Seller Meet	2,323,516.36	229,759,980.98	854,926.00	232,095,985.40
TOTAL		229,759,980.98		232,095,985.40
SCHEDULE-55 - HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT & WORKS				
1 Training & Course Materials	1,892,675.68		918,814.40	
2 Maintenance Expenses (Civil & Electrical)	8,712,572.00		2,694,987.00	
3 HRD Capital	216,021.00	10,821,268.68	152,085.00	3,765,886.40
TOTAL		10,821,268.68		3,765,886.40
SCHEDULE - 56 - EXTERNALLY FUNDED/ASIDE SCHEMES				
1 Cardamom Development Fund - Revenue	-		-	
2 Cardamom Development Fund - Capital	-		(40,980.00)	
3 Eco-Friendly Neem Project - Phase II-Revenue	-		-	
4 Eco-Friendly Neem Project - Phase II-Capital	-		(152,690.00)	
5 ASIDE - Chindwara Revenue	-		-	
6 ASIDE - Chindwara Capital	-		-	
7 ASIDE - Guntur Revenue	-		-	
8 ASIDE - Guntur Capital	3,086,326.00		97,745.00	
9 ASIDE - Chennai Revenue	-		-	
10 ASIDE - Chennai Capital	-		-	
11 ASIDE - New Delhi Revenue	-		-	
12 ASIDE - New Delhi Capital	-		-	

SPICES BOARD, COCHIN - 682025

SCHEDULES FORMING PART OF THE RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31, 2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
13 ASIDE – Kolkatta-Revenue	-		-	
14 ASIDE - Kolkatta-Capital	-		4,085,881.00	
15 ASIDE -Tuticorin-Revenue	-		-	
16 ASIDE - Tuticorin-Capital	-		-	
17 ASIDE - Kandla Port Gujarat Capital	-		-	
18 ASIDE - Kandla Port Gujarat Revenue	-		-	
19 ASIDE – Mumbai - Revenue	-		236,808.00	
20 ASIDE – Mumbai Capital	-		7,182,731.00	
21 ASIDE - Guna Revenue	22,500.00		2,028,844.00	
22 ASIDE - Guna Capital	2,071,657.00		14,973,837.00	
23 ASIDE - Kota Revenue	-		50,000.00	
24 ASIDE - Kota Capital	-		-	
25 ASIDE - Hamirpur - Revenue	-		-	
26 ASIDE - Rai Bareli - Revenue	-		-	
27 ASIDE - Rai Bareli - Capital	-		-	
28 ASIDE - IIPM - Revenue	2,422,871.00		4,662,701.00	
29 ASIDE - IIPM Capital	-		4,389,895.00	
30 NAIP Scheme-Revenue	572,948.00		-	
31 NAIP Scheme-Capital	-		(92,003.00)	
32 NHM Kerala - Pepper planting material production-Revenue	-		3,726,277.35	
33 NHM Kerala - Pepper planting material production-Capital	-		-	
34 NHM Pepper-Replanting & Rejuvenation	-		-	
35 NHM Production of Organic Inputs	-		-	
36 NHM Integrated Pest Management	-		-	
37 NHM Pepper- HRD	-		-	
38 NHM- Functional Infrastructure	-		-	
39 NHM-Leaf Tissue Analytical Unit-Revenue	-		-	
40 NHM-Leaf Tissue Analytical Unit-Capital	-		-	
41 NHM-Project Implementation-Revenue	-		-	
42 NHM-Project Implementation-Capital	-		(767,000.00)	
43 NHM Karnataka - Revenue	-		-	
44 SHM-Bio-Tech Production unit - Expenses	1,722,578.00		-	
45 SHM-Bio-Tech Production unit - Capital	-		(4,476,350.00)	
46 ICAR - AICRPS	1,065,876.00		1,110,612.00	

SPICES BOARD, COCHIN - 682025

SCHEDULES FORMING PART OF THE RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31, 2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
47 ICAR - AICRPS-Capital	-		-	
48 Infrastructure for Spice Park Revenue	-		98,500.00	
49 Infrastructure for Spice Park Capital	-		-	
50 Quality Standard for Export	-		-	
51 Quality Standard for Export – Capital	-		-	
52 Devpt. Of Micro Satellite Markers Revenue	-		-	
53 Inter Institutional Collaborative Studies – CSIR - Revenue	-		-	
54 Inter Institutional Collaborative Studies - Revenue	-		-	
55 Disease Forecasting Unit - Revenue	-		-	
56 Disease Forecasting Unit - Capital	-		-	
57 Mobile Agri Clinic - SHM-Revenue	678,850.00		-	
58 DUS Test Centre Revenue	-		-	
59 PPV FRA Training	-		-	
60 Soil based Plant Nutrient Management	-		-	
61 DBT Root Grubs Expenses	-		-	
62 WGDG Karnataka - Subsidy	733,683.00		-	
63 MIDH - Revenue	-		2,920,327.00	
64 Myanmar Large Cardamom Development Project	-		-	
65 RKVY - Andhra Pradesh	-		1,366,737.00	
66 CSR Activities	-		-	
67 Areawide IPM Black Pepper - Revenue	-		-	
68 E - Spices Project Ministry Of IT	1,777,881.00		12,678,942.00	
69 Centre of Excellence in Microbiology - Capital	59,063.00		-	
70 Ginger Project Bastar	-		-	
71 Centre of Excellence in Microbiology - Capital	-		-	
72 Quality Standard - Indian Medicinal Plants	-		300,893.00	
73 WTO-STDF	100,000.00		-	
74 RKVY - ASSAM	-		840,000.00	
75 RPL - PMKVY	420,120.36		151,763.00	
76 Brand Promotion Fund	7,622,644.00		-	
77 New Pension System	37,094.47		-	
78 Product Research Fund	5,112,600.00		-	
79 World Bank ITC Project Fund	795,817.50	28,302,509.33	-	55,373,470.35
TOTAL		28,302,509.33		55,373,470.35

SPICES BOARD, COCHIN - 682025

SCHEDULES FORMING PART OF THE RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31, 2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
SCHEDULE-57-ADVANCE TO STAFF BEARING INTEREST				
1 HBA	400,000.00		400,000.00	
2 Car Advance	-		-	
3 Scooter Advance	425,453.00		-	
4 Cycle Advance	-		-	
5 Computer Advance	72,250.00	897,703.00	-	400,000.00
TOTAL		897,703.00		400,000.00
SCHEDULE-58- OTHER ADVANCE / DEPOSITS				
1 Travel Advance	782,275.00		3,614,619.00	
2 LTC Advance	851,375.00		936,001.00	
3 Festival Advance	-		-	
4 Medical Advance	-		597,522.00	
5 Pay Advance	-		-	
6 Warm Clothing Advance	-		-	
7 Other Advances	-	1,633,650.00	-	5,148,142.00
TOTAL		1,633,650.00		5,148,142.00
SCHEDULE-59- CURRENT LIABILITIES PAYABLE				
CURRENT LIABILITIES PAYABLE	9,821,900.51	9,821,900.51	36,236,847.00	36,236,847.00
TOTAL		9,821,900.51		36,236,847.00
SCHEDULE-60- RECOVERIES AWAITING REMITTANCE				
CURRENT LIABILITY RECOVERIES	197,117,975.48	197,117,975.48	327,721,309.38	327,721,309.38
TOTAL		197,117,975.48		327,721,309.38

SPICES BOARD, COCHIN - 682025

SCHEDULES FORMING PART OF THE RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31, 2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
SCHEDULE-61- OFFICE IMPREST / SPECIAL ADVANCE				
1 Special Advance	6,330,952.96		1,960,424.00	
2 Permenant Advance / Office Imprests	60,000.00	6,390,952.96	575,000.00	2,535,424.00
TOTAL		6,390,952.96		2,535,424.00
SCHEDULE-62 - ADVANCE/DEPOSITS WITH OUTSIDE PARTIES				
1 Advance Deposit With Outside Parties	30,049,110.07	30,049,110.07	85,841,792.41	85,841,792.41
TOTAL		30,049,110.07		85,841,792.41
SCHEDULE-63 - CASH & INSTRUMENTS IN HAND (CLOSING BALANCE)				
1 General Cash	-		-	
2 Cash & Instruments in hand	-	-	-	-
TOTAL		-		-
SCHEDULE-64 - CLOSING BANK BALANCE				
1 SBT Cochin A/c No - 57067470909	9,124,697.18		11,066,798.40	
2 SBH Vennala A/c No - 52026450364	-		-	
3 SBI, Cochin A/c No - 30026867834	-		-	
4 Axis Bank, Cochin - 081010200018081	2,517,690.54		2,521,690.54	
5 Central Bank, New Delhi A/c No - 153	91,882.50		91,882.50	
6 SBT, Nedumkandom A/c No - 57050612514	7,760,602.45		6,329,366.43	
7 Axis Bank - (Receipts A/c. SUDAN)	10,000.08		13,460,206.30	
8 UBI, Cheruthony A/c	-		-	
9 SBI, Shimoga A/c No - 1064023356	-		-	
10 UBI, Nedumkandam - Zonal Office	-		-	
11 UBI, Rajakumari Zonal Office	-		-	
12 UBI, Nedumkandam - Regional Office	-		-	
13 UBI, Vandamedu A/c No - 29049	-		-	
14 SBM, Mercara A/c No - 57046308408	-		-	
15 SBM, Saklespur A/c No - 54030030186	-		-	
16 SBM, Chickmagalur A/c No - 54010970204	-		-	
17 SBI, Gangtok A/c No - 11018602438	-		-	
18 UBI, Kumily Regional Office A/c	-		-	

SPICES BOARD, COCHIN - 682025

SCHEDULES FORMING PART OF THE RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON MARCH 31, 2020

Particulars	Amount (in Rupees)			
	Current year 2019-20		Previous year 2018-19	
19 UBI, Kumily Zonal Office A/c	-		-	
20 SBT, Zonal Office, Kattapana	-		-	
21 SBT Kalpetta RO	-		-	
22 SBI Padivattom	44,132.00		44,132.00	
23 AXIS Bank - NPS Account	9,425.47		8,885.47	
24 UBI Dindigul ZO	-		-	
25 UBI Bodinayakannur	-		-	
26 AXIS Bank Cochin-Payment Account	-		35,245.00	
27 PNB Palarivattom A/c No.-7176002100002239	181,289,865.16		25,176,259.74	
28 PNB Palarivattom A/c No.-7176002100002354	2,426,737.21		1,766,159.03	
29 PNB Palarivattom-A/c No.7176002100002381(Cres)	1,231,790.50		419,459.94	
30 PNB Sudan-A/c No.-7176002100002345	11,233,577.05		9,178,693.11	
		215,740,400.14		70,098,778.46
TOTAL		215,740,400.14		70,098,778.46
SCHEDULE- 65 - CLOSING BANK BALANCE (IN DEPOSIT ACCOUNTS)				
1 Short Term Deposits General	518,932,263.00		557,029,635.00	
2 Short Term Deposits Externally Aided	706,242,360.00	1,225,174,623.00	571,573,565.00	1,128,603,200.00
TOTAL		1,225,174,623.00		1,128,603,200.00

SPICES BOARD, COCHIN - 682025
SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED
31.03.2020

SCHEDULE - 66 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The Board generally follows accrual basis of accounting in the preparation of Income and Expenditure Account and Balance Sheet except for arrears of pay, DA if any, leave encashment, retirement benefits etc which are accounted on cash basis. The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention.

2. EARMARKED FUND FOR MAINTENANCE OF QUALITY STANDARD IN EXPORT OF SPICES

The Board has already set up Quality Evaluation Labs (QEL) at Cochin, Mumbai, Guntur, Narela in Delhi, Tuticorin, Chennai and Kandla in Gujarat with the sole objective of maintaining quality standard in export of Spices. The Board is also in the process of setting up QEL in Kolkata. The Board collects Analytical Charge from exporters' and utilize a part of the amount for quality up-gradation, harmonisation of international standards in spices and for benchmarking of our procedures with Global Standards. The Board also does export promotional activities including publicity, branding, marketing, highlighting the supreme quality of Indian Spices and Spice House Certification. In order to meet the objective, the Board has earmarked an amount of Rs.2 crore out of Analytical Charge received during the year 2019-20.

3. EARMARKED FUND FOR MAINTENANCE OF INFRASTRUCTURE OF SPICE PARKS

The Board has already set up Spices Park at Chhindwara in Madhya Pradesh, Puttady in Kerala, Jodhpur in Rajasthan, Guna in Madhya Pradesh, Sivagangai in Tamil Nadu, Guntur in Andhra Pradesh, Kota in Rajasthan and Raibareli in Uttar Pradesh with the object of providing common infrastructure facilities for both post-harvest and processing operation of spices close to the producing areas on par with international standards. The expenditure on setting up of Spices Park referred to above is financed out of both Plan Funds and assistance from ASIDE which will not be sufficient for the purpose. Substantial amount is required for the maintenance of Spices Park as well. Hence income received from the functional Spices Parks in the form of development charge/lease amount and User Fee amounting to Rs.1.09 crore has been earmarked for the completion/maintenance of Spices Parks.

4. EARMARKED FUND FOR SPICES BOARD EMPLOYEES' PENSION FUND

The Principal Director Commercial Audit (PDCA) observed the material impact of Rs.111.69 crore due to non-provision of liabilities in respect of employees by Spices Board towards pension, gratuity and leave encashment while considering the Audit Report of the Board for the year 2013 -14. Accordingly the Board had to produce before the PDCA, a letter of Comfort from the Ministry to the effect that necessary provision for meeting the pensionary liabilities in respect of the retiring/retired employees will be made during the respective years as part of the approved budget of the Board as and when decided in consultation with the Department of Expenditure, Ministry of Finance.

In these circumstance, the Board considers it appropriate that a Pension Fund be set up for the employees to meet this objective. Accordingly the LIC of India has been entrusted to make an actuarial valuation of the Board's pensionary liabilities as on 31.03.2016 as a preliminary step in this regard. The actuarial valuation from LIC of India as on 31.03.2016 was Rs.226.23 Crore (Rs.195.93 Crore for Pension, Rs.18.1 Crore for Gratuity and Rs.12.2 Crore for Leave Encashment)

In order to meet the Board's liability towards retirement benefits, out of Analytical Charges received by the Board for the year 2019-20, an amount of Rs.10 crore is earmarked for the year 2019-20 as done in the previous years towards Spices Board Employees' Pension Fund, . This process will be continued till the required amount is generated or the same is received from the Ministry by way of Budgetary release or otherwise. The Earmarked amount so made has been deposited in Term Deposit with Nationalised Banks.

5. INVENTORY VALUATION

As per Accounting Standard-2, Valuation of Inventories issued by the ICAI, Inventories are valued at cost or net realizable value whichever is lower. The closing stock of inventory as at 31-03-2020 is Rs.1,04,72,470/- which include Cardamom, Coffee, Pepper and Chemicals.

6. INVESTMENTS

Investments are classified as "long term investments" and "current investments" where ever applicable. Long term investments are carried at cost. Current investments are carried at lower of cost and fair value.

7. FIXED ASSETS

7.1. Fixed assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties, taxes, direct expenses and expenses related to acquisition.

SPICES BOARD, COCHIN - 682025
SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED
31.03.2020

7.2. The cost of fixed assets acquired during the year has been met out of the grant from the Government of India.

8. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS

Capital Work-in-Progress as on 31.03.2020 is Rs.3.80 Crores which represents works in relation to infrastructure facilities for Spices Park and Quality Evaluation cum Training Centres.

9. DEPRECIATION

With effect from 01.04.2008 Board has charged depreciation on its fixed assets at the rates mentioned in the Income Tax Rules. Depreciation on all assets is provided on Written Down Value (WDV) method. Depreciation with respect to additions to assets made during the year which are put to use for less than 180 days have been provided at half of the applicable rates.

10. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of such transactions, complying with AS-11 issued by the ICAI.

11. REVENUE RECOGNITION

(a) Grant in aid and subsidies: The programmes of the Board under plan are financed through grants-in-aid and subsidies from the Govt. of India. This is made through the approval of the annual budget submitted by the Board to the Government.

(b) Internal and Extra Budgetary Resources - Major source of the receipts are analytical charges of spice samples, sale proceeds of farm produce, subscription received on magazines/periodicals, registration fees collected from exporters and development charges, user fee and lease rent received from Spice Parks etc. These are recognised on accrual basis.

12. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES

12.1. Government grants/subsidy are accounted on realization basis.

12.2. Government grants are treated under both Capital approach and income approach wherever applicable complying with AS-12 issued by ICAI.

13. RETIREMENT BENEFITS

The provision towards retirement benefits of employees' viz. Gratuity, Pension Commutation, provision for accumulated leave encashment benefits are made in the accounts for the current year as per Actuarial valuation done by LIC of India during 2015-16. The employee benefits as per valuation Report comes to Rs.226.23 crore, out of which the Board has already provided Rs.197.54 crore till 31.03.2019. As on 31.03.2020 the amount is Rs.226.23 crores as per the assurance given to PDCA.

14. FUNDS RECEIVED FROM OUTSIDE AGENCIES

The funds received under Schemes of ASIDE/outside agencies are operated through a Nationalized Bank's account. The funds received under one scheme may not be sufficient for meeting the proposed expenditure of that scheme. Funds of the Board are utilized in these cases to meet the deficiency. The funding under ASIDE/outside agencies are for specific periods unlike the Plan/Non-plan funds released by the Government of India. As such, for practical conveniences the accounts of the Board funds and scheme funds are maintained together.

15. ADDITION TO FIXED ASSETS - PLAN FUND (TRANSFER TO CORPUS FUND)

The Grant received by the Board are general purpose Grants. The Grants are received for implementing various schemes/programmes of the Board. The Funds are also used for setting up or acquiring Fixed Assets to provide infrastructure facilities to the farmers and exporters. The operating expenses of the Board are also met from these Funds. The amount of Rs.1.50 Crore added to the corpus fund is the addition to Fixed Assets made during the year from Plan and Non Plan Funds. As the Grants are not specifically meant for acquisition of Fixed Assets, the deduction of the Grant amount from asset value or treating it as deferred revenue do not arise.

16. IMPAIRMENT OF ASSETS

As on the Balance Sheet date, the Board has assessed the recoverable value of Assets in line with the AS -28 issued by ICAI. The carrying amount of the assets was reviewed to ascertain impairment loss, if any, as on Balance Sheet date. The amount recoverable against the assets is higher than the carrying amount of each of the assets as on the valuation date. As such Board has not provided for any impairment losses in the financial statements.

SPICES BOARD, COCHIN - 682025
SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED
31.03.2020

17. DEPOSITS MADE OUT OF EXTERNALLY FUNDED / ASIDE SCHEMES

Balance with banks in Deposit accounts as on 31-03-2020 as stated in the financial statements amounting to Rs.122.52 crores is inclusive of Deposits made out of Externally Funded / ASIDE schemes amounting to Rs.70.62 crores

Schedule 1 to 30 and 31 to 67 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31-3-2020, The Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date.

SCHEDULE 67 - CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES

- 1.1 Claims against the entity not acknowledged as debts Rs.Nil (Previous year Rs. Nil)
 1.2 In respect of
 - Bank guarantees given by/on behalf of the entity Rs. Nil (Previous year Rs. Nil)

-Letters of Credit opened by Bank on behalf of the entity Rs.Nil

- Bills discounted with banks Rs. Nil (Previous year Rs. Nil)

- 1.3 Disputed demands in respect of: Income tax Rs. Nil (Previous year Rs. Nil) Sales tax Rs. Nil (Previous year Rs. Nil)

Municipal Taxes Nil (Previous years Rs Nil)

- 1.4 In respect of claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Entity Rs. Nil (Previous Year Rs. Nil)

2. CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) Rs.Nil (Previous year Nil)

3. LEASE OBLIGATIONS

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to Rs. Nil (Previous year Rs. Nil)

4. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

5. TAXATION

As the income of Spices Board is exempted under section 29-A of the Income -Tax Act 1961, no provision for Income tax has been considered necessary.

6.1 Value of imports Calculated on C.I.F. Basis.

- Purchase of finished Goods	USD	STERLING	YEN	CHF	GBP
- Capital Goods	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
- Stores, Spares and Consumables	USD	STERLING	YEN	CHF	GBP
	102398.9	1012	Nil	Nil	506

6.2 Expenditure in foreign currency

a) Travel	USD	EURO	AED	AUD	GBP	
	20291	Nil	Nil	Nil	Nil	
b) Remittances and Interest payment to Financial Institutions Banks in Foreign Currency - Nil						
c) Stall Rent on Trade Fair	USD	EURO	SGD	GBP	RM	AUD
	16564	58871.3	Nil	Nil	Nil	Nil
d) Other expenditure:	7670	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

SPICES BOARD, COCHIN - 682025
SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED
31.03.2020

Meetings and Seminar	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Others	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Commission on Sales: Nil

- Legal and Professional Expense: Nil

6.3 Earnings

Value of Exports on FOB basis Nil

6.4 Remuneration to auditors:

As Auditors NIL

- Taxation matters Nil

- For Management services Nil

-Others Nil

7. GENERAL PROVIDENT FUND

Maintained.

8. CAPITAL FUND

Balance of the fund as on 01.04.2019 was Rs.(-)59,09,64,178.25. Entire source of fund was by way of allocation received from Central Government. Hence, the amount received during the year in the nature of capital receipts from Government towards the requirements of the Board has been shown as addition to the fund. Excess of expenses over income for the year was Rs.43,33,33,395.98 which has been reduced from the fund. Balance of fund as on 31-3-2020 is Rs.(-)100,93,02,781.23. Fund received during the year as grants for acquisition of fixed assets under Plan and Non-Plan, has not been considered as earmarked funds for specific usage since it is not a fund meant for any specific asset. Organisation has not created any Capital Reserves, Revaluation Reserves and Special Reserve during the year. There is no General Reserve also.

9. OTHERS

Corresponding figures for the previous year have been regrouped/rearranged, wherever necessary.

Schedules 1 to 30 and 31 to 67 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31-3-2020. The Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date.

Sd/-
DIRECTOR (FINANCE)

Sd/-
SECRETARY